



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 14—अगस्त 20, 2004 (श्रावण 23, 1926)

No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 14—AUGUST 20, 2004 (SARVANA 23, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक
सरकारी और बैंक लेखा विभाग
केन्द्रीय कार्यालय
मुंबई, दिनांक 10 जुलाई 2004

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं. एफ. (8) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए लोक ऋण नियमावली 1946 के नियम 18 के अनुसरण में 2004 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई-400 008 को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग 'क' में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग 'ख' में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

सूची "क"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6
नई दिल्ली सर्कल 10% राहत पत्र, 1995					
डी. एच. 001740 जी.पी. (सी.)	रु. 4,50,000/-	संजय खुराना और मीता खुराना	जी.पी. क्युमलेटिव होने के कारण कोई ब्याज बकाया नहीं है।	अनुज खुराना	पीडीओ/डीटी/एलएन-2004 दिनांक 5.5.2004

कोलकाता सर्कल

5 1/2% बैंक (अधिग्रहण एवं अंतरण) क्षतिपूर्ति बांड 1999

1	2	3	4	5	6
सीए 005093	रु. 5,000/-	यूको बैंक	अर्ध वार्षिक व्याज भुगतान (53) दिनांक 18.01.96 तक दिया गया	यूको बैंक	फाइल सं. आई-2552 महाप्रबंधक का दिनांक 10.6.2004 का आदेश-झयरी सं. एलसीओ 182/03-04 दिनांक 11.6.2004

भायखला, मुंबई सर्कल

10% राहत पत्र, 1995

बी.सी. 3210 (जी.पी.एम.)	रु. 2,50,000/-	जगदीश द्वारकादास लालवानी नीतु जगदीश लालवानी	26/5/1998	जगदीश द्वारकादास लालवानी नीतु जगदीश लालवानी	06.25.72 20.5.03
----------------------------	----------------	---	-----------	---	-------------------------

(ए. एस. मोहिनाणी)
सहायक प्रबंधकसूची "ख"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया व्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6

भायखला, मुंबई सर्कल

10% राहत पत्र, 1999 (डीमेट)

बी.सी.एन. 007664 (जी.पी.एच.)	रु. 25,000/-	काली बुरजोरजी मेहता फ्रेनी काली मेहता (मृत)	07/09/1999	काली बुरजोरजी मेहता फ्रेनी काली मेहता (मृत)	06.25.63 30.7.2002
बी.सी.एन. 007667 (जी.पी.एन.)	रु. 25,000/-	फ्रेनी काली मेहता (मृत) काली बुरजोरजी मेहता	07/09/1999	फ्रेनी काली मेहता (मृत) काली बुरजोरजी मेहता	-वही-

कोलकाता सर्कल

10% राहत बांड, 1995

सीए 13037	रु. 2,08,000/-	1. चंचल कुमार चौधुरी 2. दीपाली चौधुरी 3. विनय चौधुरी	असंचयी	1. चंचल कुमार चौधुरी 2. दीपाली चौधुरी 3. विनय चौधुरी	फाइल सं. आई-2554 महाप्रबंधक का आदेश दिनांक 03-03-2004 (झयरी सं. एलसीओ 126/03-04 दिनांक 03.03.04)
-----------	----------------	--	--------	--	--

9% राहत बांड, 1999

सीएएन 001006	रु. 42,000/-	1. चंचल कुमार चौधुरी 2. दीपाली चौधुरी	असंचयी	1. चंचल कुमार चौधुरी 2. दीपाली चौधुरी	-वही-
सीएएन 003590	रु. 40,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-

कोलकाता सर्कल

10% राहत बांड, 1995

सीए 13032	रु. 62,000/-	1. दीपाली चौधुरी 2. चंचल कुमार चौधुरी 3. विनय चौधुरी	असंचयी	1. दीपाली चौधुरी 2. चंचल कुमार चौधुरी 3. विनय चौधुरी	फाइल सं. आई-2553 महाप्रबंधक का आदेश दिनांक 03-03-2004 (झयरी सं. एलसीओ 127/03-04 दिनांक 03-03-2004)
-----------	--------------	--	--------	--	---

1	2	3	4	5	6
9 % राहत बॉन्ड, 1999					
सीएन 005751	रु. 50,000/-	1. दीपाली चौधुरी 2. चंचल कुमार चौधुरी 3. विनय चौधुरी	असंचयी	1. दीपाली चौधुरी 2. चंचल कुमार चौधुरी 3. विनय चौधुरी	फाइल सं. आई-2553 महाप्रबंधक का आदेश दिनांक 03-03-2004 (खायरी सं. एलसीओ 127/03-04 दिनांक 03-03-2004)
सीएन 005527	रु. 1,40,000/-	1. दीपाली चौधुरी 2. चंचल कुमार चौधुरी 3. विनय चौधुरी	असंचयी	1. दीपाली चौधुरी 2. चंचल कुमार चौधुरी 3. विनय चौधुरी	फाइल सं. आई-2553 महाप्रबंधक का आदेश दिनांक 03-03-2004 (खायरी सं. एलसीओ 127/03-04 दिनांक 03-03-2004)
कानपुर सर्कल					
10% राहत पत्र 1993 (वचन पत्र संचयी)					
के. एन. 000071	रु. 1,00,000/-	रमेश चन्दर भाटिया एवं सरोज भाटिया		रमेश चन्दर भाटिया एवं सरोज भाटिया	उप महाप्रबंधक का आदेश दिनांक 03-04-04 का (खायरी सं. आई. आर. 2450/80 दिनांक 10.05.04)
के. एन. 0001065	रु. 10,00,000/-	नीलम मिश्रा		नीलम मिश्रा	उप महाप्रबंधक का आदेश दिनांक 10-05-04 (खायरी सं.आई. आर. 2488/80 दिनांक 10.05.04)
के. एन. 0001066	रु. 10,00,000/-	तदैव	-	-तदैव-	-तदैव-
के. एन. 0001137	रु. 10,00,000/-	नीलम मिश्रा एवं संजीव मिश्रा	-	नीलम मिश्रा एवं संजीव मिश्रा	-तदैव-
के. एन. 0001384	रु. 9,00,000/-	तदैव	-	-तदैव-	-तदैव-
के. एन. 0001067	रु. 10,00,000/-	मालती मिश्रा	-	मालती मिश्रा	-तदैव-
के. एन. 0001068	रु. 10,00,000/-	तदैव-	-	मालती मिश्रा	-तदैव-
के. एन. 0001136	रु. 20,00,000/-	मालती मिश्रा एवं संजीव मिश्रा	-	मालती मिश्रा एवं संजीव मिश्रा	-तदैव-
के. एन. 0001244	रु. 6,00,000/-	तदैव-	-	-तदैव-	-तदैव-

ए. एस. मोहिनाणी
सहायक प्रबंधक

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
केन्द्रीय कार्यालय, पुणे-5

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और बैठक) विनियम 2004

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का पांचवा) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के बाद तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व संस्वीकृति के साथ, एतद्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और बैठक) विनियम 2004 अस्तित्व में लाता है।

अध्याय 1

प्रस्तावना

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ -

- (i) ये विनियम बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर व बैठक) विनियम, 2004 कहलाएंगे.
- (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे.

2. परिभाषाएं - इन विनियमों में इनकी विषय वस्तु या संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल किसी बात के नहीं होने पर -

- (क) "अधिनियम" का अर्थ बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 है.
- (ख) "बैंक" का अर्थ अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित बैंक ऑफ महाराष्ट्र है.
- (ग) "मंडल" का अर्थ अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित निदेशक मंडल है.
- (घ) "अध्यक्ष" का अर्थ मंडल का अध्यक्ष है.
- (ङ) "समिति" का अर्थ मंडल द्वारा विनियम "2 ए" के अन्तर्गत गठित एक समिति से है.
- (च) "कार्यपालक निदेशक" का अर्थ पूर्णकालिक निदेशक है, जो प्रबंध निदेशक नहीं है.
- (छ) "महाप्रबंधक" का अर्थ बैंक का महाप्रबंधक है.
- (ज) "प्रबंध समिति" का अर्थ योजना के खंड 13 के अधीन गठित एक समिति है.
- (झ) "प्रबंध निदेशक" का अर्थ बैंक का प्रबंध निदेशक है.
- (ञ) "रजिस्टर" का अर्थ बैंक की एक या अधिक बहियों में अनुपालित शेयर धारकों का रजिस्टर है तथा उसमें अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2जी) के अधीन कंप्यूटर फ्लॉपियों या डिस्कों में संकलित शेयर धारकों का रजिस्टर और निक्षेपागार अधिनियम 1996 (1996 का 22वाँ) की धारा 11 के अंतर्गत निक्षेपागार द्वारा रखे गये लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर.
- (ट) "रजिस्ट्रार" का अर्थ बैंक द्वारा नीचे लिखे उद्देश्यों के लिए नियुक्त व्यक्ति है -
 - (i) निर्गम के संबंध में निवेशकों से आवेदन-पत्रों का संग्रह करना,
 - (ii) निवेशकों से प्राप्त आवेदन-पत्रों तथा धनराशियों या प्रतिभूतियों के विक्रेता को प्रदत्त राशियों का समुचित लेखा रखना,
 - (iii) इन कार्यों में बैंक की सहायता करना -
 - (क) स्टाक एक्सचेंज से परामर्श करके प्रतिभूतियों के आबंटन का आधार निर्धारित करना,
 - (ख) प्रतिभूतियों के आबंटन हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची को अंतिम रूप देना.
 - (ग) निर्गम के संबंध में आबंटन-पत्रों, धनवापसी आदेशों या प्रमाणपत्रों एवं अन्य संबंध प्रलेखों का प्रसंस्करण करना तथा उन्हें भेजना, और
 - (iv) बैंक द्वारा समय समय पर सौंपा जाने वाला अन्य कार्य,
- (ठ) "योजना" का अर्थ राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 है.
- (ड) "शेयर" का अर्थ बैंक की शेयर पूंजी का शेयर है.
- (ढ) "शेयर अंतरण एजेंट" में -

- (i) बैंक द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों के धारकों के अभिलेखों का बैंक की ओर से अनुपालन तथा उसकी प्रतिभूतियों के अंतरण एवं प्रतिदान से संबंध सभी विषयों में व्यवहार करने वाला कोई व्यक्ति, या
 - (ii) बैंक का एक विभाग या प्रभाग, (जिसका नाम कुछ भी हो) जो उप-खंड (i) में उल्लिखित कार्यों का निष्पादन करता है, सम्मिलित है।
- (ग) अध्याय 3 में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, जिनकी परिभाषा इन विनियमों में नहीं दी गयी है परंतु निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम 22) में दी गयी है, अधिनियम या योजना में उन्हें क्रमशः दिया गया अर्थ धारण करेंगी।

- 2 ए (i) विनियम 59 के खण्ड (ii) में किए गए उपबंध को छोड़कर मंडल जब भी आवश्यक समझे इस विनियम के उद्देश्य से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक व उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक तथा अन्य दो निदेशकों, जैसा कि आवश्यक समझा जाए, की सदस्यता वाले समिति का गठन कर सकता है।
- (ii) इस विनियम के अंतर्गत गठित समिति मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे नियमों व कार्यविधियों का पालन करेगी।

अध्याय 2

शेयर और शेयर रजिस्टर

3. शेयरों का स्वरूप

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर चल संपत्ति होंगे, जिनका अंतरण इन विनियमों के अंतर्गत बतायी गयी रीति से हो सकता है।

4. शेयर पूंजी के प्रकार

- (i) अधिमान शेयर पूंजी का अर्थ बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शेयर पूंजी का वह भाग है, जो निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा करता है :-
 - (क) जहां तक लाभांश का संबंध है, यह ऐसी निश्चित राशि या निश्चित दर पर परिकलित राशि प्राप्त करने का अधिमान्य अधिकार रखता है जो आयकर से मुक्त हो या उसके अधीन हो तथा
 - (ख) जहां तक पूंजी का संबंध है, यह समापन पर पूंजी के पुनर्भुगतान, प्रदत्त या प्रदत्त मानी जाने वाली पूंजी की राशि का भुगतान प्राप्त करने का अधिमान्य अधिकार धारण करता है या करेगा, भले ही नीचे उल्लिखित राशियों में से किसी एक या दोनों के भुगतान का अधिमान्य अधिकार प्राप्त हो या नहीं हो :-
 - क) समापन या पूंजी के पुनर्भुगतान के दिनांक तक खंड (ए) में विनिर्दिष्ट राशियों के संबंध में अदत्त रहने वाली कोई राशि तथा
 - ख) कोई निश्चित प्रीमियम या केन्द्रीय सरकार की पूर्व सम्मति के साथ मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट किसी निश्चित मान पर प्रीमियम।
- (ii) "ईक्विटी शेयर पूंजी" का अर्थ ऐसी सारी शेयर पूंजी है जो अधिमान शेयर पूंजी नहीं है।
- (iii) "अधिमान शेयर" और "ईक्विटी शेयर पूंजी" पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

5. रजिस्टर में दर्ज किये जाने वाले विवरण :

- (i) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2(एफ) के अनुसार एक शेयर रजिस्टर रखा जाएगा तथा उसका अनुपालन किये जाने के साथ उसे अद्यतन भी बनाया जाएगा.
- (ii) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2(एफ) में विनिर्दिष्ट विवरणों के अतिरिक्त मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट होने वाले अन्य विवरण भी रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे.
- (iii) किसी शेयर के संयुक्त धारकों के मामले में, उनके नाम और उप-विनियम (i) द्वारा अपेक्षित विवरण ऐसे संयुक्त धारकों में से प्रथम धारक के नाम के अंतर्गत समूहित होंगे.
- (iv) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2 (डी) के परंतुक के अधीन, भारत के बाहर निवास करने वाला कोई धारक बैंक को भारत में एक पता प्रस्तुत कर सकता है तथा ऐसा कोई पता रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और उसे अधिनियम तथा इन विनियमों के उद्देश्य हेतु उसका पंजीकृत माना जाएगा.

- 5 ए. (i) जब तक कि ऐसे प्रारूप में रजिस्टर नहीं रखा जाता, जो स्वयं एक अनुक्रमणिका हो, या बैंक अनुक्रमणिका रखेगा, जो कि शेयर धारकों के नामों की कार्ड अनुक्रमणिका के प्रारूप में हो सकती है और शेयर धारकों के रजिस्टर में किए गए परिवर्तनों के दिनांक से चौदह दिनों के भीतर बैंक ऐसी अनुक्रमणिका में आवश्यक परिवर्तन करेगा.
- (ii) अनुक्रमणिका शेयर धारकों के रजिस्टर के साथ रखी जायेगी.

6. शेयरों और रजिस्ट्रों पर नियंत्रण -

रजिस्टर, अधिनियम तथा इन विनियमों के प्रावधानों तथा मंडल द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले निदेशनों के अधीन बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में रखा जाएगा तथा अनुपालित होगा और वह मंडल के नियंत्रण में होगा तथा इस विषय में मंडल का निर्णय अंतिम होगा कि कोई व्यक्ति किसी शेयर के संबंध में शेयर धारक के रूप में पंजीकृत होने का पात्र है या नहीं.

7. शेयर धारकों के रूप में पंजीकृत नहीं होने वाली पार्टियां :-

- (i) इन विनियमों द्वारा अन्यथा की गयी व्यवस्था को छोड़कर सभी व्यक्ति जो संविदा करने के लिए असमर्थ है, शेयर धारक के रूप में पंजीकृत होने के पात्र नहीं होंगे तथा इस संबंध में मंडल का फैसला निर्णायक और अंतिम होगा.
- (ii) साझेदारी फर्मों के मामले में शेयरों का पंजीकरण अलग अलग भागीदारों के नामों में किया जा सकता है तथा इस प्रकार कोई फर्म शेयर धारक के रूप में पंजीकृत होने की हकदार नहीं होगी.

8. कंप्यूटर प्रणाली आदि में शेयर रजिस्टर का अनुरक्षण -

- (i) विनियम 5 में उल्लिखित सहित, अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2(एफ) के अधीन शेयर रजिस्टर में दर्ज किये जाने हेतु अपेक्षित विवरण, अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2(जी) के अधीन, प्रधान कार्यालय में अनुरक्षित होने वाले कंप्यूटरों तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत महाप्रबंधक की श्रेणी से निम्न स्तर के नहीं होने वाले किसी अन्य अधिकारी (जिसे इसमें आगे "प्राधिकृत अधिकारी" कहा जाएगा) द्वारा समय समय पर निर्धारित होने वाले स्थान में

- स्थित सहायक व्यवस्था में, डिस्कों, फ्लॉपियों, कार्टरिजों के रूप में या अन्यथा, चुंबकीय / प्रकाशीय / चुंबक-प्रकाशीय मीडिया (जिसे इसमें आगे "मीडिया" कहा जाएगा) में संचयित डाटा के रूप में अनुरक्षित होंगे.
- (ii) निक्षेपी अधिनियम, 1996 की धारा 11 सहित, अधिनियम की धारा 3(बी) के अधीन शेयर रजिस्टर में दर्ज किये जाने हेतु अपेक्षित विवरण उसमें निर्धारित रीति और रूप में इलेक्ट्रॉनिक ढांचे में अनुरक्षित होंगे.
- (iii) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (2000 का 21वाँ) के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड की सुरक्षा हेतु निर्धारित सुरक्षा उपायों के अधीन इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रजिस्टर रखा जाएगा.

9. कंप्यूटर प्रणाली के संरक्षण हेतु सुरक्षा उपाय :

- (i) विनियम 8(1) में बतायी गयी प्रणाली, जिसमें डाटा संचयित है, में प्रवेश इस विषय में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या नामित अधिकारी द्वारा प्राधिकृत ऐसे व्यक्तियों तक प्रतिबंधित होगा जिनमें निर्गम के रजिस्ट्रार तथा / या शेयर अंतरण एजेंट भी सम्मिलित होंगे तथा पासवर्ड (यदि कोई हों) और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणालियां उक्त व्यक्तियों की अभिरक्षा में गोपनीय रखी जाएंगी.
- (ii) प्राधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश कंप्यूटर प्रणाली द्वारा लॉगों में रिकार्ड किया जाएगा तथा ऐसे लॉग इस विषय में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या नामित अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों / व्यक्तियों के पास परिरक्षित होंगे.
- (iii) सहायक व्यवस्थाओं की प्रतियां, शेयर धारकों के रजिस्टर में किये गये परिवर्तनों को सम्मिलित करके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या नामित अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट होने वाले अंतरालों में मीडिया पर निकाली जाएंगी. इनमें से कम से कम एक प्रति, जिस स्थान में प्रसंस्करण कार्रवाई की जाती है उससे भिन्न एक स्थान में रखी जाएगी. यह प्रति आग के जोखिम से मुक्त वातावरण में ताला लगाने की व्यवस्था के साथ तथा अपेक्षित तापमान में रखी जाएगी. दोनों स्थानों में सहायक व्यवस्थाओं में प्रवेश अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या नामित अधिकारी द्वारा इस विषय में प्राधिकृत व्यक्तियों तक प्रतिबंधित होगा. इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति संबद्ध स्थान में रखे मैन्युअल रजिस्टर में प्रवेश को रिकार्ड करेंगे.
- (iv) प्राधिकृत व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि सहायक व्यवस्था की शुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु वे उचित सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सहायक व्यवस्था में स्थित डाटा की कंप्यूटर प्रणाली में स्थित डाटा से तुलना करें. इस कार्रवाई का परिणाम इस उद्देश्य हेतु अनुरक्षित रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा.
- (v) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के लिए, तकनीक में होने वाली प्रगति की ओर उचित ध्यान देते हुए तथा / या परिस्थिति की अनिवार्य आवश्यकताओं के संदर्भ में या संबद्ध किसी अन्य प्रयोजन से, विशेष या सामान्य आदेश के द्वारा, कंप्यूटर प्रणाली में शेयर धारकों के रजिस्टर के अनुरक्षण में किये जाने वाले सुरक्षा उपायों के संबंध में अनुदेशों तथा शर्तों को जोड़ना या उन्हें आशोधित करना विधिसम्मत होगा.

10. संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग

यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नामों में स्थित है तो रजिस्टर में प्रथम उल्लिखित व्यक्ति मतदान, लाभांशों की प्राप्ति, सूचनाओं की जारी तथा शेयरों के अंतरण को छोड़कर "बैंक ऑफ महाराष्ट्र" से संबद्ध अन्य सभी या किसी विषय के संबंध में उसका एकमात्र धारक माना जाएगा.

11. रजिस्टर का निरीक्षण

- (i) यह रजिस्टर, विनियम 12 के अधीन बंद करने की अवधि को छोड़कर, जहां वह अनुरक्षित है उस स्थान में, मंडल द्वारा लगाये जाने वाले न्यायोचित प्रतिबंधों के अधीन, किसी शेयर धारक के निरीक्षण हेतु कार्यसमय के दौरान किसी शुल्क के बिना इस तरह खुला रहेगा कि निरीक्षण हेतु प्रति कार्यदिवस को कम से कम दो घंटों का समय प्रदान किया जाए.
- (ii) कोई भी शेयर धारक रजिस्टर या कंप्यूटर-मुद्रण में स्थित किसी प्रविष्टि का उद्धरण किसी शुल्क के बिना निकाल सकता है या यदि उसे रजिस्टर की किसी प्रति या कंप्यूटर-मुद्रण या उसके किसी भाग की आवश्यकता हो तो उसे प्रति निकालने हेतु अपेक्षित प्रति 1000 शब्दों या उसके भिन्नांश के लिए रु.5/- की दर पर पूर्व अदायगी करने पर उसकी आपूर्ति की जाएगी.
- (iii) उप-विनियम (ii) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार के किसी विधिवत प्राधिकृत अधिकारी को रजिस्टर में स्थित किसी प्रविष्टि की प्रति निकालने या रजिस्टर या उसके किसी भाग की प्रति प्राप्त करने का अधिकार होगा.

12. रजिस्टर को बंद करना

बैंक, लागू दिशानिर्देशों और स्टॉक एक्सचेंजों के लिस्टिंग समझौते के अनुपालन के बाद अपने मत में आवश्यक समझे जाने पर, भारत में प्रसारित होने वाले कम से कम दो समाचारपत्रों में विज्ञापन के द्वारा न्यूनतम सात दिनों की पूर्व सूचना देने के बाद प्रति वर्ष कुल पैंतालीस दिनों से अधिक नहीं होने वाली, परंतु किसी एक समय में तीस दिनों से अधिक नहीं होने वाली किसी अवधि या अवधियों के लिए रजिस्टर को बंद रख सकता है.

13. शेयर प्रमाणपत्र

- (i) प्रति शेयर प्रमाणपत्र में शेयर प्रमाणपत्र संख्या, एक प्रभेदक संख्या, जिन शेयरों के संबंध में उसे जारी किया जाता है उनकी संख्या तथा जिस शेयर धारक को उसे जारी किया जाता है उसका नाम उल्लिखित होंगे और वह मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में होगा.
- (ii) प्रति शेयर प्रमाणपत्र मंडल के एक प्रस्ताव के अनुसरण में बैंक की निगम मुद्रा के साथ जारी किया जाएगा तथा दो निदेशकों तथा इस उद्देश्य हेतु मंडल द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी, जो वेतनमान II से नीचे का नहीं होना चाहिए, या कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होगा. परंतु निदेशकों के हस्ताक्षर मुद्रित, उत्कीर्ण, शिलामुद्रित या मंडल द्वारा निदेशितानुसार किसी अन्य यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा अंकित होंगे.
- (iii) इस तरह मुद्रित, उत्कीर्ण, शिलामुद्रित या अन्यथा अंकित हस्ताक्षर स्वयं हस्ताक्षरकर्ता की निजी हस्तलिपि में किये गये हस्ताक्षर के समान ही वैध होंगे.
- (iv) इस प्रकार हस्ताक्षरित हुए बिना तथा हस्ताक्षरित होने तक कोई शेयर प्रमाणपत्र वैध नहीं होगा. शेयर प्रमाणपत्रों को जारी करने से पहले, उन पर जिस किसी के हस्ताक्षर दर्शित हैं उस व्यक्ति के, बैंक की ओर से शेयर प्रमाणपत्रों में हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकरण के समाप्त होने पर भी, इस प्रकार हस्ताक्षरित शेयर प्रमाणपत्र वैध और बाध्यकारी होंगे.

14. शेयर प्रमाणपत्रों को जारी करना

- (i) किसी शेयर धारक को शेयर प्रमाणपत्र जारी करते समय मंडल के लिए किसी एक समय में उसके नाम में पंजीकृत प्रति एक सौ शेयरों या उसके गुणजों के लिए एक प्रमाणपत्र के आधार पर शेयर

- प्रमाणपत्र तथा उससे अधिक, परंतु एक सौ से कम संख्या वाले शेयरों के लिए एक अतिरिक्त शेयर प्रमाणपत्र जारी करना वैध होगा.
- (ii) यदि पंजीकृत होने वाले शेयरों की संख्या एक सौ से कम है तो उन सभी धारकों के लिए एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा.
 - (iii) अनेक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित किसी शेयर या शेयरों के संबंध में, बैंक एक से अधिक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी शेयर के लिए अनेक संयुक्त धारकों में से किसी एक को प्रमाणपत्र की सुपुर्दगी ऐसे सभी धारकों को पर्याप्त सुपुर्दगी होगी.

15. नया या दूसरा शेयर प्रमाणपत्र जारी करना

- (i) यदि कोई शेयर प्रमाणपत्र जीर्ण या विरूपित होता है, तो मंडल या उसके द्वारा नामित समिति ऐसे प्रमाणपत्रों की प्रस्तुति पर उसे रद्द करने तथा उसके बदले एक नया प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दे सकती है.
- (ii) यदि कोई शेयर प्रमाणपत्र लुप्त या विनष्ट बताया जाता है तो मंडल या उसके द्वारा नामित समिति, मंडल या समिति द्वारा उचित समझी जाने वाली, प्रतिभूतिसहित या उससे रहित जमानत पर तथा दो समाचार पत्रों में घोषित होने और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को उसकी लागतों, शुल्कों तथा व्ययों की अदायगी होने के बाद, इस प्रकार लुप्त या विनष्ट प्रमाणपत्र के हकदार व्यक्ति को उस प्रमाणपत्र के बदले एक अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी कर सकती है.

16. शेयरों का समेकन तथा उप-विभाजन

शेयर धारक (कों) द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र भेजे जाने पर मंडल या उसके द्वारा नामित समिति उसे समेकन / उप-विभाजन हेतु प्रस्तुत किये गये शेयरों के मामले के अनुसार समेकन या उप-विभाजन कर सकती है तथा बैंक को उसकी इस विषय से संबंधित लागतों, शुल्कों तथा प्रासंगिक व्ययों की अदायगी की जाने पर उनके बदले नया / नये प्रमाणपत्र जारी कर सकती है.

17. शेयरों का अंतरण

- (i) बैंक के शेयरों का अंतरण इसके साथ संलग्न फार्म "ए" में या बैंक द्वारा समय समय पर अनुमोदित होने वाले किसी अन्य फार्म में एक अंतरण लिखत द्वारा होगा तथा यह लिखत संबंधित शेयर प्रमाणपत्र के साथ संलग्न और अंतरणकर्ता और अंतरिती के द्वारा या उसकी ओर से विधिवत स्टाम्प लगायी गयी दिनांकित एवं निष्पादित होगी.
- (ii) अंतरण लिखत शेयर प्रमाणपत्र के साथ बैंक को उसके प्रधान कार्यालय या रजिस्ट्रार और बैंक द्वारा समय समय पर नियुक्त शेयर अंतरण एजेंट को प्रस्तुत की जाएगी तथा जब तक उसके संबंध में अंतरिती का नाम शेयर रजिस्टर में दर्ज नहीं होता तब तक अंतरणकर्ता को ही ऐसे शेयरों का धारक माना जाएगा.
- (iii) जब बैंक द्वारा, अंतरण को पंजीकृत करने के अनुरोध के साथ, एक अंतरण लिखत संबंधित शेयर प्रमाणपत्र के साथ प्राप्त की जाती है, तब मंडल या मंडल द्वारा नामित समिति अंतरण लिखत को शेयर प्रमाणपत्र के साथ प्राविधिक आवश्यकताओं के पूर्ण रूप से पालन किये जाने के संबंध में सत्यापन के उद्देश्य से रजिस्ट्रार तथा / या शेयर अंतरण एजेंटों को अग्रेषित करेगी. रजिस्ट्रार तथा / या शेयर अंतरण एजेंट शेयर अंतरण लिखत को, यदि कोई शेयर प्रमाणपत्र हो तो उसके साथ, अंतरिती को पुनःप्रस्तुति हेतु लौटा देगा. यदि, जब तक की पंजीकरण हेतु बैंक को प्रस्तुत अंतरण लिखत विधिवत स्टाम्प लगी और सम्यक रूप से निष्पादित नहीं है तथा संबंधित शेयर प्रमाणपत्र तथा

ऐसे अंतरण के लिए अंतरणकर्ता के स्वत्वाधिकार को दिखाने हेतु मंडल द्वारा अपेक्षित होने वाले अन्य साक्ष्य के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी है।

स्पष्टीकरण : "प्राविधिक आवश्यकताओं" का अर्थ है -

- (क) अन्तरण विलेख पर विधिवत स्टाम्प लगा हो;
- (ख) अन्तरण विलेख में उल्लेखित प्रमाणपत्र संख्या या प्रभेदक संख्या शेयर प्रमाणपत्र से मिलना चाहिए;
- (ग) अन्तरणकर्ता के हस्ताक्षर मिलना चाहिए;
- (घ) अन्तरण विलेख पर साक्ष्य के हस्ताक्षर होना चाहिए।
- (iv) इसके बाद मंडल या मंडल द्वारा नामित समिति, यदि वह विनियम 19 के अधीन अंतरण को पंजीकृत करने से इन्कार नहीं करती है तो अंतरण का पंजीकरण करेगी।
- (v) जब तक विनियम 19 के अन्तर्गत शेयरों का अंतरण मना नहीं किया जाता तब तक विधिवत अंतरित शेयर प्रमाणपत्र अन्तरण लिखत प्रस्तुत करने की दिनांक से 60 दिनों के अन्दर अन्तरिती को सुपुर्द कर दिए जाएंगे।

18. अंतरणों को निलंबित करने का अधिकार

मंडल या मंडल द्वारा नामित समिति किसी ऐसी अवधि के दौरान किसी अंतरण का पंजीकरण नहीं करेगी जब रजिस्टर बंद रहता है।

19. शेयरों के अंतरण को पंजीकृत करने से इन्कार करने का मंडल का अधिकार

- (i) मंडल या समिति, निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधारों पर तथा किसी अन्य आधार पर नहीं, अंतरिती के नाम से किसी शेयर का अंतरण करने से इन्कार कर सकता है :-
 - (क) शेयरों का अंतरण अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों या किसी अन्य विधि के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या ऐसे अंतरण के पंजीकरण से संबंधित विधि के अधीन किसी अन्य शर्त का पालन नहीं किया गया है;
 - (ख) मंडल के मत में शेयरों का अंतरण बैंक के हितों या सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक है;
 - (ग) शेयरों का अंतरण उस समय प्रचलित किसी विधि के अधीन न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के आदेश द्वारा निषेधित है ;
 - (घ) भारत के बाहर का निवासी कोई व्यक्ति या कंपनी या भारत में अप्रचलित किसी विधि के अधीन निगमित, भारत की निवासी या अनिवासी कोई कंपनी या ऐसी कंपनी की कोई शाखा अंतरण के अनुमत होने पर उसके परिणामस्वरूप बैंक के शेयरों को धारित या अर्जित करेगा / करेगी तथा इस प्रकार का कुल निवेश प्रदत्त शेयर पूंजी के 20 प्रतिशत से अधिक होने के कारण या केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के जरिए निर्दिष्टानुसार प्रतिशत से अधिक होगा।
- (ii) बैंक के शेयरों की अंतरण लिखत को ऐसे अंतरण के पंजीकरण हेतु अपने पास प्रस्तुत किये जाने के बाद मंडल या समिति इस बारे में अपना अभिमत बनाएगा कि ऐसे पंजीकरण को उप-विनियम (i) में उल्लेखित किसी आधार पर अस्वीकार करना चाहिए या नहीं -
 - (क) यदि उसने यह अभिमत बनाया है कि ऐसे पंजीकरण को इस तरह अस्वीकार नहीं करना चाहिए तो वह इस तरह के पंजीकरण का कार्य पूरा करेगा, तथा
 - (ख) यदि उसने यह अभिमत बनाया है कि ऐसे पंजीकरण को उप-विनियम (i) में उल्लेखित किसी आधार पर अस्वीकार करना चाहिए तो वह अंतरण फार्म की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर या

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए लिस्टिंग समझौते में निर्धारित अवधि के भीतर लिखित सूचना के जरिए अंतरणकर्ता और अंतरिती को सूचित करेगा.

20. मृत्यु, दिवालियापन आदि की स्थिति में शेयरों का प्रेषण

- (i) किसी शेयर के संबंध में किसी मृत शेयर धारक के निष्पादक या प्रशासक या वसीयतनामे के साथ संलग्न या असंलग्न वसीयत प्रमाणपत्र या प्रशासनपत्रों या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग x के अधीन जारी किये गये उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक या किसी विधिक अभ्यावेदन का धारक या ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके पक्ष में मृत एकमात्र धारक द्वारा अपने जीवन काल में एक वैध अंतरण लिखत निष्पादित की गयी थी, ही एकमात्र व्यक्ति होगा, जिसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा ऐसे शेयर पर स्वत्वाधिकार रखने वाले के रूप में मान्यता दी जाएगी.
- (ii) दो या अधिक शेयर धारकों के नाम में पंजीकृत शेयरों के मामले में, एक या अधिक उत्तरजीवी, तथा अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर उसके निष्पादक या प्रशासक या वसीयतनामे के साथ संलग्न या असंलग्न वसीयत प्रमाणपत्रों या प्रशासनपत्रों या उक्त शेयर में ऐसे उत्तरजीवी के हित के संबंध में किसी अन्य विधिक अभ्यावेदन का धारक या ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके हित में ऐसे अंतिम उत्तरजीवी द्वारा अपने जीवनकाल में एक वैध शेयर अंतरण लिखत निष्पादित की गयी थी, ही ऐसा एकमात्र व्यक्ति होगा, जिसे ऐसे शेयर का स्वत्वाधिकार धारण करने वाले के रूप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा मान्यता दी जाएगी.
- (iii) यदि ऐसे निष्पादकों या प्रशासकों द्वारा विधि-सम्मान अधिकार क्षेत्र के किसी न्यायालय से मामले के अनुसार वसीयत प्रमाणपत्र या प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होगा.
परंतु इस शर्त पर कि ऐसे मामले में, जहां मंडल अपने विवेकाधिकार से उचित समझता है, क्षतिपूर्ति जैसी या अपने द्वारा उचित समझी जाने वाली अन्य शर्तों पर वसीयत प्रमाणपत्रों या प्रशासन पत्रों या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या ऐसे विधिक अभ्यावेदनों की प्रस्तुति से छूट देना मंडल के लिए वैध होगा.
- (iv) किसी शेयर धारक की मृत्यु के परिणामस्वरूप किसी शेयर का हकदार बनने वाले किसी व्यक्ति को या किसी शेयर धारक के दिवालियापन, धन-शोधन-अक्षमता का परिसमापन के फलस्वरूप किसी शेयर का हकदार बनने वाले किसी व्यक्ति को, मंडल द्वारा अपेक्षित होने वाले साक्ष्य की प्रस्तुति पर निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे -
(क) ऐसे शेयर के संबंध में शेयर धारक के रूप में पंजीकृत होना.
(ख) जैसे यह व्यक्ति, जिससे वह स्वत्वाधिकार ग्रहण करता है, कर सकता था, उसी तरह ऐसे शेयर का अंतरण करना.

21. पंजीकरण हेतु आवश्यक अर्हता को समाप्त करने वाला शेयर धारक

किसी शेयर के संबंध में पंजीकृत होने की अर्हता को समाप्त करने पर, अकेले या किसी अन्य या अन्यो के साथ संयुक्त रूप से शेयर धारक के रूप में पंजीकृत किसी व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संबंध में निदेशक मंडल को तुरंत इसकी सूचना दे.

22. शेयरों की मांग

मंडल, समय समय पर शेयर धारकों से उनके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में अदत्त रहने वाली उन सभी धनराशियों के संबंध में, जो आबंटन की शर्तों द्वारा नियत समयों में देय नहीं बनायी गयी है, अपने द्वारा उचित समझी जाने वाली रीति से मांगे कर सकता है तथा प्रति शेयर धारक अपने से इस तरह की गयी प्रत्येक मांग की राशि को मंडल द्वारा नियुक्त व्यक्ति को उसके द्वारा नियत समय और स्थान में अदा करेगा. मांग की कोई राशि किशतों में देय हो सकती है.

23. मांग का दिनांक प्रस्ताव के समय से निर्धारित होगा

कोई मांग उस समय की गयी मानी जाएगी जब मंडल का ऐसी मांग को प्राधिकृत करने वाला प्रस्ताव पारित हुआ था तथा रजिस्टर में मंडल द्वारा निर्धारित होने वाले दिनांक को या उसके द्वारा अपने विवेकाधिकार से निर्धारित होने वाले उत्तरवर्ती दिनांक को शेयर धारकों द्वारा देय बनायी जाएगी.

24. मांग की सूचना

प्रत्येक मांग के संबंध में अदायगी के समय को विनिर्दिष्ट करते हुए कम से कम तीस दिनों की सूचना दी जाएगी, बशर्ते कि ऐसी मांग की अदायगी हेतु नियत समय से पहले मंडल शेयर धारकों को लिखित सूचना देकर उसका प्रतिसंहरण कर सकता है.

25. मांग की अदायगी हेतु समय का विस्तार

मंडल समय-समय पर तथा अपने विवेकाधिकार से किसी या सभी शेयर धारकों के लिए, उनके निवास स्थान की दूरी या अन्य किसी पर्याप्त कारण को ध्यान में रखते हुए, किसी मांग राशि की अदायगी हेतु नियत समय का विस्तार कर सकता है परंतु कोई शेयर धारक ऐसे विस्तार के लिए अधिकारात्मक रूप से हकदार नहीं होगा.

26. संयुक्त धारकों की बाध्यताएं

किसी शेयर के संयुक्त धारक उसके संबंध में सभी मांग राशियों को अदा करने के लिए संयुक्त और अलग अलग रूप से बाध्य होंगे.

27. मांग राशियों के रूप में नियत समय पर या किशतों में देय राशि

यदि किसी शेयर से निर्गम की शर्तों के अनुसार या अन्यथा कोई राशि किसी नियत समय में या नियत समयों में किशतों में देय होती है तो ऐसी प्रत्येक राशि या किशत इस तरह देय होगी, मानो यह मांग मंडल द्वारा विधिवत की गयी थी तथा इसकी सूचना समुचित रूप से दी गयी थी और इसके अनुसार मांगों के संबंध में इसमें समाविष्ट सभी प्रावधान ऐसी राशि या किशत से संबद्ध होंगे.

28. मांग राशि या किश्तों पर ब्याज कब देय होता है

यदि किसी मांग या किश्त के संबंध में देय राशि उसकी अदायगी हेतु नियत दिन या उसके पहले अदा नहीं की जाती है तो जिस शेयर के संबंध में मांग की गयी है या किश्त देय बनी है, उसका उस समय का धारक या आबंटिती मंडल द्वारा समय समय पर निर्धारित होने वाली राशि पर तथा दर पर उसकी अदायगी हेतु नियत दिन से वास्तविक अदायगी के समय तक ब्याज अदा करेगा, परंतु मंडल अपने विवेकाधिकार से ऐसे ब्याज की अदायगी से पूर्णतः या आंशिक रूप से छूट दे सकता है।

29. शेयर धारक द्वारा मांग राशियों की गैर-अदायगी

कोई भी शेयर धारक जब तक वह अपने द्वारा अकेले या किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त रीति से धारित प्रत्येक शेयर पर उस समय देय और अदायगी योग्य सभी मांग राशियों को लागू या प्रभारित होने वाले ब्याज और व्ययों के साथ अदा नहीं करता है, तब तक कोई लाभांश प्राप्त करने या शेयर धारक के किसी अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

30. मांग राशि या किश्त की गैर अदायगी के बारे में सूचना

यदि कोई शेयर धारक किसी मांग की पूर्ण राशि या उसके किसी भाग या किश्त या किसी शेयर के संबंध में मूल राशि या ब्याज के रूप में देय किसी राशि को उसकी अदायगी हेतु नियुक्त दिन या उसके पहले अदा करने में विफल होता है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र तदुपरांत किसी भी समय मांग राशि या किश्त या उसके किसी भाग या अन्य राशियों के अदत्त रहते या उसके संबंध में किसी न्याय निर्णय या डिक्री की शर्तों के पूर्णतः या आंशिक रूप से असंतुष्ट रहते ऐसे शेयर धारक या प्रेषण द्वारा शेयर के हकदार (यदि कोई हो) को, अदत्त रहने वाली मांग राशि या किश्त या उसके अंश या अन्य राशियों को किसी प्रोद्भूत ब्याज तथा ऐसी गैर अदायगी के कारण बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रदत्त उठाये गये सभी व्ययों (विधिक या अन्य) के साथ अदा करने की मांग करते हुए सूचना जारी कर सकता है।

31. समपहरण की सूचना

समपहरण की सूचना में सूचना के दिनांक से चौदह दिनों से कम नहीं होने वाला एक ऐसा दिनांक तथा ऐसा/ऐसे स्थान उल्लिखित होंगे, जब और जहां पूर्वोक्त मांग राशि या किश्त या उसका भाग या अन्य राशियां तथा ब्याज और व्यय देय होंगे। सूचना में इसका भी उल्लेख होगा कि नियुक्त समय में या उसके पहले तथा स्थान में गैर अदायगी की स्थिति में वह शेयर, जिसके संबंध में मांग की गयी थी या किश्त देय बनी थी, समपहृत हो सकेगा।

32. व्यतिक्रम होने पर शेयरों का समपहरण होगा

यदि पूर्वोक्तानुसार दी गयी किसी सूचना की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है तो उसके बाद किसी भी समय कोई शेयर, जिसके संबंध में सूचना दी गयी है, सभी मांगों या किश्तों, ब्याज और व्ययों या उसके संबंध में देय किसी राशि की गैर अदायगी के कारण विनियम 31 के अन्तर्गत दिए गये समपहरण के नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद इस प्रयोजन हेतु बुलाई गई मंडल की बैठक के एक प्रस्ताव के द्वारा समपहृत

होगा. ऐसे समपहरण में समपहृत शेयरों के संबंध में घोषित तथा समपहरण के पहले वास्तविक रूप से अदत्त सभी लाभांश सम्मिलित होंगे.

33. रजिस्टर में समपहरण की प्रविष्टि

जब कोई शेयर विनियम 32 के अधीन समपहृत हुआ है, तब रजिस्टर में समपहरण संबंधी एक प्रविष्टि उसके दिनांक के साथ की जाएगी.

34. समपहृत शेयर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की संपत्ति होंगे तथा उनकी बिक्री हो सकेगी

इस प्रकार समपहृत किसी शेयर को बैंक ऑफ महाराष्ट्र की संपत्ति माना जाएगा तथा मंडल द्वारा निर्णित होने वाली शर्तों पर तथा रीति से किसी भी व्यक्ति को उसकी बिक्री, पुनराबंटन या अन्यथा निपटान किया जा सकता है.

35. समपहरण को प्रभावशून्य बनाने का अधिकार

मंडल किसी भी समय विनियम 32 के अधीन इस प्रकार समपहृत किसी शेयर की बिक्री, पुनराबंटन या अन्यथा निपटान होने के पहले, अपने द्वारा उचित समझी जाने वाली शर्तों पर उसके समपहरण को प्रभावशून्य बना सकता है.

36. शेयर धारक समपहरण के समय बाकी रहने वाली राशि तथा ब्याज अदा करने के लिए बाध्य है

कोई भी शेयर धारक, जिसके शेयर समपहृत हुए हैं, समपहरण के बावजूद ऐसे शेयरों पर या उनके संबंध में समपहरण के समय में बाकी सभी मांगों, किश्तों, ब्याज, व्ययों तथा अन्य राशियों को, उन पर समपहरण के समय से अदागयी तक, मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट होने वाली दर पर, ब्याज के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र को अदा करने के लिए बाध्य होगा तथा मंडल उनकी पूर्ण या आंशिक अदायगी को प्रवर्तित कर सकता है.

37. आंशिक अदायगी समपहरण को प्रतिबाधित नहीं करेगी

किसी शेयर के संबंध में देय मांगों या अन्य राशियों के संबंध में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हित में कोई न्याय निर्णय या डिक्री या उसके अधीन कोई अदायगी या समाधान या बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा किसी शेयर धारक से किसी शेयर के संबंध में मूल राशि या ब्याज के रूप में समय समय पर देय बनाने वाली राशि के किसी अंश की प्राप्ति, या किसी राशि के संबंध में बैंक द्वारा प्रदत्त कोई अनुग्रह ऐसे शेयरों के इन विनियमों के अधीन समपहरण को प्रतिबाधित नहीं करेगा.

38. शेयर का समपहरण बैंक के विरुद्ध सभी दावों को समाप्त करता है

किसी शेयर के समपहरण में, उक्त समपहरण के समय उस शेयर के संबंध में बैंक में सभी हितों तथा उसके विरुद्ध सभी दावों और मांगों तथा उक्त शेयर के संबंध में, केवल इन प्रस्तुतियों द्वारा स्पष्टतः अधित्यक्त अधिकारों को छोड़कर, अन्य सभी प्रासंगिक अधिकारों की समाप्ति अंतर्भूत होगी.

39. समपहृत होने के बाद बिक्री, पुनः जारी करने, पुनर्बाँटन या निपटान पर मूल शेयर अकृत और शून्य होंगे

पूर्ववर्ती विनियमों के अधीन किसी बिक्री, पुनः जारी किये जाने या अन्य रीति से निपटान के बाद संबद्ध शेयरों के संबंध में मूलतः जारी किया गया / किये गये शेयर (यदि बैंक की मांग पर उससे / उन्हें पहले ही, बैंक को अभ्यर्पित नहीं किया गया है तो) रद्द समझा जाएगा / समझे जाएंगे तथा अकृत और शून्य बनेगा / बनेंगे और प्रभावशून्य होगा / होंगे। मंडल, उक्त शेयरों के संबंध में पात्र व्यक्ति / व्यक्तियों को नया / नये प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकारी होगा।

40. समपहरण संबंधी प्रावधानों की प्रयोज्यता

जहां तक समपहरण का संबंध है, इन विनियमों के प्रावधान किसी शेयर के निर्गम की शर्तों के अनुसार किसी निर्धारित समय में शेयरों के अंकित मूल्य के हिसाब से या प्रीमियम के रूप में देय बनने वाली किसी राशि की गैर अदायगी के मामले में इस प्रकार लागू होंगे, मानों वह राशि विधिवत की गयी मांग के कारण से देय बनी थी।

41. शेयरों पर धारणाधिकार

(i) इन पर बैंक का प्रथम एवं परमोच्च धारणाधिकार होगा.-

- (क) प्रत्येक शेयर (जो पूर्णतः प्रदत्त शेयर नहीं है), उसके संबंध में मांग की गयी या किसी निश्चित समय में देय सभी राशियों के लिए (चाहे वे अभी देय बनी हो या नहीं बनी हों),
- (ख) एक ही व्यक्ति के नाम में पंजीकृत सभी शेयर (जो पूर्णतः प्रदत्त शेयर नहीं है), संप्रति उसके या उसकी संपदा के द्वारा बैंक को देय सभी राशियों के लिए,
- (ग) प्रत्येक व्यक्ति के नाम में (अकेले या अन्यो के साथ संयुक्त रूप से) पंजीकृत सभी शेयर, और बैंक के प्रति या उसके साथ, अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, उसके ऋणों, देयताओं तथा करारों के लिए, चाहे उनकी अदायगी, समापन या उन्मोचन हेतु अवधि का वास्तविक रूप से निर्णय हुआ हो या नहीं हुआ हो, उनकी बिक्री के आगम, तथा बैंक द्वारा अपने धारणाधिकार पर किसी शेयर में कोई साम्यिक हित मान्य नहीं होगा।

परंतु निदेशक मंडल किसी भी समय किसी शेयर को इस खंड के प्रावधानों से पूर्णतः या आंशिक रूप से मुक्त घोषित कर सकता है।

(ii) यदि किसी शेयर पर बैंक का धारणाधिकार है तो वह उस शेयर पर देय सभी लाभांशों तक व्याप्त होगा।

42. शेयरों की बिक्री द्वारा धारणाधिकार का प्रवर्तन

(i) बैंक ऐसे शेयरों की मंडल द्वारा उचित समझी जाने वाली रीति से बिक्री कर सकता है जिन पर बैंक का धारणाधिकार है :

- (क) यदि राशि के संबंध में धारणाधिकार है वह संप्रति देय है, तथा
- (ख) जिस राशि के संबंध में धारणाधिकार रहता है उसके संप्रति देय बने अंश की अदायगी का उल्लेख और उसकी मांग करते हुए शेयर के उस समय के पंजीकृत धारक या उसकी मृत्यु या दिवालियापन के कारण से उसके हकदार व्यक्ति को एक लिखित सूचना देने के बाद चौदह दिनों की समाप्ति होने पर।

- (ii) मंडल ऐसी किसी बिक्री को कार्यान्वित करने हेतु बेचे गये शेयरों के उनके खरीदार के नाम अंतरण के लिए किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है।

43. शेयरों की बिक्री के आगमों का विनियोग

विनियम 42 के अधीन शेयरों की किसी बिक्री की लागतों को काटने के बाद उन शेयरों की ऐसी बिक्री के निवल आगमों का विनियोग जिस ऋण या देयता के संबंध में धारणाधिकार है तथा जहां तक वह संप्रति देय बनती है, उसकी तुष्टि में या उसके प्रति किया जाएगा और यदि कोई अवशेष हो तो उसे शेयर धारकों या इस प्रकार बेचे गये शेयरों के प्रेषण के द्वारा हकदार बनने वाले किसी व्यक्ति को अदा किया जाएगा।

44. समपहरण का प्रमाणपत्र

इस उद्देश्य के लिए विधिवत प्राधिकृत बैंक के किसी निदेशक या अन्य किसी अधिकारी जो वेतनमान श्रेणी II से नीचे का न हो या कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का एक प्रमाणपत्र, कि अमुक शेयर के संबंध में मांग की गयी थी तथा इस प्रयोजन हेतु मंडल के एक प्रस्ताव द्वारा उक्त शेयर का समपहरण किया गया था, ऐसे शेयरों के हकदार सभी व्यक्तियों के विरुद्ध उनमें उल्लिखित तथ्य का निर्णायक प्रमाण होगा।

45. समपहृत शेयर के खरीदार या आबंटिती का स्वत्वाधिकार

यदि शेयर के लिए उसकी बिक्री, पुनराबंटन या अन्य निपटान पर प्रदत्त कोई प्रतिलाभ है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र उसे प्राप्त कर सकता है तथा वह व्यक्ति, जिसे ऐसे शेयर को बेचा जाता है, आबंटित होता है या निपटान किया जाता है, उसे शेयर के धारक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है और वह व्यक्ति किसी प्रतिलाभ के होने पर उसके विनियोग की व्यवस्था करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा शेयर पर उसका स्वत्वाधिकार उक्त शेयर के समपहरण, बिक्री, पुनराबंटन या अन्य निपटान से संबंधित कार्रवाईयों में किसी अनिश्चितता या अवैधता के कारण प्रभावित नहीं होगा और बिक्री द्वारा असंतुष्ट किसी व्यक्ति का उपचार केवल हर्जाने में और एकांतिक रूप से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के विरुद्ध होगा।

46. शेयर धारकों को किसी सूचना या प्रलेख की तामील

- (i) बैंक किसी शेयर धारक को किसी सूचना या प्रलेख की तामील उसके पंजीकृत पते पर या भारत में उसका कोई पंजीकृत पता नहीं होने पर स्वयं को सूचना देने हेतु उसके द्वारा दिये गये भारत के भीतर के पते पर (यदि कोई हो), वैयक्तिक रूप से या सामान्य डाक से करेगा।
- (ii) जहां कोई प्रलेख या सूचना डाक द्वारा भेजी जाती है, ऐसे प्रलेख या सूचना की तामील सम्यक रूप से पता लिखकर, पूर्व अदायगी करके तथा उक्त प्रलेख या सूचना से अंतर्विष्ट पत्र को डाक में छोड़कर पूरी की गयी मानी जाएगी।
- परंतु जहां किसी शेयर धारक ने पहले ही बैंक को सूचना दी है कि उसको प्रलेख डाक प्रमाणपत्र के अधीन या पावती सहित या उसके बिना पंजीकृत डाक से भेजे जाने चाहिए, तथा ऐसा करने में होने वाले व्ययों को अदा करने के लिए पर्याप्त राशि बैंक में जमा की है, शेयर धारक द्वारा सूचित रीति से नहीं भेजे जाने पर प्रलेख या सूचना की तामील पूरी की गयी नहीं मानी जाएगी। और किसी बैठक की सूचना के मामले में ऐसी तामील उससे अंतर्विष्ट पत्र को डाक में छोड़ने के बाद अड़तालीस घंटों की समाप्ति पर तथा किसी अन्य मामले में डाक की सामान्य अवधि के दौरान पत्र को वितरित किये जाने के समय पूरी की गयी मानी जाएगी।

- (iii) भारत में व्यापक रूप से प्रसारित किसी समाचार पत्र में विज्ञापित कोई सूचना या प्रलेख ऐसे प्रत्येक शेयर धारक को जिसका भारत में कोई पंजीकृत पता नहीं है तथा जिसने स्वयं को सूचना देने हेतु भारत के भीतर के भीतर का एक पता बैंक को नहीं भेजा है, उस विज्ञापन के प्रकाशन के दिन विधिवत वितरित माना जाएगा.
- (iv) शेयर के संयुक्त धारकों को कोई सूचना या प्रलेख बैंक द्वारा उस शेयर के संबंध में रजिस्टर में प्रथम नामित संयुक्त धारक को भेजकर, वितरित किया जा सकता है और इस प्रकार दी गयी सूचना उक्त शेयर के सभी धारकों के लिए पर्याप्त सूचना होगी.
- (v) किसी शेयर धारक की मृत्यु पर या उसके दिवालिया बनने पर बैंक द्वारा कोई सूचना या प्रलेख किसी शेयर के हकदार व्यक्तियों को, उनके नाम में मृत व्यक्तियों के प्रतिनिधियों या दिवालियों के अनुदेशितियों की उपाधि या इसी प्रकार के किसी अन्य नाम में, इस प्रकार हकदार होने का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा आपूरित भारत में स्थित एक पते (यदि कोई हो) पर पूर्व प्रदत्त पत्र में डाक के जरिए भेजकर या ऐसे एक पते की आपूर्ति की जाने तक, मृत्यु या दिवालियापन के घटित नहीं होने की स्थिति में जिस किसी रीति से उसका वितरण हो सकता था उस रीति से प्रलेख को तामील करके, वितरित किया जा सकता है.
- (vi) बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा दी जाने वाली किसी सूचना पर हस्ताक्षर हस्तलिखित या मुद्रित हो सकते हैं.

अध्याय 3

निक्षेपागार में धारित बैंक की प्रतिभूतियां

47. निक्षेपागार और बैंक के बीच करार

बैंक, निक्षेपागार अधिनियम 1996 की धारा 2(इ) में परिभाषित एक या अधिक निक्षेपागारों के साथ, बैंक द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों के संबंध में उनकी सेवाओं को प्राप्त करने हेतु एक करार में सम्मिलित हो सकता है.

अध्याय 4

शेयर धारकों की बैठकें

56. साधारण सभा की वार्षिक बैठक बुलाने की सूचना

- (i) बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक या वेतनमान vii या उससे उच्च श्रेणी के किसी प्राधिकृत अधिकारी या कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित, शेयर धारकों की साधारणसभा की वार्षिक बैठक बुलाने की सूचना, बैठक से कम से कम पूरे इक्कीस दिनों के पहले, भारत में विस्तृत प्रसार रखनेवाले कम से कम दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जाएगी.
- (ii) ऐसी प्रत्येक सूचना में ऐसी बैठक के समय, दिनांक और स्थान तथा साथ ही उस बैठक में व्यवहृत होने वाले कार्य-व्यापार का उल्लेख होगा.
- (iii) ऐसी बैठक का समय और दिनांक मंडल द्वारा विनिर्दिष्टानुसार होगा. बैठक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय के स्थान में चलाई जाएगी.

57. साधारण सभा की असाधारण बैठक

- (i) ऐसा करने के लिए मंडल द्वारा निदेशित होने पर, या केन्द्रीय सरकार से या सभी शेयर धारकों के कुल मताधिकारों का कम से कम दस प्रतिशत धारण करनेवाले अन्य शेयरधारकों से ऐसी बैठक के लिए मांग प्राप्त होने पर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक, या उसकी अनुपस्थिति में बैंक का कोई निदेशक, शेयर धारकों की साधारण सभा की एक असाधारण बैठक बुला सकता है.
- (ii) उप विनियम(i) में उल्लिखित मांग में इस उद्देश्य का उल्लेख होगा जिसके लिए साधारण सभा की असाधारण सभा बुलाने की अपेक्षा की जाती है, परंतु उसमें समान रूप वाले ऐसे अनेक प्रलेख अंतर्विष्ट हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक या अधिक मांगकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित है.
- (iii) जहां दो या अधिक व्यक्ति किसी शेयर को संयुक्त रूप से धारण करते हैं, उनमें से एक या कुछ के द्वारा हस्ताक्षरित होने पर, बैठक बुलाने की मांग या सूचना के, इस विनियम के उद्देश्य हेतु, इस प्रकार अभिन्न शक्ति और प्रभाव होंगे, मानो वह उनमें से सभी द्वारा हस्ताक्षरित है.
- (iv) साधारण सभा की असाधारण बैठक के समय, दिनांक और स्थान मंडल द्वारा निश्चित होंगे. बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार या अन्य शेयर-धारक की मांग पर बुलाई जानेवाली साधारण सभा की असाधारण बैठक मांग की प्राप्ति से कम से कम 45 दिनों के भीतर बुलाई जाए.
- (v) यदि, मामले के अनुसार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक, उप-विनियम (iv) के परंतुक में निर्धारित अवधि के भीतर, उप विनियम(i) द्वारा अपेक्षितानुसार बैठक नहीं बुलाता है तो वह बैठक मांग के दिनांक से तीन माहों के भीतर स्वयं मांगकर्ताओं द्वारा बुलाई जा सकती है.
बशर्ते कि, इस उप-विनियम में उल्लिखित कोई बात उपरोक्त तीन माहों की अवधि की समाप्ति के पहले विधिवत् बुलाई गयी बैठक को उस अवधि के बाद किसी दिन के लिए स्थगित किये जाने से प्रतिबंधित करनेवाली नहीं मानी जाए.
- (vi) मांग-कर्ताओं द्वारा उप-विनियम (v) के अधीन बुलाई गयी बैठक, जहां तक हो सके, लगभग उसी रीति से बुलाई जाएगी, जैसे कि मंडल द्वारा बुलाई जानेवाली साधारण सभा की अन्य बैठकें बुलाई जाती हैं.

58. साधारण सभा की बैठक के लिए कोरम

- (i) कार्य-व्यापार के आरंभ में ऐसी बैठक में उपस्थित होकर मतदान करने का अधिकार रखनेवाले कम से कम पांच शेयर-धारकों का कोरम नहीं होने पर शेयर-धारकों की किसी भी बैठक में कोई भी व्यवहार नहीं चलाया जाएगा.
- (ii) यदि किसी बैठक को चलाने हेतु नियुक्त समय के बाद आधे घंटे के भीतर कोरम उपस्थित नहीं है तो, केन्द्रीय सरकार को छोड़कर अन्य शेयर धारकों की मांग द्वारा बुलायी गयी बैठक में, वह बैठक विघटित होगी.
- (iii) किसी अन्य मामले में, बैठक चलाने के लिए नियुक्त समय के बाद आधे घंटे के भीतर कोरम के उपस्थित नहीं होने पर वह बैठक, उसी समय और स्थान में अगले सप्ताह के उसी दिवस के लिए या अध्यक्ष द्वारा निर्धारित होनेवाले किसी अन्य दिवस तथा समय और स्थान के लिए स्थगित की जाएगी। यदि स्थगित हुई बैठक में उस बैठक को चलाने हेतु नियुक्त समय से आधे घंटे के भीतर कोरम की उपस्थिति नहीं है तो ऐसी स्थगित बैठक में वैयक्तिक रूप से या प्रॉक्सी के रूप में या विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित शेयर-धारक कोरम बनेंगे तथा उस कार्यव्यापार को चला सकेंगे जिसके लिए वह बैठक बुलायी गयी थी।

बशर्ते कि, साधारण सभा की कोई वार्षिक बैठक उस दिनांक के बाद के किसी दिनांक के लिए स्थगित नहीं होगी, जिसके भीतर अधिनियम की धारा 10ए(1) के अधीन साधारण सभा की ऐसी वार्षिक बैठक चलायी जाएगी तथा यदि अगले सप्ताह के उसी दिवस के लिए बैठक के स्थगन का यह परिणाम हो तो साधारण सभा की वार्षिक बैठक स्थगित नहीं की जाएगी, परंतु कोरम के उपस्थित होने पर बैठक का व्यवहार बैठक के लिए नियुक्त समय से एक घंटे के भीतर, या उस समय से एक घंटे के भीतर, या उस समय से एक घंटे की समाप्ति पर तुरंत आरंभ किया जाएगा तथा ऐसे समय में वैयक्तिक रूप से या प्रॉक्सी के रूप में या विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित शेयर धारक कोरम का निर्माण करेंगे.

59. साधारण सभा की बैठक का अध्यक्ष

- (i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक, या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा सामान्यतः या किसी विशिष्ट बैठक के संबंध में प्राधिकृत होनेवाले निदेशकों में से एक या उसकी अनुपस्थिति में इस उद्देश्य हेतु कार्यपालक निदेशक बैठक का अध्यक्ष होगा तथा यदि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक या इस उद्देश्य हेतु कोई अन्य निदेशक उपस्थित नहीं है तो उपस्थित अन्य किसी निदेशक को उक्त बैठक के लिए बैठक अध्यक्ष के रूप में चुन सकती है.
- (ii) साधारण सभा की बैठक का अध्यक्ष साधारण सभा की बैठकों की कार्य-विधि का नियंत्रण करेगा तथा विशेषतः उसे शेयर धारकों के बैठक को संबोधित करने का क्रम निर्धारित करने, व्याख्यानों के लिए समय-सीमा निश्चित करने, जब अपने मतानुसार किसी विषय पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है तब समाप्ति का निर्देशन करने तथा बैठक को स्थगित करने का अधिकार होगा.

60. साधारण सभा की बैठक में भाग लेने के हकदार व्यक्ति

- (i) बैंक के सभी निदेशक और सभी शेयर-धारक, उप-विनियम (ii) के अधीन, साधारण सभा की किसी बैठक में भाग लेने के हकदार होंगे.
- (ii) साधारण सभा की किसी बैठक में उपस्थित होनेवाले किसी शेयर धारक (जो केन्द्रीय सरकार नहीं है) या किसी निदेशक को पहचान के उद्देश्य हेतु तथा उसके मताधिकारों को निर्धारित करने के लिए अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट एक फार्म में हस्ताक्षर करके उसे बैंक को सुपुर्द करने की आवश्यकता होगी, जिसमें निम्नलिखित विवरण अंतर्विष्ट होंगे :
 - (क) उसका पुरा नाम और पंजीकृत पता,
 - (ख) उसके शेयरों की प्रभेदक संख्या
 - (ग) क्या वह मतदान करने का हकदार है ? तथा मतों की संख्या जिसके लिए वह वैयक्तिक रूप से या प्रॉक्सी के रूप में या विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में हकदार है.

61. साधारण सभा की बैठकों में मतदान

- (i) साधारण सभा की किसी भी बैठक में, बैठक के मत के लिए रखा कोई प्रस्ताव, मतगणना की मांग नहीं की जाने पर, हस्त-प्रदर्शन के द्वारा निर्णित होगा.
- (ii) अधिनियम में अन्यथा व्यवस्थितानुसार को छोड़कर साधारण सभा की किसी बैठक को प्रस्तुत प्रत्येक विषय बहुमत द्वारा निर्णित होगा.
- (iii) यदि उप-विनियम (i) के अधीन मतगणना की मांग नहीं की जाती है तो बैठक के अध्यक्ष की यह घोषणा कि अमुक प्रस्ताव हस्त-प्रदर्शन के आधार पर सर्वानुमत से या विशिष्ट बहुमत से स्वीकृत हुआ है या अस्वीकृत हुआ है तथा इस परिणाम के लिए बहियों में कार्यवाही विवरणों से अंतर्विष्ट एक प्रविष्टि, ऐसे प्रस्ताव के पक्ष में या विरुद्ध डाले गये मतों की संख्या या अनुपात के प्रमाण के बिना इस तथ्य का निर्णायक साक्ष्य होगी.
- (iv) किसी प्रस्ताव पर हस्त-प्रदर्शन के आधार पर मतदान के परिणाम की घोषणा के पहले या बाद की बैठक के अध्यक्ष द्वारा स्वयं अपने प्रस्ताव पर मतगणना की जाने का आदेश दिया जा सकता है तथा उसके द्वारा उक्त प्रस्ताव के संबंध में, वैयक्तिक रूप से या प्रॉक्सी के रूप में उपस्थित और उस प्रस्ताव पर कुल मताधिकारों के पांचवे भाग से कम न होनेवाले मताधिकारों को प्रदान करनेवाले शेयरों को धारण करनेवाले किसी शेयर-धारक या शेयर-धारकों द्वारा इस उद्देश्य हेतु की गयी मांग पर ऐसी मतगणना की जाने का आदेश दिया जाएगा.
- (v) मांग करनेवाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतगणना की मांग किसी भी समय वापस ली जा सकती है.
- (vi) स्थगन या बैठक के अध्यक्ष के चुनाव के प्रश्न पर मांगी गयी मतगणना तुरंत ली जाएगी.
- (vii) किसी अन्य प्रश्न पर मांगी गयी मतगणना बैठक के अध्यक्ष द्वारा निदेशित होनेवाले एक ऐसे समय में ली जाएगी जो मांग करने के समय से अड़तालीस घंटों के बाद नहीं होगा.
- (viii) जहां तक किसी व्यक्ति की मत देने की अर्हता का संबंध है, तथा साथ ही मतगणना के मामले में, जहां तक उन मतों की संख्या का संबंध है जिनके प्रयोग के लिए कोई व्यक्ति सक्षम है, बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

61क. चुनाव के समय जांच

- (i) जब चुनाव करवाया जाना हो तब बैठक का अध्यक्ष वोटों की जांच हेतु दो जांचकर्ता नियुक्त करेगा जो अपनी रिपोर्ट उन्हें सौंपेंगे.
- (ii) चुनाव का परिणाम घोषित होने से पूर्व जांचकर्ता को इटाने और इस कारण तथा अन्य कारणों से पैदा हुई रिक्तियों को भरने का अधिकार बैठक के अध्यक्ष को होगा.
- (iii) इस विनियम के अन्तर्गत तैनात दो जांचकर्ताओं में से एक हमेशा उपस्थित शेयरधारकों में से होगा (किन्तु बैंक का कर्मचारी या अधिकारी नहीं होगा) बशर्ते कि ऐसा शेयर धारक उपलब्ध व जांचकर्ता बनने का इच्छुक हो.

61ख. चुनाव लेने व परिणाम घोषणा की पद्धति

- (i) बैठक के अध्यक्ष के पास चुनाव सम्पन्न करने की प्रक्रिया निर्धारित करने के पूर्ण अधिकार होंगे.
- (ii) चुनाव परिणाम, जिस प्रस्ताव पर चुनाव लिए गये उस पर आयोजित बैठक का निर्णय माना जायेगा.

62. साधारण सभा की बैठकों का कार्य-विवरण

- (i) बैंक ऑफ महाराष्ट्र सभी कार्यवाहियों के कार्य-विवरण को इस उद्देश्य हेतु रखी गयी बहियों में दर्ज करने की व्यवस्था करेगा.
- (ii) जिस बैठक में कार्यवाहियां चलायी गयी थी उसके अध्यक्ष द्वारा, या अगली उत्तरवर्ती बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होने का अर्थ देनेवाले ऐसे कोई कार्य-विवरण उन कार्यवाहियों के लिए साक्ष्य होंगे.
- (iii) साधारण सभा की प्रत्येक बैठक, जिसकी कार्यवाहियों के संबंध में इस प्रकार कार्य-विवरण तैयार किये गये हैं, इसके प्रतिकूल प्रमाणित किये जानेतक, विधिवत् बुलायी तथा चलायी गयी और उसमें चलायी गयी सभी कार्यवाहियां विधिवत् चलायी गयी, मानी जाएंगी.
- (iv) किसी भी शेयर धारक की विशेष बैठक के कार्यवृत्त पुस्तिका की जांच करने या विशिष्ट बैठक के कार्यवृत्त मांगने के लिखित अनुरोध पर बैंक यथाप्रसंग ऐसी जांच करने और कार्यवृत्त की प्रति उपलब्ध करने की अनुमति देगा.

अध्याय 5 निदेशकों का निर्वाचन

63. साधारण सभा की बैठक में निर्वाचित होनेवाले सदस्य

- (i) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (i) के अधीन, केन्द्रीय सरकार को छोड़कर, रजिस्टर में दर्ज शेयर धारकों द्वारा स्वयं अपने में से कोई बैंक ऑफ महाराष्ट्र की साधारण सभा की बैठक में निदेशक के रूप में निर्वाचित होगा।
- (ii) जहां साधारण सभा की बैठक में किसी निदेशक का निर्वाचन किया जानेवाला है, उसकी सूचना बैठक बुलाने की सूचना में सम्मिलित होगी। ऐसी प्रत्येक सूचना में निर्वाचित होनेवाले निदेशकों की संख्या तथा, जिन रिक्त स्थानों के लिए निर्वाचन होने वाला है, उनका विवरण विनिर्दिष्ट होंगे।

64. शेयर-धारकों की सूची

- (i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप विनियम (i) के अधीन किसी निदेशक के निर्वाचन के उद्देश्य हेतु, रजिस्टर में दर्ज ऐसे शेयर-धारकों की एक सूची तैयार की जाएगी, जिनके द्वारा उस निदेशक का निर्वाचन किया जानेवाला है।
- (ii) इस सूची में शेयर-धारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और सूचक संख्याएं, शेयरों को पंजीकृत करने के दिनांकों तथा जिस बैठक में निर्वाचन होगा उसके लिए निर्धारित दिनांक को जिन मतों के लिए वे हकदार होंगे उनकी संख्या के साथ, अंतर्विष्ट होंगी और आवेदन-पत्र भेजने पर इस सूची की प्रतियां, बैठक के लिए निर्धारित दिनांक से कम से कम तीन सप्ताहों के पहले, मंडल या प्रबंधक समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर, प्रधान कार्यालय में उपलब्ध होंगी।

65. निर्वाचन हेतु प्रत्याशियों का नामांकन

- (i) एक निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु किसी प्रत्याशी का कोई नामांकन निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने तक वैध नहीं होगा।
 - (क) वह बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 100 शेयरों को धारण करनेवाला एक शेयर-धारक है।
 - (ख) वह नामांकन की प्राप्ति के अंतिम दिनांक को अधिनियम के अधीन या योजना के अंतर्गत एक निदेशक बनने के लिए अपात्र नहीं है।
 - (ग) उसने अपने द्वारा अकेले या अन्यो के साथ संयुक्त रूप से धारित शेयरों के संबंध में सभी मांग राशियों को मांग की अदायगी हेतु निर्धारित अंतिम दिन को या उसके पहले अदा किया है।
 - (घ) नामांकन अधिनियम के अधीन निदेशकों को चुनने के लिए पात्र कम से कम एक सौ शेयर धारकों या उनके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत अटार्नी द्वारा लिखित रूप से हस्ताक्षरित है, परंतु ऐसे शेयर धारक का, जो एक कंपनी है, कोई नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों के एक प्रस्ताव के द्वारा किया जा सकता है तथा जहां ऐसा किया जाता है, उस प्रस्ताव की जिस बैठक में उसे पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा वास्तविक प्रति के रूप में प्रमाणीकृत एक प्रति बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय को भेजी जाएगी और ऐसी प्रति ऐसी कंपनी की ओर से एक नामांकन मानी जाएगी।
 - (ङ) नामांकन के साथ, प्रत्याशी द्वारा किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, प्रत्याभूतियों के रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी, या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी

अधिकारी, के सम्मुख हस्ताक्षरित एक घोषणा, कि वह नामांकन को स्वीकार करता है तथा निर्वाचन के लिए खड़ा होना चाहता है और वह अधिनियम या योजना या इन विनियमों के अधीन एक निदेशक बनने से अपात्र नहीं बनाया गया है, संलग्न है या उसमें सम्मिलित है.

- (ii) कोई भी नामांकन यदि वह सभी संबंध एवं सभी प्रकार से पूर्ण प्रलेखों के साथ प्राप्त नहीं होता है तथा बैठक के लिए निर्धारित दिनांक से कम से कम चौदह दिनों के पहले किसी कार्य दिवस को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है तो वैध नहीं होगा

66. नामांकन पत्रों की संवीक्षा

- (i) नामांकन पत्रों की संवीक्षा नामांकनों की प्राप्ति हेतु निर्धारित दिनांक के प्रथम अनुवर्ती कार्यदिवस को की जाएगी तथा यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जात है तो उसका तिरस्कार, उसके लिए कारण रिकार्ड करके, किया जाएगा. यदि निर्वाचन द्वारा भर्ती किए जानेवाले किसी विशिष्ट रिक्त स्थान के लिए केवल एक ही नामांकन है तो इस प्रकार नामांकन प्रत्याशी को तुरंत निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम व पता इस प्रकार निर्वाचित के रूप में प्रकाशित किया जाएगा. ऐसी स्थिति में निर्वाचन के उद्देश्य हेतु बुलायी गयी बैठक में कोई निर्वाचन नहीं होगा और यदि वह बैठक पूर्वोक्त निर्वाचन के एक मात्र उद्देश्य हेतु बुलायी गयी थी तो वह रद्द होगी.
- (ii) निर्वाचन के चलाये जाने की स्थिति में, यदि वैध नामांकन निर्वाचित किये जानेवाले निदेशकों की संख्या से अधिक हैं तो सबसे अधिक मत प्राप्त करनेवाला प्रत्याशी निर्वाचित किया गया माना जाएगा.
- (iii) किसी वर्तमान रिक्त स्थान को भरने हेतु निर्वाचित किसी निदेशक को उस दिनांक के अनुवर्ती दिनांक से पद संभालनेवाला माना जाएगा, जिस दिनांक को वह निर्वाचित होता है या निर्वाचित माना जाता है.

67. निर्वाचन संबंधी विवाद

- (i) यदि निर्वाचित माने गये या घोषित किसी व्यक्ति की अर्हता या अनर्हता के संबंध में या किसी निदेशक के निर्वाचन की वैधता के संबंध में कोई संदेह या विवाद उत्पन्न होता है, तो कोई हितबद्ध व्यक्ति, जो एक प्रत्याशी या ऐसे निर्वाचन में मतदान करने का हकदार शेर-धारक है, उसकी सूचना ऐसे निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के दिनांक से सात दिनों के भीतर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को लिखित रूप से दे सकता है तथा उक्त सूचना में उन आधारों का पूरा विवरण देगा, जिन पर वह निर्वाचन की वैधता के बारे में संदेह या विवाद करता है.
- (ii) उप विनियम (i) के अधीन किसी सूचना के प्राप्त होने पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक, ऐसे संदेह या विवाद को तुरंत एक समिति के निर्णय हेतु विचारार्थ भेजेगा, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक, तथा अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) और खंड (सी) के अधीन मनोनीत निदेशकों में से कोई दो निदेशक सम्मिलित होंगे.
- (iii) उप विनियम (ii) में उल्लिखित समिति अपने द्वारा आवश्यक मानी जानेवाली जांच करेगी तथा यदि वह यह पाती है कि वह निर्वाचन एक वैध निर्वाचन था, तो वह उस निर्वाचन के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी या यदि वह पाती है कि वह निर्वाचन एक वैध निर्वाचन नहीं था तो वह जांच के आरंभ से 30 दिनों के भीतर, उन परिस्थितियों में समिति को न्यायसंगत लगनेवाला आदेश करेगी या निदेश देगी, जिसमें एक नये निर्वाचन को चलाना भी सम्मिलित होगा.
- (iv) इस उप-विनियम के अनुसरण में ऐसी समिति के कोई आदेश और निदेश निर्णायक होंगे

अध्याय 5

शेयर धारकों के मताधिकार

68. मताधिकारों का निर्धारण

- (i) अधिनियम की धारा 3(2ई) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अधीन, ऐसे प्रत्येक शेयर धारक को, जो साधारण सभा की किसी बैठक के दिनांक से पहले रजिस्टर के बंद किये जाने के दिनांक को पंजीकृत रहता है, ऐसी बैठक में हस्तदर्शन के द्वारा एक मत प्राप्त होगा तथा मतगणना के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत प्राप्त होगा।
- (ii) अधिनियम की धारा 3(2ई) में अंतर्विष्ट प्रावधानों की अधीन, पूर्वोक्तानुसार मतदान करने के हकदार ऐसे प्रत्येक शेयर धारक को, जो एक कंपनी नहीं है और वैयक्तिक रूप से या प्रॉक्सी के रूप में उपस्थित होता है, या जो एक कंपनी है और विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में या प्रॉक्सी के रूप में उपस्थित होता है, हस्तप्रदर्शन के द्वारा एक मत और मतगणना के मामले में, इसमें ऊपर उप-विनियम (i) में उल्लेखितानुसार, उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत प्राप्त होगा।

व्याख्या - इस अध्याय के लिए, "कंपनी" का अर्थ कोई निगमित निकाय है।

- (iii) बैंक के ऐसे शेयर धारकों को, जो साधारण सभा की किसी बैठक में उपस्थित होने तथा मतदान करने के हकदार हैं, स्वयं अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को (चाहे वह शेयर धारक हो या नहीं हो) अपने प्रॉक्सी के रूप में उपस्थित होने तथा मतदान करने हेतु नियुक्त करने का अधिकार होगा। परंतु इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

69. विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

- (i) कोई शेयर धारक जो केन्द्रीय सरकार या एक कंपनी है, एक प्रस्ताव के द्वारा शेयर धारकों की साधारण सभा की किसी बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु, मामले के अनुसार, अपने अधिकारियों में से किसी को या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है तथा इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में "विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि" के रूप में उल्लिखित), केन्द्रीय सरकार या उस कंपनी की ओर से, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, इन्हीं अधिकारों का इस प्रकार प्रयोग करने के लिए हकदार होगा, मानों वह बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक वैयक्तिक शेयर धारक है। इस प्रकार प्रदत्त प्राधिकरण वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसे मामले में ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक, केन्द्रीय सरकार / कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।
- (ii) यदि किसी व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले प्रस्ताव की, जिस बैठक में वह प्रस्ताव पारित किया था उसके अध्यक्ष द्वारा वास्तविक प्रति के रूप में प्रमाणीकृत, एक प्रति बैठक के लिए निर्धारित दिनांक से कम से कम चार दिनों के पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं की गयी है तो वह व्यक्ति बैंक के शेयर धारकों की किसी बैठक में कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित नहीं होगा या मतदान नहीं करेगा।

70. प्रॉक्सी

- (i) यदि प्रॉक्सी संबंधी कोई लिखत, किसी एकल शेयर धारक के मामले में, उसके द्वारा या लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हुई है, या संयुक्त धारकों के मामलों में, रजिस्टर में नामित प्रथम शेयर धारक या लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत उसके अटार्नी के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हुई है, या निगमित निकाय के मामले में, लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत उसके अधिकारी या अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हुई है, तो वह लिखत वैध नहीं होगी।

परंतु यदि कोई शेयर धारक किसी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ है तो प्रॉक्सी पर उसके निशान के लगाये जाने पर तथा किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, प्रतिभूतियों के रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित सरकारी अधिकारी या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित होने पर प्रॉक्सी संबंधी वह लिखत उसके द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होगी।

- (ii) यदि किसी प्रॉक्सी में विधिवत स्टाम्प नहीं लगाया गया है तथा उसकी एक प्रति, जिस अटार्नी अधिकार पत्र या किसी अन्य अधिकार पत्र के अधीन वह हस्ताक्षरित है, उसके बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में पहले ही जमा नहीं किये जाने पर तथा पंजीकृत नहीं होने पर ऐसे अटार्नी अधिकार पत्र या अन्य प्राधिकार पत्र, या उस अटार्नी अधिकार पत्र या अन्य प्राधिकार पत्र की किसी नोटरी पब्लिक या किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा वास्तविक प्रति के रूप में प्रमाणीकृत एक प्रति के साथ, बैठक के लिए निर्धारित दिनांक से कम से कम चार दिनों के पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं की गई है तो वह प्रॉक्सी वैध नहीं होगा।
- (iii) प्रॉक्सी संबंधी कोई लिखत फार्म "बी" में नहीं होने पर वैध नहीं होगी।
- (iv) बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जमा की गयी प्रॉक्सी संबंधी लिखत अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी।
- (v) वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में प्रदत्त प्रॉक्सी संबंधी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्मों को अमल में नहीं लाया जाएगा।
- (vi) इस विनियम के अधीन प्रॉक्सी संबंधी लिखत को प्रदान करने वाला ऐसी लिखत से संबंधित बैठक में वैयक्तिक रूप से उपस्थित हो कर मतदान करने का हकदार नहीं होगा।
- (vii) ऐसा कोई व्यक्ति विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अधिकारी या कर्मचारी है।

ज. पी. शिंदे
महाप्रबंधक

विधि और निगमित सेवाएं

दिनांक 22 जून, 2004

**बैंक ऑफ महाराष्ट्र
फार्म "ए"**

शेयर अंतरण फार्म

(विनियम 17 का उप विनियम (i) देखें)

अंतरणकर्ता अभिहित अंतरिती अभिहित को नीचे उल्लिखित प्रतिफल हेतु, नीचे विनिर्दिष्ट शेयरों को, जिन शर्तों पर उक्त शेयर अंतरणकर्ता (ओं) द्वारा धारित हैं उनके अधीन, एतद्वारा अंतरित करता है / करते हैं तथा अंतरिती उक्त शेयरों को पूर्वोक्त शर्तों के अधीन स्वीकार करने और धारण करने के लिए एतद्वारा अपनी सहमति व्यक्त करता है / करते हैं.

कंपनी का पूरा नाम				यदि किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में व्यवहृत होता है, तो उसका नाम		
ईक्विटी शेयरों का विवरण			प्रतिफल (अंकों में)	प्रतिफल (शब्दों में)		
शेयरों की संख्या (अंकों में)		शेयरों की संख्या (शब्दों में)				
प्रभेदक संख्याएं	से					
	तक					
अनुरूपी प्रमाणपत्र संख्या						

अंतरणकर्ता (ओं) / विक्रेता (ओं) का विवरण	पंजीकृत फोलियो संख्या	हस्ताक्षर
पूरा (रे) नाम	1	1
	2	2
	3	3
	4	4
साक्ष्यांकन		साक्षी के हस्ताक्षर
एतद्वारा मैं इसमें उल्लिखित अंतरणकर्ता (ओं) के हस्ताक्षरों को प्रमाणित करता / करती हूँ.		साक्षी का नाम व पता
हस्ताक्षर नाम पता / मुहर		
कृपया अनुदेशों के लिए पिछे देखें		

अंतरिती (अंतरितियों) / खरीदार (रों) का विवरण			हस्ताक्षर
पूरा (रे) नाम	1		1.
	2		2
	3		3

	पेशा	पता	पिता / पति का नाम
1			
2			
3			

यदि नामों के उसी अनुक्रम में अंतरिती (अंतरितियों) का कोई वर्तमान फोलियो हो तो उसका उल्लेख		चिपकाये गये स्टाम्पों का मूल्य रु.
---	--	------------------------------------

आज दो हजार	के	के	दिवस को	स्थान	
------------	----	----	---------	-------	--

केवल कार्यालय उपयोग के लिए	फोलियो सं.	कंपनी कूट
द्वारा जांच की गयी	अंतरिती (तियों) के नमूना हस्ताक्षर	1.
द्वारा हस्ताक्षरों का मिलान किया गया		2.
रजिस्टर अंतरण सं. में प्रविष्ट किया गया		3.
अनुमोदन का दिनांक		

साक्ष्यांकन हेतु अनुदेश:

साक्ष्यांकन, जहां वह अपेक्षित है (अंगूठे के निशान, चिन्ह, हस्ताक्षरों में भिन्नता आदि), किसी मैजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक या विशेष कार्यकारी मैजिस्ट्रेट या सरकारी पदधारी ऐसे प्राधिकारी, जो अपने पद की मुहर का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है, या किसी मान्यताप्राप्त शेयर बाजार के किसी ऐसे सदस्य, जिसके जरिये शेयरों को प्रस्तुत किया जाता है, या अंतरणकर्ता के बैंक के प्रबंधक द्वारा किया जाना चाहिए.

टिप्पणी : नाम अधिमानतः एक सीधी रेखा में रबर की मुहर से अंकित होने चाहिए. कालानुक्रमिकता का पालन किया जाना चाहिए. जब समाहरण सदस्य बैंक द्वारा सुपुर्दगी की जाती है, दलाल की समाहरण संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है.

सुपुर्द करने वाले व्यक्ति/अरिग नंबर	दलाल का नाम और दिनांक	अटार्नी अधिकार, वसीयत, मृत्यु प्रमाणपत्र, प्रशासन पत्र
		कंपनी में पंजीकृत सं. दिनांक
		दलाल, बैंक, कंपनी या शेयर बाजार समाहरणगृह के हस्ताक्षर (आद्याक्षर नहीं)
		# इसके द्वारा जमा किया गया
		पूरा पता :
		शेयर प्रमाणपत्र इन्हें लौटाना है (जिसको शेयर प्रमाणपत्र लौटाना अपेक्षित है उसका नाम व पता लिखें)
		शेयर अंतरण स्टाम्प
# अंतरिती के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भरा जाने वाला		

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

फार्म बी

प्रॉक्सी का फार्म

(विनियम 70 का उप नियम (iii) देखें)

फोलिओ सं. _____

(शेयर धारक द्वारा भरा जाने वाला)

मैं / हम, _____ राज्य के _____ जिले का / के निवासी,
 बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारक/कों की हेसियत से _____ दिनांक को चलायी जाने वाली बैंक के शेयर
 धारकों के बैठक में तथा कोई स्थगन में, मेरे / हमारे लिए तथा मेरी / हमारी ओर से मतदान करने हेतु अपने प्रॉक्सी
 के रूप में _____ राज्य के _____ जिले के निवासी श्री
 _____ को, या उनकी असमर्थता की स्थिति में,
 _____ राज्य के _____ जिले के निवासी श्री
 _____ को एतद्वारा नियुक्त करता हूँ / करते हैं।

आज, वर्ष 200 _____ के _____ दिनांक को हस्ताक्षरित.

नाम :

पता :



आवश्यक रसीदी स्टाम्प चिपकाएं
 हस्ताक्षर

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
प्रधान कार्यालय
बड़ौदा

संदर्भ सं.बीसीसी/विधि/एमटीयू/95/1538

दि.: 17 अक्टूबर, 2003

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (2), (1970 का 5) / (1980 का 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल ने भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श के उपरान्त तथा केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी के अनुसार बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य विनियम 1998 में पुनः संशोधन स्वरूप निम्नलिखित संशोधन किए हैं :-

1. (i) विनियम को बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (संशोधन) विनियम 2003 कहा जाए.
 (ii) सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ये विनियम प्रभावी होंगे.
2. "बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य विनियम 1998" को "बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियम 1998 " के नाम से जाना जाएगा.
3. यथानामित बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियम 1998 के विनियम 2 में
 - (i) खंड (इ) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् (इ) "समिति" से तात्पर्य "विनियम 2क के तहत गठित समिति से है".
 - (ii) खंड (झ) के अंत में निम्नलिखित शब्द एवं आंकड़े प्रविष्ट किए जाएंगे, अर्थात्
 "डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 11 के तहत डिपॉजिटरी द्वारा धारित हिताधिकारी स्वामियों का रजिस्टर"

4. विनियम 2 के उपरांत निम्नलिखित नया विनियम प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात्
 "2क (i) विनियम 67 के उपबंध (ii) में यथा उपलब्ध को छोड़कर निदेशक मंडल, जब कभी आवश्यक समझे, इन विनियमों हेतु एक समिति का गठन कर सकता है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यकारी निदेशक तथा दो अन्य निदेशक, जैसा वह उचित समझे, होंगे.
 (ii) इस विनियम के तहत गठित समिति निदेशक मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया नियमों का पालन करेगी.
5. विनियम 5 के उपबंध (v) को हटा दिया जाएगा.
6. विनियम 5 के पश्चात निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् -
 "5क (i) यदि बही में, अनुक्रमणिका बनाने, अनुक्रमणिका रखने, जोकि शेयरधारकों के नामों की कार्ड अनुक्रमणिका के रूप में हो सकता है, की संभावना नहीं है तो बैंक शेयरधारकों की बही में किए गए किसी परिवर्तन की तारीख से 14 दिनों के अंदर अनुक्रमणिका (Index) में आवश्यक परिवर्तन कर लेगा.
 (ii) अनुक्रमणिका को शेयरधारकों के रजिस्टर के साथ रखा जाएगा.
7. विनियम 7 के उपबंध (ii) में "फर्मों के संबंध में" शब्दों के स्थान पर "साझेदारी फर्मों के संबंध में" प्रतिस्थापित किया जाएगा.
8. विनियम 8 के उपबंध (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात्
 (iii) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (2000 का 21) में इलेक्ट्रॉनिक रिकार्डों को सुरक्षित रखने हेतु निर्धारित सुरक्षा मानकों के अधीन रहते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप में रजिस्टर रखा जाएगा.
9. विनियम 11 के उपबंध (ii) में "प्रति 100 शब्दों के लिए रु.5/- की दर से" को "प्रति 1000 शब्दों के लिए रु.5/- की दर से अथवा ऐसी दर से जिसे निदेशक मंडल निर्धारित करें" से प्रतिस्थापित किया जाएगा.
10. विनियम 12 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"12 बही बंदी-लागू दिशानिर्देशों तथा स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता समझौता के अनुपालन को सुनिश्चित करने, भारत में प्रचलित कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन के रूप में न्यूनतम 7 दिनों की पूर्व सूचना देने के उपरांत बैंक किसी भी अवधि अथवा प्रति वर्ष कुल 45 दिनों से अनधिक परंतु एक बार में 30 दिनों से अधिक नहीं, जैसा आवश्यक हो, शेयरधारकों की बही को बंद कर सकता है "

11. विनियम 13 में

- (i) उपबंध (ii) के "निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी" शब्दों को "कोई अन्य अधिकारी, जो वेतनमान-II अथवा कंपनी सचिव से नीचे का न हो" से प्रतिस्थापित किया जाएगा.
- (ii) उपबंध (v) को हटा दिया जाएगा.

12. विनियम 15 में "शेयर प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण" शीर्षक को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा.

"नया अथवा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करना"

13. विनियम 17 में उपबंध (iii) तथा (iv) के लिए निम्नलिखित उपबंध प्रतिस्थापित किया जाएगा.

"(iii) अंतरण को बही में दर्ज करने के अनुरोध के साथ प्राप्त होने पर बैंक द्वारा शेयर प्रमाणपत्र के साथ अंतरण लिखत, निदेशक मंडल अथवा निदेशक मंडल द्वारा नामित समिति उक्त अंतरण लिखत को शेयर प्रमाणपत्र के साथ, तकनीकी आवश्यकताओं के पूर्ण अनुपालन के सत्यापन हेतु, रजिस्ट्रार अथवा शेयर अंतरण एजेंट को भेजेगा. यदि अंतरण लिखत विधिवत् स्टांपित तथा रजिस्ट्रीकरण हेतु समुचित रूप से निष्पादित न हो एवं संबंधित शेयर प्रमाणपत्रों अथवा निदेशक मंडल द्वारा ऐसे अंतरण हेतु अंतरणकर्ता के हक दर्शाने हेतु अपेक्षित अन्य प्रमाणों से युक्त न हो तो रजिस्ट्रार अथवा शेयर अंतरण एजेंट शेयर प्रमाणपत्रों के साथ अंतरण लिखत अंतरिती को पुनः प्रस्तुत करने हेतु लौटा देगा.

व्याख्या :- "तकनीकी आवश्यकताओं के दृष्टांत" से तात्पर्य है.

- क) अंतरण विलेख, विधिवत रूप से स्टांपित होना चाहिए.
- ख) अंतरण विलेख में उल्लिखित प्रमाणपत्र नंबर अथवा डिस्टिंक्टिव नंबर को शेयर प्रमाणपत्र के साथ मेल खाना चाहिए.
- ग) अंतरणकर्ता के हस्ताक्षर मेल खाने चाहिए.
- घ) अंतरण विलेख साक्षीकृत होना चाहिए.

iv) निदेशक मंडल अथवा निदेशक मंडल द्वारा नामित समिति, जब तक कि इसके द्वारा विनियम 19 के अंतर्गत अंतरण के पंजीकरण को मना नहीं किया जाता, अंतरण को पंजीकृत कराएगी.

v) जब तक कि शेयरों का अंतरण विनियम 19 के अंतर्गत मना नहीं किया जाता, अंतरण लिखत के दायर किए जाने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अंतरिती को विधिवत रूप से अंतरित शेयर प्रमाणपत्र सुपुर्द करना होगा.

14. विनियम 19 में :-

- i) खण्ड (i) के "निदेशक मंडल मना कर सकता है " शब्दों के स्थान पर "निदेशक मंडल अथवा समिति मना कर सकती है " प्रतिस्थापित किया जाएगा.
- ii) खण्ड (i) के उपबन्ध को हटा दिया जाएगा.
- iii) खण्ड (ii) में -

(क) शुरुआत में "निदेशक मंडल द्वारा " शब्दों के स्थान पर " निदेशक मंडल अथवा समिति द्वारा " प्रतिस्थापित किया जाएगा.

(ख) उप-खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

" यदि इसने यह राय बना ली है कि ऐसा पंजीकरण उप-विनियम (i) में उल्लिखित किसी भी कारण के आधार पर मना किया जाना है तो इस संबंध में अंतरणकर्ता तथा अंतरिती को, अंतरण फार्म प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर अथवा संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार में दी गई अवधि के भीतर ऐसे मना किए जाने के कारणों को देते हुए, लिखित में नोटिस द्वारा सूचित करना होगा "

15. विनियम 21 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण - इस विनियम के उद्देश्य हेतु एक शेयरधारक, पंजीकरण के लिए अयोग्य हो जाएगा यदि -

(क) वह नाबालिग का अभिभावक है तो नाबालिग के बालिग हो जाने पर

(ख) कर्ता के नाते शेयरों को धारित किए हुए हैं तो उसके कर्ता न रह जाने पर.

16. विनियम 32 में "उस संदर्भ में निदेशक मंडल के संकल्प द्वारा" शब्दों के स्थान पर "विनियम 31 के अंतर्गत जब्ती के नोटिस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् आयोजित होनेवाली निदेशक मंडल की अपनी अगली बैठक में उस संदर्भ में संकल्प द्वारा" प्रतिस्थापित किया जाएगा.

17. विनियम 44 में "बैंक के किसी अन्य अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "कंपनी सचिव अथवा बैंक का अन्य कोई अधिकारी जो वेतनमान-II के रैंक से कम नहीं होना चाहिए" प्रतिस्थापित किया जाएगा.

18. विनियम 46 में, खण्ड (ii) के उपबंध में

(i) "पंजीकृत डाक द्वारा पावती सहित अथवा रहित" शब्दों के स्थान पर "पंजीकृत डाक द्वारा पावती सहित अथवा रहित अथवा कुरिअर सर्विस द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा " प्रतिस्थापित किया जाएगा.

(ii) मामलानुसार "सामान्य डाक द्वारा" के पश्चात् "अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम" जोड़ा जाएगा.

19. अध्याय III में -

(i) विनियम 47 में, "एक अथवा अधिक डिपॉजिटरी" शब्दों के स्थान पर "डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 की धारा 2 (ई) में परिभाषित के अनुसार एक अथवा अधिक डिपॉजिरी" प्रतिस्थापित किया जाएगा.

(ii) विनियम 48 से 55 तक को हटा दिया जाएगा -

20. विनियम 56, खण्ड (i) में "कोई भी प्राधिकृत अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "कोई भी अधिकारी जो वेतनमान-VII के श्रेणी से कम न हो अथवा कंपनी सचिव" प्रतिस्थापित किया जाएगा.

21. विनियम 61 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियमों को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

61ए मतगणना स्थल पर मतपत्र निरीक्षक

- (i) जहाँ पर मतगणना होनी है वहाँ पर किए गए मतदान के मतपत्रों की जांच के लिए बैठक के अध्यक्ष दो मतपत्र निरीक्षकों की नियुक्ति करेगा, जो कि इस बारे में उन्हें रिपोर्ट करेंगे.
- (ii) बैठक के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह मतगणना के परिणाम की घोषणा के पहले किसी भी समय मतपत्र निरीक्षक को उसके पद से हटा सकता है एवं निरीक्षकों को हटाये जाने के फलस्वरूप अथवा अन्य किसी कारण से पैदा हुई रिक्तियों को भर सकता है.
- (iii) अधिनियम के अंतर्गत इस तरह से नियुक्त किए गए दो मतपत्र निरीक्षकों में से एक बैठक में उपस्थित शेयरधारक (बैंक के अधिकारी अथवा कर्मचारी के रूप में नहीं) का होना जरूरी है, बशर्ते कि इस तरह का शेयरधारक उपलब्ध हो, एवं वह इसके लिए सहमत हो.


61बी मतगणना करने एवं उसके परिणाम का तरीका

- (i) बैठक के अध्यक्ष के पास मतगणना करने के तरीके के बारे में विनियमन का अधिकार रहेगा.
- (ii) मतगणना के परिणाम को मतगणना हेतु किए गए संकल्प पर बैठक में लिया गया निर्णय समझा जाएगा.

22. अधिनियम 62 में, खंड (iii) के बाद, निम्नलिखित खंड शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:

- (iv) मिनट बुक के निरीक्षण अथवा विशेषीकृत बैठक में मिनट की प्रति के लिए शेयरधारक द्वारा लिखित रूप से किए गए निवेदन पर, बैंक शेयरधारक को संबंधित स्थिति के अनुसार निरीक्षण की स्वीकृति देगा अथवा मिनट की प्रति को प्रस्तुत करेगा.

23. अधिनियम 65 के खंड (1) उपखंड (क) में "100 (एक सौ) शेयरों की धारिता " शब्दों के स्थान पर "100 (एक सौ) शेयरों से कम की धारिता नहीं " से प्रतिस्थापित किया जाएगा.


 (एम टी उदेशी)
 उप महाप्रबंधक (वित्त)

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालय, कोलकाता

कोलकाता, दिनांक : 28-07 2004

सं.1/2004 - बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में पुनः संशोधन हेतु एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. (1) ये विनियम युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2004 कहलाएंगे।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में,
 - (क) विनियम 2 के उप-विनियम (घ) के खंड (ख) में, उप खण्ड (iii) के बाद निम्नलिखित उप-खण्ड शामिल किया जाएगा; अर्थात्

"(iv) 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सूचकांक के 1148 अंकों तक परिकलित महंगाई भत्ता;"
 - (ख) विनियम 41 में, उप-विनियम (6) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(6) जो आवेदक अधिवर्षिता पेंशन या स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन या समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अशक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता के लिए प्राधिकृत है, वह इन विनियमों के अंतर्गत अपनी पेंशन के एक हिस्से को संराशीकृत करने का पात्र होगा;

परंतु, 1.7.2003 को या से, जिस आवेदक के मामले में पेंशन का संराशीकृत मूल्य उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन या संराशीकरण पूर्ण होने की तारीख से देय होता है, संराशीकरण के कारण पेंशन की रकम में कमी उसके प्रारंभ की तारीख से ही लागू होगी। तथापि, जहाँ संराशीकृत पेंशन की रकम का भुगतान, यथास्थिति, सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले माह या संराशीकरण पूर्ण होने की तारीख से पहले माह के भीतर नहीं होता है वहाँ मासिक पेंशन और संराशीकृत पेंशन के अंतर का भुगतान, यथास्थिति, सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन से या संराशीकरण पूर्ण होने की तारीख से, जिस तारीख को संराशीकृत पेंशन को प्रदत्त माना गया है, उससे पिछली तारीख तक किया जाएगा।"

पाद टिप्पणी : मूल विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 29.9.1995 को (असाधारण) प्रकाशित हुए थे तथा परवर्ती संशोधन राजपत्र में निम्नानुसार प्रकाशित हुए :
अधिसूचना सं. दिनांक

1.	1/99	01.10.99
2.	1/2002	09.02.02
3.	2/2002	07.12.02

हस्ताक्षर: 

नाम : अनूप शंकर भट्टाचार्य


पदनाम: महाप्रबंधक & संसाधन प्रबंधन

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

मुंबई-400051, दिनांक 29 जुलाई 2004

सं. जी एस आर

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981(1981 कर 61) की धारा 48(5) के अनुसरण में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का 31 मार्च 2004 का तुलनपत्र, 31 मार्च 2004 (अप्रैल 2003-मार्च 2004) समाप्त वर्ष के लिए बैंक का लाभ और हानि लेखा तथा वर्ष की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट नीचे प्रकाशित हैं।



जी एस मेनन

मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव

गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स

चुनवी लेखाकार

अम्बू - 180 012

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के 31 मार्च 2004 के संलग्न तुलन पत्र और उसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि लेखों की जांच की है, जिसमें 10 क्षेत्रीय कार्यालयों और राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय, लखनऊ के रिटर्न भी शामिल हैं जिनकी हमने लेखा-परीक्षा की है। इन कार्यालयों का ध्यान हमने बैंक के परामर्श से वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (बैंकिंग प्रभाग) द्वारा जारी अधिसूचना सं. 1/4/2003 - बी.ओ.ए, दिनांक 27 जनवरी 2004 के अनुसार किया गया है। तुलन पत्र एवं लाभ-हानि लेखों में 19 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा 2 प्रशिक्षण केंद्रों के रिटर्न भी शामिल हैं जिनकी लेखा-परीक्षा नहीं की गई। इन जिन कार्यालयों की लेखा परीक्षा नहीं हुई उनके अग्रिम 20.55 प्रतिशत तथा ब्याज पर आय 18.88 प्रतिशत आती है। ये वित्तीय विवरण बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी, अपने लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने अपना लेखा-परीक्षा कार्य भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम लेखा-परीक्षा की योजना और कार्य इस प्रकार करें जिसमें समुचित रूप में यह आश्वासन प्राप्त हो जाता है कि क्या दिए गए वित्तीय विवरण किसी भी महत्वपूर्ण वृद्धिप्रस्तुति से मुक्त हैं। लेखा-परीक्षा में धन राशियों के समर्थन में दिए गए साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरण की जांच, परीक्षण के आधार पर, सम्मिलित होती है। प्रबंधन द्वारा अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों और किए गए महत्वपूर्ण आकलनों के साथ-साथ समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यकन भी लेखा-परीक्षा में शामिल होता है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा-परीक्षा से हमारी राय को उचित आधार प्राप्त होता है।

ऊपर पैरा 1 में उल्लिखित सीमाओं के तहत हम रिपोर्ट करते हैं कि :

- क. हमने वे सभी सूचनाएं और व्याख्याएं प्राप्त की जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थीं और वे संतोषजनक पायी गयीं;
- ख. तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 के अध्याय IV की अनुसूची 'अ' और अनुसूची 'आ' के अनुसार तैयार किया गया है ;
- ग. प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, उप कार्यालय और प्रशिक्षण केंद्रों से प्राप्त रिटर्नों को हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से पर्याप्त पाया गया है;
- घ. हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें प्रस्तुत की गयी व्याख्याओं के अनुसार :
 - (i) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और उनसे संबंधित टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र पूर्ण और स्पष्ट हैं और उसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा उसे भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही ढंग से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च 2004 तक के बैंक के कार्यों की सही और स्पष्ट स्थिति की जानकारी मिल सके ; और
 - (ii) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और उनसे संबंधित टिप्पणियों के साथ पठित लाभ और हानि लेखा, 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के लाभ का भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही ढंग दर्शाता है।

नई दिल्ली, 12 जून 2004

दृष्टे गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
चुनवी लेखाकार

अशोक गुप्ता
(साक्षेदार)

संव्ययता सं. 17244

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
तुलना पत्र - 31 मार्च 2004 की स्थिति

(रुपये)

क्रम सं.	निधियाँ और वेवताएं	अनुसूची	31.03.2004 की	31.03.2003 की
1.	सूची मार्गदर्शक अधिनियम, 1948 की धारा 4 के अंतर्गत		2000,00,00,000	2000,00,00,000
2.	प्रारंभित निधि और अन्य प्रारंभित निधियाँ	1	5280,89,85,487	4319,43,85,813
3.	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (बीकॉवर्धि परिचालन) निधि	2	13070,00,00,000	12845,00,00,000
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	2	1500,00,00,000	1474,00,00,000
5.	अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदानों से वृद्धित निधियाँ	3	184,59,32,258	199,44,89,348
6.	उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियाँ	4	103,84,80,584	127,24,27,848
7.	अन्य निधियाँ	5	510,58,57,247	414,18,20,595
8.	जमादारियाँ	6	12151,00,42,530	12248,55,88,899
9.	बाँट और डिबेंचर	7	11883,32,21,000	8702,19,81,000
10.	उधार	8	7553,86,11,482	9882,75,00,305
11.	चालू वेवताएं और प्रावधान	9	1841,01,22,836	889,07,57,465
	जोड़		88888,60,83,082	80070,89,28,971
	बाधक विदेशी मुद्रा संविदाएं (सुरक्षा)		335,37,19,410	0
	उपधनशील वाधक और आकस्मिक वेवताओं के अनुसार	17		
	लेखों के भाग के रूप में विवक्षितियाँ	18		
क्रम सं.	सम्पत्ति और आस्तियाँ	अनुसूची	31.03.2004 की	31.03.2003 की
1.	रोजगार और बैंक शेष	10	2888,89,40,781	1784,89,87,373
2.	निवेश (लागत पर)	11	2411,87,47,581	1384,89,11,020
3.	अग्रिम	12	48790,29,44,249	45391,40,80,219
4.	अचल आस्तियाँ	13	244,51,50,388	343,75,15,518
5.	अन्य आस्तियाँ	14	1541,78,70,184	1325,71,35,844
	जोड़		88888,60,83,082	80070,89,20,071
	बाधक विदेशी मुद्रा संविदाएं (सुरक्षा) उपधनशीलों के अनुसार		335,37,19,410	0
<p align="center">कृते गुणा शर्मा एण्ड एसोसिएट्स संलग्न इसी विभागा की हमारी रिपोर्ट के अनुसार समयी लेखाकार</p> <p>वी.एस.एस.आर. शर्मा मुख्य महाप्रबंधक वित्त और लेखा विभाग नई दिल्ली, 12 जून 2004</p> <p>अशोक गुप्ता साझेदार संलग्नता सं. 17244 नई दिल्ली, 12 जून 2004</p> <p>रजना कुमार अध्यक्ष नई दिल्ली, 12 जून 2004</p> <p>वाई.एस.वी. शीरान प्रबंध निदेशक</p> <p>एम.एस. सिताविधा निदेशक</p> <p>के.जे. उर्वशी निदेशक</p>				

(हस्ताक्षर)

जी एस मेहन
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

(रुपए)

क्रम सं.	व्यय	अनुसूची	31.03.2004 को	31.03.2003 को
1.	ऋण और अग्रिमों प्राप्त ब्याज		3937,97,40,230	3717,41,23,081
2.	ऋण, परिचालनों से ब्याज		309,39,91,020	311,00,78,076
3.	प्राप्त डिस्काउन्ट		0	2,54,98,287
4.	अन्य प्राप्तिर्था (नोट बी-13 अनुसूची 18 देखें)		19,90,35,313	15,43,01,829
	जोड़ 'ए'		4267,27,66,563	4046,40,01,273

क्रम सं.	व्यय	अनुसूची	31.03.2004 को शेष	31.03.2003 को शेष
1.	व्याज और विलंबीय प्रभार	15	2389,59,90,720	2170,88,58,648
2.	स्थापना और अन्य व्यय	16	354,61,32,615	276,74,55,642
3.	मूल्यवृद्धि (नोट बी-13 अनुसूची 18 देखें)		30,15,16,049	28,55,70,695
4.	प्रावधान क) अशोध्य एवं संवर्धन ऋण ख) निवेश की मालिकता में मूल्यह्रास (नोट बी-13-II (9) अनुसूची 18 देखें)		51,63,45,574 65,00,000	45,95,59,318 0
	जोड़ 'बी'		2806,84,84,958	2522,14,44,501
5.	आयकर निर्धारण पूर्व लाभ (ए - बी)		1460,42,81,605	1524,25,56,772
6.	क) जोड़ें - आस्थगित कर - आसि (समायोजन) ख) घटाएं - आयकर के लिए प्रावधान		36,40,00,000 375,00,00,000	13,00,00,000 390,00,00,000
7.	वर्ष के लिए कर निर्धारण के बाद लाभ अधोनीत		1121,82,81,605	1147,25,56,772

लाभ और हानि विनियोजन लेखा

(रुपए)

क्रम सं.	विनियोजन/आहरण	31.03.2004 को शेष	31.03.2003 को शेष
1.	वर्ष का लाभ अधोनीत	1121,82,81,605	1147,25,56,772
	जोड़ें: लाभ और हानि खाते से नामे किए गए व्यय के सम्पन्न निधियों से आहरण		
	सहकारिता विकास निधि (अनुसूची 1 देखें)	4,75,95,441	6,01,73,998
	अनुसंधान और विकास निधि (अनुसूची 1 देखें)	6,70,45,830	6,94,52,019
	वाटरशेड विकास निधि (अनुसूची 5 देखें)	2,55,04,226	2,28,16,952
	सूक्ष्म वित्त विकास निधि (अनुसूची 5 देखें)	3,13,15,379	1,58,79,663
	विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	1138,97,42,481	1164,08,79,404
2.	निम्नलिखित में अंतरित किया गया		
i.	धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियाँ	600,00,00,000	570,00,00,000
ii.	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	124,00,00,000	221,00,00,000
iii.	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरकरण) निधि	25,00,00,000	221,00,00,000
iv.	सहकारिता विकास निधि	4,75,95,442	12,67,81,129
v.	अनुसंधान और विकास निधि	6,70,45,830	12,56,61,588
vi.	सूक्ष्म वित्त विकास निधि	7,05,11,537	1,93,64,478
vii.	विदेशी मुद्रा जोखिम निधि	13,62,29,603	13,62,29,603
viii.	आदिवासी विकास निधि	50,00,00,000	0
ix.	निवेश में उतार-चढ़ाव प्रारक्षित	9,87,71,000	0
x.	प्रारक्षित निधि	297,95,89,069	111,28,42,606
	जोड़	1138,97,42,481	1184,08,79,404

पी.एस.एस.आर. शर्मा
मुख्य महाप्रबंधक
वित्त और लेखा विभाग
नई दिल्ली, 12 जून 2004

रंजना कुमार
अध्यक्ष
नई दिल्ली, 12 जून 2004

वाई.एस.पी. शोरात
प्रबंध निदेशक

संलग्न इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कुल गुणा शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
समूह लेखाकार

अशोक गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं. 17244
नई दिल्ली, 12 जून 2004

एन.एस.सितोदिया
निदेशक

के.जे.उदगी
निदेशक

अशोक गुप्ता
जी एस मेनन
 मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 1

(रुपए)

क्रम सं.	प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियाँ	01.04.2003 को प्रारंभिक शेष	वर्ष में वृद्धि/समायोजन	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	लाभ-हानि विनियोजन को अंतरित	31.03.2004 को शेष
1.	प्रारक्षित निधि	2888,39,28,081	2	297,95,89,069	0	3166,35,17,152
2.	अनुसंधान और विकास निधि	50,00,00,000	0	6,70,45,830	6,70,45,830	50,00,00,000
3.	प्रारक्षित ऋण	74,80,53,208	0	0	0	74,80,53,208
4.	निवेश में उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	103,67,29,000	0	9,87,71,000	0	113,55,00,000
5.	सहकारित विकास निधि	75,00,00,000	0	4,75,95,442	4,75,95,442	75,00,00,000
6.	मार्गिन राशि हेतु तुल्य रूप सहकारित निधि	10,00,00,000	0	0	0	10,00,00,000
7.	कृषि और ग्रामीण उद्यम उद्घमन निधि	5,00,00,000	0	0	0	5,00,00,000
8.	विदेशी मुद्रा जेखिम निधि	92,56,85,524	0	13,62,29,803	0	106,19,15,127
9.	आवक अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित और अनुसूचित विशेष प्रारक्षित निधि	1040,00,00,000	0	600,00,00,000	0	1640,00,00,000
10.	आदिवासी विकास निधि	0	0	50,00,00,000	0	50,00,00,000
	जोड़	4319,43,95,813	2	982,92,30,944	*1,46,41,272	5290,89,85,487
	गत वर्ष	3628,20,05,996	-13,94,99,092	720,15,14,928	12,96,26,017	4319,43,95,813

अनुसूची 2

(रुपए)

क्रम सं.	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियाँ	प्रारंभिक शेष 01.04.2003 को	भा.रि.बैंक का अंशदान	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	31.03.2004 को शेष
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	12945,00,00,000	1,00,00,000	124,00,00,000	13070,00,00,000
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्विकरीकरण) निधि	1474,00,00,000	1,00,00,000	25,00,00,000	1500,00,00,000
	जोड़	14419,00,00,000	2,00,00,000	149,00,00,000	14570,00,00,000
	गत वर्ष	13975,00,00,000	2,00,00,000	442,00,00,000	14419,00,00,000

अनुसूची 3

(रुपए)

क्रम सं.	अन्तराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदान से सृजित निधियाँ	प्रारंभिक शेष 01-04-2003 को	वर्ष में प्राप्त अनुदान	निधि में जमा ब्याज	वर्ष में व्यय/संवितरण/समायोजन	31.03.2004 को शेष
1.	राष्ट्रीय बैंक - रिवस विकास सहयोग परियोजना	34,09,46,974	0	0	0	34,09,46,974
2.	ग्रामीण संवर्द्धन कॉरपस निधि	61,80,70,668	0	0	0	61,80,70,668
3.	ग्रामीण संवर्द्धन कॉरपस निधि पर ब्याज (नोट बी-2 अनुसूची 18 देखें)	23,46,36,508	0	3,73,41,764	10,20,45,475	16,99,32,797
4.	ऋण और वित्तीय सेवा निधि (नोट बी-2 अनुसूची 18 देखें)	64,60,05,727	0	3,87,62,342	16,33,367	68,51,54,702
5.	घाटरशेड विकास हेतु केएफडब्ल्यू निधि (नोट बी-2 अनुसूची 18 देखें)	2,62,02,337	5,95,34,070	9,77,969	6,27,94,103	2,39,20,273
6.	आदिवासी कार्यक्रम हेतु केएफडब्ल्यू - नाबाई V निधि *	2,64,94,353	2,99,81,212	0	4,87,16,760	77,58,785
7.	सीईसी - बीएआईएफ परियोजना निधि (नोट बी-2 अनुसूची 18 देखें)	99,779	12,76,52,905	69,112	12,76,85,739	1,36,057
	जोड़	189,44,58,348	21,71,68,187	7,71,71,187	34,28,75,464	184,59,22,256
	गत वर्ष	177,08,25,421	31,81,49,819	7,43,16,226	26,88,32,920	189,44,58,346

* प्राप्त अनुदान में नाबाई V आदिवासी विशेष कार्यक्रम - गुजरात में अंतरित रु.1,85,34,547/- शामिल है।

अनुसूची 4

(रुपए)

क्रम नं.	उपकरण, अनुदान, काम और उपकृतियाँ	प्रारम्भिक शेष 01-04-2003 को	वर्ष में प्राप्त अनुदान	जमा जमा	व्यय के समस्त सम्बन्धित	31.03.2004 को अंतिम शेष
अ.						
1.	जीटीसेड बैंकिंग लिमिटेड परियोजना	0	1,08,72,170	0	67,75,649	40,96,521
2.	संघीय पशुधन बैंक के लिए पूंजी निवेश समिति	59,45,04,810	11,00,00,000	0	49,02,42,800	21,42,62,210
3.	केएफएचएल-नाबार्ड -IX आदिवासी कार्यक्रम (नोट सी-2 अनुसूची 18 देखें)	82,83,890	5,88,50,392	5,03,862	3,83,77,150	2,42,60,794
4.	नाबार्ड - एलडीसी: ग्रामीण शिक्षा परियोजना में काम और संस्करण विकास सहयोगिता	76,67,624	5,14,12,628	0	4,86,01,924	1,04,78,226
5.	लघु उद्योगों के तकनीकी उन्नयन के लिए ज्ञान संचयन (सी अनुदान)	0	3,00,00,000	0	0	3,00,00,000
6.	ग्रामीण मंचों के लिए पूंजी निवेश समिति	7,73,44,800	80,88,00,000	0	86,76,22,549	1,83,22,251
7.	कमल उपकरण के लिए आम कार्य जल प्रबंध	60,42,21,800	0	0	35,84,75,940	14,57,45,660
8.	मिलियन उल्लेख नालक कार्यक्रम	4,00,55,268	154,57,00,000	0	111,35,84,180	47,21,91,085
9.	नाबार्ड - V आदिवासी विशेष विकास कार्यक्रम - मुचला (नोट सी-2 अनुसूची 18 देखें)	3,81,00,737	0	17,63,188	3,88,34,547	10,29,378
10.	पशु विकास कार्यक्रम - उत्तर प्रदेश	0	5,44,40,000	0	0	5,44,40,000
11.	पशु विकास कार्यक्रम - बिहार	0	5,44,40,000	0	0	5,44,40,000
12.	आईडीएलसीसी - आंध्र प्रदेश	0	57,55,983	97,380	26,69,292	31,84,061
उप-जोड़		128,71,78,728	272,85,71,081	23,84,210	296,51,63,831	103,24,50,186
आ.						
	नाबार्ड एलडीसी एचआईडी परियोजना के अंतर्गत अग्रणी परिसम्पत्तियों के लिए अनुदान	52,48,222	5,87,475	0	28,08,319	30,30,378
जोड़	(अ + आ)	127,24,27,948	272,98,58,556	23,84,210	296,79,70,150	103,54,80,564
गम वर्ष		84,89,87,781	264,41,97,709	3,04,405	222,10,61,947	127,24,27,948

ड.		31.03.2004 को शेष	31.03.2003 को शेष
	एआरडीआर योजना, 1990 के अंतर्गत क्षेत्रा बैंकों/राज बैंकों/राष्ट्रीय बैंकों को अनुदान	2695,94,72,596	2696,22,05,549
	घटाएँ: एआरडीआर योजना 1990 के अंतर्गत क्षेत्रा बैंकों/राज बैंकों/राष्ट्रीय बैंकों को जारी अनुदान	2695,94,72,596	2696,22,05,549
		0	0

* वर्ष के मध्य समायोजन किया गया जिसमें केएफएचएल - नाबार्ड V आदिवासी विकास निधि (अनुसूची 3) में अंतर्गत की जा रही धनराशि रु. 1,85,34,547/- शामिल है और 'जमा ब्याज' में फुटकर नमूना - फुटकर जमा में से अंतर्गत वर्ष 2002-03 का ब्याज रु. 7,33,810/- शामिल है.

अनुसूची 5

(रुपए)

क्रम सं.	अन्य विधियाँ	प्रारंभिक से 01.04.2003 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन/सम्प्रेषण	सम-कृति विनिर्देशन से अंतरित	वर्ष के दौरान व्यय/अंतरित	अवशेष	सम-कृति विनिर्देशन से अंतरित	31.03.2004 को से
1.	वाटरशेड विकास निधि	264,64,57,011	88,98,07,955	0	2,55,04,226	15,57,27,301	2,55,04,226	343,09,83,816
2.	सूखे प्रति विकास निधि	100,00,00,000	0	7,05,11,537	3,91,96,158	0	3,13,15,379	100,00,00,000
3.	व्याज विधेयक निधि (विदेशी मुद्रा जोखिम)	43,54,61,388	17,13,92,224	0	0	0	0	60,68,53,612
4.	व्याज विधेयक निधि (तक)							
	(नोट बी-1 अनुसूची 18 देखें)	5,21,01,501	2,38,56,405	0	2,38,62,385	0	0	5,20,95,521
5.	शिक्षिता सहायता निधि	78,00,665	39,16,362	0	82,03,530	6,41,469	0	41,54,966
6.	आदिवासी विकास निधि	0	1,15,79,332	0	0	0	0	1,15,79,332
	जोड़	414,18,20,565	89,05,52,278	7,05,11,537	9,67,66,299	15,63,68,770	5,68,19,604	810,56,67,247
	मत वर्ष	402,15,72,696	19,03,05,230	1,93,64,478	5,07,25,224	0	3,86,96,615	414,18,20,565

अनुसूची 6

(रुपए)

क्रम सं.	व्यापारिक	31.03.2004 को से	31.03.2003 को से
1.	केन्द्र सरकार	2,13,17,000	2,13,17,000
2.	राज्य सरकार	1,55,65,900	2,95,65,900
3.	व्यवसायिक	58,73,59,630	84,24,65,899
4.	वाणिज्य बैंक (अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत वसा)	12088,58,00,000	12159,22,50,000
	जोड़	12151,00,42,530	12248,55,98,599

अनुसूची 7

(रुपए)

क्रम सं.	बॉन्ड और डिबेंचर	31.03.2004 को से	31.03.2003 को से
1.	एसएलआर बॉन्ड	882,30,11,000	980,30,11,000
2.	करमुक्त बॉन्ड	1150,00,00,000	1014,85,00,000
3.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर योग्य बॉन्ड	3696,60,00,000	2198,80,00,000
4.	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बॉन्ड	1803,50,00,000	53,50,00,000
5.	पूँजी अभिलाष बॉन्ड	4350,72,10,000	4474,73,50,000
	जोड़	11883,32,21,000	8702,18,61,000

अनुसूची 8

(रुपए)

क्रम सं.	उधार	31.03.2004 को से	31.03.2003 को से
1.	केन्द्र सरकार से	563,05,52,547	589,14,72,067
2.	सामान्य ऋण व्यवस्था के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से	4193,59,54,000	5792,07,79,000
3.	कारपोरेट उधार	2500,00,00,000	0
4.	अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से - भारत से बाहर (नोट बी-6 (क) अनुसूची 18 देखें)	297,01,04,915	301,53,49,238
	जोड़	7553,66,11,462	6682,76,00,305

अनुसूची 9

(रुपए)

क्रम सं.	आपूर्ति, देयताएं और प्रावधान	31.03.2004 को शेघ	31.03.2003 को शेघ
1.	व्याज उपस्थित लेकिन देय इस समय नहीं		
	क) भारत सरकार से ऋण	20,97,37,761	21,34,66,673
	ख) बांड	428,01,49,564	269,43,96,281
	ग) वाय कंपनियों की जमा राशियाँ	4,18,63,220	8,77,77,189
	घ) केन्द्र और राज्य सरकारों से जमा राशियाँ (एस एल ए)	6,43,682	8,78,253
	ङ.) अन्तराष्ट्रीय एजेंसियों से उधार	58,54,132	56,53,780
	च) आरआईडीएफ के अंतर्गत जमा राशियाँ	290,13,60,554	264,15,64,095
	छ) वाणिज्य बैंकों से उधार	38,28,767	0
	उप-जोड़	744,32,37,680	564,37,36,271
2.	फुटकर लेनदार (नोट बी-7 अनुसूची 18 देखें)	127,08,41,835	29,71,93,646
3.	ग्रेजुटी के लिए प्रावधान	120,10,37,000	100,97,43,109
4.	पेंशन के लिए प्रावधान (नोट बी-4 अनुसूची 18 देखें)	178,98,28,821	91,72,65,283
5.	साधारण अवकाश के नकदीकरण हेतु प्रावधान	45,13,66,000	38,26,09,000
6.	* आवेदन धनराशि-पूँजी अभिलाष बांड	0	40,00,000
7.	पा.रि.बैंक के पास बांड पर अदावाकृत व्याज, (नोट बी-5 अनुसूची 18 देखें)	14,95,839	2,68,08,942
8.	बांड पर अदावाकृत व्याज - अन्य	3,76,72,210	97,13,984
9.	परिपक्व बांड लेकिन अदावाकृत (नोट बी-5 अनुसूची 18 देखें)	185,87,76,000	26,33,30,000
10.	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		
	(क) अशोष्य एवं संदिग्ध ऋण	200,00,00,000	148,63,57,260
	(ख) निवेशकों की मासियत में मूल्यह्रास	65,00,000	0
11.	आय कर के लिए प्रावधान (अदा किए गए कर को छोड़कर)	34,93,67,151	-36,00,00,000
	जोड़	1641,01,22,536	968,07,57,495

अनुसूची 10

(रुपए)

क्रम सं.	रोकड़ और बैंक शेघ	31.03.2004 को शेघ	31.03.2003 को शेघ
1.	हाथ में रोकड़ शेघ	54,845	64,862
2.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा शेघ	602,35,64,053	215,08,48,016
3.	भारत में अन्य बैंकों में शेघ		
	क) आर. खाते में	317,23,52,026	107,25,15,095
	ख) जमा खाते में	1720,00,00,600	1416,00,00,000
4.	गारंस्ड प्रेषण	260,26,69,637	46,65,39,400
	जोड़	2899,96,40,761	1784,99,67,373

अनुसूची 11

(रुपए)

क्रम सं.	निवेश (लागत के अनुसार)	31.03.2004 को रोप	31.03.2003 को रोप
1.	केन्द्र सरकार की प्रतिपूर्ति * अंकित मूल्य रु. 20,47,32,60,000 (पिछले वर्ष रु. 12,26,00,10,000) बाजार मूल्य रु. 25,97,67,02,734 (पिछले वर्ष रु. 14,27,55,19,408) (नोट बी-7 (ख) अनुसूची 18 देखें)	2270,86,60,56	1248,39,11,020
2.	एडीएफसी - इक्विटी अंकित मूल्य रु. 15,60,00,000 (पिछले वर्ष रु. 15,60,00,000) (नोट बी-7 (क) अनुसूची 18 देखें)	15,60,00,000	15,60,00,000
3.	एएफसी - इक्विटी अंकित मूल्य रु. 1,00,00,000 (पिछले वर्ष रु. 1,00,00,000)	1,00,00,000	1,00,00,000
4.	एसआईडीबीआई - इक्विटी अंकित मूल्य रु. 10,00,00,000 (पिछले वर्ष रु. 10,00,00,000)	30,00,00,000	30,00,00,000
5.	एआईसीआई लि. अंकित मूल्य रु. 60,00,00,000 (पिछले वर्ष रु. 60,00,00,000)	60,00,00,000	60,00,00,000
6.	नाबकान्स प्रा. लि. अंकित मूल्य रु. 5,00,00,000	5,00,00,000	0
7.	एनसीडीईएक्स लि. अंकित मूल्य रु. 4,38,90,000	4,38,90,000	0
8.	म्यूचुअल फंड अंकित मूल्य रु. 23,74,03,330	25,01,96,996	0
जोड़		2411,87,47,561	1354,99,11,020
* 31.03.2004 को रोप में सीसीआईएल में रेशन रु. 10 करोड़ की प्रतिपूर्ति (बुक वैल्यू रु. 13,02,52,050/-) शामिल है			

अनुसूची 12

(रुपए)

क्रम सं.	अग्रिम	31.03.2004 को रोप	31.03.2003 को रोप
1.	पुनर्वित्त ऋण:		
i.	उत्पादन और विपणन ऋण	5597,96,03,835	6053,20,48,440
ii.	उत्पादन ऋण हेतु परिवर्तन ऋण	633,42,87,054	370,17,83,187
iii.	मध्यावधि निवेश ऋण - गैर परियोजना ऋण	5,21,63,760	9,40,90,320
iv.	अन्य निवेश ऋण:		
क)	मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण (नोट बी-9 अनुसूची 18 देखें)	26075,69,04,921	25400,85,84,282
ख)	दीर्घावधि गैर परियोजना ऋण	459,65,31,994	441,44,55,702
घ)	अंतरिम वित्त	3,46,98,400	14,54,90,600
2.	सीधे ऋण:		
i.	ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत ऋण	14003,59,38,359	13061,89,29,063
ii.	अन्य ऋण	10,61,62,181	9,87,08,622
iii.	सह-वित्तपोषण ऋण	63,53,744	0
जोड़		48790,26,44,248	45361,40,90,216

अनुसूची 13

(रुपए)

क्रम सं.	अवकाश आस्तियों	31.03.2004 को रोच	31.03.2003 को रोच
1.	भूमि : पूर्ण स्वामित्व पर और पट्टे पर (लागत के अनुसार) (नोट बी-10 और 10(क) अनुसूची 18 देखें)		
	गत लेखानुसार	117,98,98,101	108,13,82,238
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	-29,64,961	9,85,15,863
		117,69,33,140	117,98,98,101
	घटाएं : लीज प्रिमिया का परिशोधन	19,72,81,744	18,75,19,999
		97,96,51,396	101,23,78,102
2.	परिसर : (लागत पर) (नोट बी-10 और 10(1) अनुसूची 18 देखें)		
	गत लेखानुसार	192,76,13,953	190,40,86,169
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	22,71,41,432	2,35,25,764
		215,47,55,385	192,76,13,953
	घटाएं : तिथ्यानुसार मूल्यहास	86,90,94,489	75,12,40,799
		128,56,60,896	117,63,73,154
3.	फर्नीचर और जुड़नार (लागत पर)		
	गत लेखानुसार	47,79,92,423	48,75,89,329
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	3,06,75,659	1,49,44,002
		50,88,68,082	48,25,33,331
	घटाएं : बिक्री हुई/पट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	50,78,113	45,40,908
		50,35,89,989	47,79,92,423
	घटाएं : तिथ्यानुसार मूल्यहास	41,58,40,234	34,84,18,395
		8,77,49,735	12,95,74,028
4.	कम्प्यूटर संस्थापनाएं और कार्यालय उपस्कर (लागत पर)		
	गत लेखानुसार	50,05,38,046	44,89,61,030
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	5,45,70,956	6,24,60,393
		55,51,09,002	50,94,41,423
	घटाएं : बिक्री हुई/पट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	2,31,65,961	89,03,377
		53,19,43,041	50,05,38,048
	घटाएं : तिथ्यानुसार मूल्यहास	44,43,61,151	38,75,62,800
		8,75,81,890	11,29,75,246
5.	वाहन (लागत पर)		
	गत लेखानुसार	2,34,60,085	2,29,65,420
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	62,58,474	10,65,740
		2,97,18,559	2,40,31,160
	घटाएं : बिक्री हुई/पट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	34,86,880	5,71,075
		2,62,31,679	2,34,60,085
	घटाएं : तिथ्यानुसार मूल्यहास	1,87,25,238	1,69,45,097
		75,06,441	65,14,988
	जोड़	244,81,50,358	243,78,15,518

अनुसूची 14

(रुपए)

क्रम सं.	अन्य आशियाई	31.03.2004 को शेष	31.03.2003 को शेष
1.	उपक्षित व्याज	1141,35,01,335	1016,78,27,201
2.	भूस्वामियों के पास जमाराशियाँ	1,03,16,776	95,06,950
3.	सरकारी विभागों और अन्य संस्थानों में जमाराशियाँ	2,02,28,909	1,98,47,457
4.	स्टाफ को आवास एवं अन्य भूखण	135,76,07,276	130,80,40,153
5.	भूस्वामियों को अग्रिम	15,63,374	0
6.	स्टाफ क्वार्टरों और कार्यालय परिसरों के निर्माण/खरीद हेतु अग्रिम	15,86,06,497	27,43,23,897
7.	फुटकर अग्रिम	25,48,46,489	28,68,90,919
8.	आवृत्ति कर परिसंपत्ति (नोट बी - 8 अनुसूची 18 देखें)	153,40,00,000	117,00,00,000
		1475,06,71,656	1323,64,36,577
9.	मार्गस्थ चेक (आवकर रिफ़न्ड)	64,97,36,338	0
10.	भारत सरकार/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वसूली योग्य व्यय	1,74,62,160	2,06,99,367
	जोड़	1541,78,70,154	1325,71,35,944

अनुसूची 15

(रुपए)

क्रम सं.	अदा किया गया व्याज और वित्तीय प्रभार	31.03.2004 को शेष	31.03.2003 को शेष
1.	निम्न वर्गों पर अदा किया गया व्याज		
i.	केन्द्र सरकार से भूखण	41,43,69,694	56,48,62,805
ii.	भारतीय रिज़र्व बैंक से लिए गए उधार	148,30,61,664	317,86,56,188
iii.	बांड	802,84,71,234	644,47,47,491
iv.	केन्द्र और राज्य सरकार से विशेष भूखण जमाराशियाँ	33,75,945	35,61,802
v.	साथ कंपनियों की जमाराशियाँ	4,35,41,792	8,84,07,205
vi.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की कमी के अंतर्गत जमाराशियाँ	0	0
vii.	ट्रेजरी और विकास निधि	8,88,22,753	9,66,85,005
viii.	अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से लिए गए उधार	18,27,93,792	18,27,93,788
ix.	ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत जमाराशियाँ	1278,91,78,324	1088,69,71,039
x.	ग्रामीण संवर्धन कॉरपस निधि	3,73,41,784	3,86,29,417
xi.	भूखण और वित्तीय सेवाएं निधि	3,87,82,342	3,49,30,154
xii.	असफल कुआँ योजना	0	21,950
xiii.	केएफडब्ल्यू-नाबार्ड-IX आदिवासी विकास कार्यक्रम	5,03,662	3,04,405
xiv.	वाटरशेड विकास निधि	15,57,27,301	13,85,77,781
xv.	सी ई सी - बी ए आई एफ परियोजना निधि	69,112	41,783
xvi.	इंडो-जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम (आंध्र प्रदेश)	97,360	7,14,872
xvii.	केएफडब्ल्यू-नाबार्ड-V आदिवासी विकास कार्यक्रम	0	7,33,810
xviii.	नाबार्ड - V आदिवासी विशेष विकास कार्यक्रम - गुजरात	10,29,378	0
xix.	वाटरशेड विकास के लिए केएफडब्ल्यू निधि	9,77,969	0
xx.	भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से कारपोरेट उधार	36,71,89,042	0
2.	स्वायं प्रभार	2,07,79,170	0
3.	बांड पर बट्टा, दलाली, कमीशन और जारी करने संबंधी व्यय	3,98,78,222	3,92,99,341
	जोड़	2369,59,90,720	2170,88,58,846

अनुसूची 16

(रुपए)

क्रम सं.	स्वायत्त तथा अन्य व्यय	31.03.2004 को शेष	31.03.2003 को शेष
1.	वेतन तथा भत्ते	148,70,86,060	139,76,27,900
2.	स्टाक अधिधारिता निधि में अंशदान (नोट बी-4 अनुसूची 18 देखें)	113,62,36,966	44,60,01,968
3.	निदेशकों और समिति सदस्यों की बैठकों से संबंधित यात्रा तथा अन्य भत्ते	20,29,021	11,68,781
4.	निदेशकों और समिति सदस्यों का शुल्क	23,500	30,000
5.	किराया, रेंट, बीमा, बिजली आदि	16,20,65,559	15,84,08,005
6.	यात्रा व्यय	14,68,47,326	13,54,89,151
7.	मुद्रण और लेखन सामग्री	2,32,41,261	2,28,18,745
8.	ड्राक, तार और टेलीफोन	3,98,50,063	4,30,60,004
9.	प्रारम्भिक कार्य	3,09,10,233	3,66,93,575
10.	लेखा परीक्षा फीस	8,19,580	3,02,400
11.	विधि प्रचार	30,22,165	12,21,927
12.	विविध व्यय	24,45,95,427	25,39,09,875
13.	अध्ययन और प्रशिक्षण पर व्यय (नोट बी-11 अनुसूची 18 देखें)	16,61,52,300	17,07,79,029
14.	निम्नलिखित के अंतर्गत विद्यमान गतिविधियों पर व्यय		
	(i) सहकारिता विकास निधि	4,75,95,442	8,01,73,999
	(ii) सूक्ष्मकृषि विकास निधि	3,13,15,379	1,58,79,663
	(iii) बंट (शेड) विकास निधि	2,55,04,226	2,28,16,952
15.	सम्पत्ति कर	9,88,107	10,75,668
जोड़		354,81,32,615	276,74,55,642

अनुसूची 17

(रुपए)

क्रम सं.	उत्तिबद्धताएं एवं आकस्मिक हेफताएं	31.03.2004 को शेष	31.03.2003 को शेष
1.	निष्पक्षित किए जाने के लिए शेष संविदाओं के लिए प्रतिबद्धता	12,44,18,800	11,98,52,216
2.	आकस्मिक हेफताएं		
	परिसरों के निर्माण हेतु अतिरिक्त भुगतान के विवादग्रस्त दावे	65,48,45,000	65,87,61,697

अनुसूची - 18

अ. महत्वपूर्ण लेखनीतियाँ

1. सामान्य

1.1 लागत निर्धारण के परम्परागत तरीकों के अनुसार लेखे तैयार किए गए हैं।

2. आय और व्यय

2.1 आधार पर लेखाबद्ध निम्नलिखित को छोड़कर आय और व्यय को उभयव्य आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

(i) अनुत्पादक आस्तियों पर ब्याज और 180 दिनों से अधिक समय से बकाया सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों के मामले में ब्याज की पहचान भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार की गई है।

(ii) ऋण देयताओं की प्राप्ति में विलंब अथवा ऋण की शर्तों का अनुपालन न करने पर प्रभारित दंडात्मक ब्याज के रूप में आय।

(iii) ग्रामीण संवर्धन समूह निधि (आरपीसीएफ), ऋण और वित्तीय सेवा निधि (सीएफएसएफ), कृषि और ग्रामीण उद्यम उद्भवन निधि (एआरआईईएफ) तथा केएफडब्ल्यू-नाबार्ड V आदिवासी कार्यक्रम निधि से दिए गए ऋणों पर सेवा-प्रभार।

(iv) व्यय के एकल शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक स्थान पर खर्च की राशि रु.10,000 से अधिक नहीं है।

2.2 बॉण्ड जारी करने से संबंधित निर्गम व्यय को बॉण्ड जारी करने के वर्ष के खर्च के रूप में समझा गया है।

2.3 रिफंड ऑर्डर के निर्गम की तारीख के आधार पर आय कर रिफंड पर ब्याज माना गया है।

3. स्थिर परिसम्पत्तियाँ और मूल्य ह्रास

3.1 स्थिर परिसम्पत्तियों को लागत के आधार पर बताया गया है।

3.2 भूमि में पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टाकृत भूमि शामिल हैं।

3.3 परिसर में उस भूमि का मूल्य शामिल है जहाँ अलग-अलग मूल्य काकाल उपलब्ध नहीं है।

3.4 तुलनपत्र की तारीख को धारित सभी स्थिर आस्तियों पर संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए मूल्य ह्रास प्रभारित किया गया है भले ही खरीद की तारीख और उसके उपयोग की अवधि कुछ भी क्यों न हो।

3.5 कंप्यूटरों, मोटर वाहनों, कार्यालय उपकरणों, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आदि पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मूल्य ह्रास प्रभारित

किया गया है। 31 मार्च 1999 को या उससे पहले प्राप्त परिसम्पत्तियों के मामले में 31 मार्च 1999 को उनके मूल्य ह्रास के बाद के मूल्य को, सीधी रेखा पद्धति के अंतर्गत मूल्य ह्रास दरों को लागू करने के लिए, उनकी मूल लागत माना गया है।

3.6 पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर स्थित परिसरों पर मूल्य ह्रास को मूल्य-ह्रासित विधि के आधार पर प्रभारित किया गया है।

3.7 पट्टाकृत भूमि पर भुगतान किये गये लीज प्रीमियम का परिशोधन और पट्टाकृत भूमि पर स्थित परिसरों के सम्बन्ध में मूल्यह्रास की गणना मूल्य ह्रासित पद्धति के अनुसार 5% की अधिक दर पर करके प्रभारित किया गया अथवा सीधी रेखा पद्धति के आधार पर भूमि की शेष लीज अवधि के प्रीमियम/लागत आधिक्य के परिशोधन से ज्ञात राशि के अनुसार किया गया।

4. निवेश

4.1 भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार निवेश संविभाग वर्गों को आगे तीन श्रेणियों, अर्थात् 'परिपक्वता के लिए धारित', 'विक्री के लिए उपलब्ध' और 'व्यापार के लिए धारित', में वर्गीकृत किया गया है। 'परिपक्वता के लिए धारित' श्रेणी के अन्तर्गत निवेश, कुल निवेश के 25% से अधिक नहीं होते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत निवेश के अंकित मूल्य से अधिक नहीं होने की स्थिति में उन्हें अधिग्रहण-लागत पर लगाया जाता है, ऐसे मामले में अंकित मूल्य पर प्रीमियम, यदि कोई हो, तो उसे परिपक्वता तक की शेष बची अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है। विक्री के लिए उपलब्ध और 'व्यापार के लिए धारित' के अंतर्गत निवेशों को निर्धारित अंतराल पर मार्केट पर मार्क किया जाता है। विक्री के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत प्रत्येक श्रेणी में निवेशों के लिए केवल निवल मूल्य ह्रास, यदि कोई हो, दिया गया है, जबकि 'व्यापार के लिए धारित' के रूप में वर्गीकृत निवेशों को प्रत्येक श्रेणी में मूल्य ह्रास या मूल्य वृद्धि को मान्य समझा गया है।

4.2 निवेशों को लागत के आधार पर दिखाया जाता है और यदि उनके मूल्य में कोई ह्रास/घटाव हो तो उसके लिए किए गए प्रावधान को चालू देयताओं और प्रावधानों में शामिल किया जाता है।

5. ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान

5.1 अग्रिमों को मानक, अव-मानक, संदिग्ध और हानि वाली परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान किया गया है। इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों और राज्य सरकारों को दिए गए अग्रिमों को मानक परिसम्पत्तियाँ माना गया है। विवेकसम्मत आधार पर मानक परिसम्पत्तियों की कुछ श्रेणियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों से अधिक के अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं।

6. विदेशी मुद्रा लोन-देन

6.1 तुलन पत्र की तारीख को कारोबार बंद होने के समय की विनिमय दर के आधार पर विदेशी मुद्रा ऋणों की राशि बताई गई है जबकि जोखिम सुरक्षा करार द्वारा समर्थित विदेशी मुद्रा के उधारों को संविदा कीमत पर लिया गया है।

6.2 'विदेशी मुद्रा जोखिम निधि' की स्थापना बैंक के लाभ में से की गई है ताकि "ब्याज विभेदक निधि-विदेशी मुद्रा जोखिम" में उपलब्ध शेष से अधिक की विदेशी मुद्रा की किसी हानि की उससे भरपाई की जा सके।

7. कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान

7.1 बैंक की भविष्य निधि योजना का प्रबंध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अंशदान का प्रावधान कर उसका भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक को किया जाता है।

7.2 ग्रैच्युटी निधि, बैंक के परिचालनों का एक अभिन्न अंग है और निधि में जमा वार्षिक शेष पर ब्याज का प्रावधान किया जाता है। चालू देयताओं और प्रावधानों में निधि के शेष को दर्शाया गया है।

7.3 उक्त पैरा 7.2, में उल्लिखित ग्रैच्युटी निधि से संबंधित ब्याज के प्रावधान पर विचार करने के बाद बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर यथानिर्धारित देयता के अनुरूप ग्रैच्युटी का प्रावधान किया जाता है लेकिन रिजर्व बैंक से स्थानांतरित होकर आए कर्मचारियों से संबंधित जो राशि रिजर्व बैंक द्वारा वहन की जानी है, उसकी कटौती नहीं की जाती। तथापि देय ग्रैच्युटी के लिए जैसे-जैसे रिजर्व बैंक से राशि प्राप्त होती है, वैसे-वैसे उसे हिसाब में लिया जाता है।

7.4 बैंक के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू है। पेंशन का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों से संबंधित, बैंक की ओर से भविष्य निधि अंशदान की राशि (जो अब पेंशन निधि का अंश है) का प्रबंध रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। पेंशन के लिए प्रावधान रिजर्व बैंक में उपर्युक्त बकाया को हिसाब में लेने के बाद बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

7.5 साधारण अवकाश के नवदीकरण के लिए प्रावधान बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

8. कर-व्यय, आस्थगित कर-आस्तियों और आस्थगित कर-देयताओं की पहचान

8.1 संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करने के बारे में धारा 36(1)(vii) और दीर्घावधि वित्तपोषण के कारोबार से होने वाले लाभ के लिए धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौतियों सहित कर विधियों के अंतर्गत मिलने वाली सभी कटौतियों और छूटों को हिसाब में लेने के बाद आयकर खर्चों की गणना की जाती है। चालू कर के लिए प्रावधान कर योग्य आय पर कर की प्रयोज्य दरों के आधार पर किया जाता है। लेखा वर्ष की समाप्ति तक

हुए सभी प्रकार के समयांतरों और जि-आगे की लेखा अवधियों में प्रत्यावर्तित होने की आशा है, के लिए आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं की गणना की जाती है। इनकी गणना कर की दरों और पारित कानूनों अथवा बाद में तुलन पत्र की तारीख तक पारित किए जाने वाले कानूनों के आधार पर की जाती है।

आ. लेखा के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

1. तावा कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना करार के अनुसार राष्ट्रीय बैंक को दिए गए ऋणों पर भारत सरकार द्वारा 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रभारित किया जाता है, जिसमें से 4.5 प्रतिशत 'विभेदक ब्याज निधि' में लेखाबद्ध किया गया है, जिसका उपयोग कुछ विशेष प्रयोजनों के लिए किया गया है और शेष 2 प्रतिशत का भुगतान भारत सरकार को किया गया है।

2. सीएफएसएफ, आरपीसीएफ, बाटरशेड विकास के लिए केएफडब्ल्यू निधि, सीईसी-बायफ परियोजना के अंतर्गत निधियों, केएफडब्ल्यू नाबार्ड आईजीडब्ल्यूडीपी-आंध्र प्रदेश, नाबार्ड V आदिवासी विशेष विकास कार्यक्रम (गुजरात) और केएफडब्ल्यू नाबार्ड IX आदिवासी विकास कार्यक्रम की अप्रयुक्त शेष राशियों पर वर्ष 2003-04 के लिए 6.00 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज को संबंधित निधियों में जमा किया गया है।

3. कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990, के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिये जाने वाले अनुदान और राज्य सहकारी बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंकों के लिए ऋण/अनुदानों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त होने वाली निधियों के संवितरण के लिए बैंक एक चैनल के रूप पर काम कर रहा था।

4. 31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी पेंशन निधि की शेष राशि के विवरणों के अभाव में (महत्वपूर्ण लेखा नीति पैरा 7.4 देखें), धनराशि की अनुमानित आधार पर गणना करते हुए ऐसी आकलित राशि को ध्यान में रखते हुए पेंशन के लिए प्रावधान किया गया है।

5 (क) बैंक द्वारा जारी बाँडों का प्रबंध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, उनके संग्रहण और शोधन का लेखांकन भारतीय रिजर्व से 30 सितंबर 2003 तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किया गया है।

(ख) 01 अक्टूबर 2003 से, भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त बाँडों के मोचन और ब्याज अदायगी के प्रयोजन से संबंधित चालू चाते को फ्रीज कर दिया है। इसके पश्चात इन बाँडों की सर्विसिंग का कार्य नाबार्ड ने अपने हाथ में ले लिया। "बाँड्स परिपक्व हो गया किंतु दावा नहीं किया गया" के कारण देय बकाया शेष तथा दावा नहीं किए गए ब्याज को 01 अक्टूबर 2003 से आगे नाबार्ड द्वारा किए गए भुगतानों के बिना दिखाया गया है।

6 (क) वर्ष के दौरान, केएफडब्ल्यू, जर्मनी से 58.80 मिलियन यूरो के उधार और उसके ब्याज को प्रति यूरो रु.50.505 और रु.50.55 के बीच की दर से 10 वर्षों की अवधि के लिए करेंसी एसडब्ल्यूएपी (स्वैप) करार में शामिल कर सुरक्षित कर लिया गया है। फलतः केएफडब्ल्यू की उधारी से संबंधित देयता को सिर्फ संविदा मूल्य के रूप में दर्शाया गया है। वायदा दर और विनिमय दर के बीच के जिस अंतर पर बही में धारियों का मूल्यांकन किया गया था उसकी राशि रु.15.33 करोड़ थी और उसे ब्याज विभेदक निधि (विदेशी मुद्रा जोखिम) में जमा किया गया है क्योंकि पूर्व के वर्षों में उक्त ऋण के पुनर्मूल्यांकन के कारण विनिमय हानि को संबंधित लेख में डेबिट किया गया है।

(ख) जोखिम सुरक्षा संविदा को "तुलनपत्र से पृथक" मद के रूप में बताया गया है और वह राशि स्वैप करार की संविदा मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। वर्ष के अंत में विनिमय दर पर मूल बकाया देयता की राशि रु.312.51 करोड़ है।

7. संद्री क्रेडिटर्स में सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुद्धार की योजना के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त रु.100 करोड़ की राशि शामिल है। भारत सरकार से योजना के आवश्यक ब्याज / परिचालनगत प्रक्रिया प्राप्त होने तक इस राशि को संद्री क्रेडिटर्स - भारत सरकार से प्रेषण में रखा गया है।

(क) आईसीएआई के लेखा मानक 13 और विवेक के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कृषि विकास वित्त कंपनियों के शेयरों में निवेश को "परिपक्वता हेतु धारित" की श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और निवेशकर्ताओं के शेयरों के ब्रेक-अप मूल्य के आधार पर रु.65 लाख के मूल्यहास का प्रावधान किया गया है।

(ख) श्रेणी-वार तरीके से मूल्य में मूल्यहास की पहचान करने के लिए वर्ष की समाप्ति पर एएफएस निवेश के मूल्य को मार्केट के लिए चिह्नित कर दिया गया है। दूसरी ओर, व्यापार के लिए रखे गए निवेश में मूल्यहास अथवा उसके मूल्य में वृद्धि को मासिक आधार पर बही में दर्ज किया गया है।

8. आयकर के लिए प्रावधान

कर आस्तियों और देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

9. विभिन्न राज्य भूमि विकास बैंकों/भूमि बंधक बैंकों द्वारा जारी किए गए डिबेंचरों में अभिदान के रूप में बैंक ने भुगतान किए और इन्हें "अग्रिम-अन्य-निवेश-ऋण - मध्यावधि - और दीर्घावधि परियोजना ऋण" के अंतर्गत शामिल किया गया है। आबंटन पत्रों / डिबेंचर रसीदों के मूल्य की राशि जो अभी प्राप्त होनी है, वह उक्त तारीख को रु.219.85 करोड़ (रु.711.40 करोड़) है।

10 (क) "भूमि और परिसर" के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर कार्यालय परिसरों और स्टाफ क्वार्टरों के लिए रु.46.96 करोड़ (रु.40.13 करोड़) की कुल राशि का भुगतान शामिल है जिनके संबंध में कतिपय प्रक्रियागत विलंब के कारण अभी तक राष्ट्रीय बैंक के पक्ष में स्वामित्व हस्तांतरण विलेख / अन्य कानूनी दस्तावेज निष्पादित नहीं किए गए हैं।

(ख) रु.24.99 करोड़ (रु.18.37 करोड़) लागत की "भूमि और परिसर" के संबंध में विक्रेताओं के साथ कानूनी विवादों का निपटारा न होने के कारण उनका स्वामित्व हस्तांतरण अभी लंबित है।

11. अध्ययन और प्रशिक्षण व्यय में शामिल रु.2.59 करोड़ (रु.3.165 करोड़) क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, बोलपुर और मंगलूर के स्थापना व्ययों और परिचालन व्ययों से संबंधित हैं जोकि वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हैं।

12. अधिकारियों के निवास की फर्निशिंग के लिए अग्रिम (एफआरएसओ) पर वर्ष के दौरान वसूल की गई रु.1.686 करोड़ की राशि (जिसमें 31 मार्च 2003 तक वसूल रु.1.426 करोड़ और वर्ष 2003-04 के दौरान वसूल रु.0.26 करोड़ शामिल हैं), को आय के रूप में समझा गया और उसे लाभ और हानि खाते में जमा किया गया है। इसे अब तक संद्री क्रेडिटर्स खाते में जमा किया जाता था और उसे तुलन पत्र में देयता के रूप में दर्शाया जाता था।

(रु.करोड़)

क्रम सं	आस्थगित कर आस्तियों के कारण	01 अप्रैल 2003 की स्थिति	वर्ष के दौरान डेबिट क्रेडिट	31 मार्च 2004 की स्थिति
i	बही में दर्ज सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान किंतु अदायगी के आधार पर कर प्रयोजन के लिए अनुमतियोग्य	85.00	38.46	123.46
ii	स्थिर आस्तियों पर मूल्य-हास	32.00	-2.06	29.94
	योग	117.00	36.40	153.40

12. लाभ-हानि खाते में शामिल की गई पहले की अवधि की मदें निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	विवरण	2003-04	2002-03
1	मूल्य ह्रास	1.87	2.95
2	अन्य प्राप्तियाँ	1.43	0.11
3	अन्य व्यय		0.72

13. 31 मार्च 2004 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9 प्रतिशत के मुकाबले 39.41 प्रतिशत था।

15. तुलन पत्र और लाभ हानि खाते में राशियों को निकटतम पूर्णांकित रुपये में दर्शाया गया है

16. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

17. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र (दिनांक 10 जुलाई 2003 का संसं डीबीएस, एफआईडी. सी-2/01.02.00/2003-04) के अनुसरण में निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना दी गई है :-

I. पूंजी

(क) कैपिटल टू रिस्क - वेटेड एसेट रेशियो (सी आर ए आर)

विवरण	31 मार्च 2003	31 मार्च 2002
सी आर ए आर	39.41	39.05
कोर सी आर ए आर	37.77	37.80
अनुपूरक सी आर ए आर	1.64	1.25

(च) आस्तियों का वर्गीकरण

वर्गीकरण	2003-04		2002-03	
	रु. करोड़	प्रतिशत	रु. करोड़	प्रतिशत
मानक	48,789.46	99.99836	45,359.80	99.9965
उप-मानक	0.78	0.00160	0.85	0.00188
सुदृढ	0.02	0.00004	0.11	0.00024
हानि	0.00	0.00000	0.65	0.00143
जोड़	48790.26	100.00	45361.41	100.00

(छ) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान :

निम्नलिखित के लिए	2003-04	2002-03
मानक आस्तियों	51.36	45.98
अनुत्पादक अग्रिम	0.27*	-0.02
निवेश	0.65	0.00
आयकर	375.00	390.00
जोड़	427.28	435.96

* भुक्त के अग्रिम का खराब रु. 1.26 करोड़ का अनयोए प्रावधान शामिल है।

(ख)

(रु. करोड़)

विवरण	31 मार्च 2004	31 मार्च 2003
ली गई और बकाया सबॉर्डिनेटेड ऋण राशी	शून्य	शून्य

(ग) रिस्क वेटेड एसेट

(रु. करोड़)

विवरण	31 मार्च 2004	31 मार्च 2003
ऑन - बैलेंस शीट मदें	19087.02	16521.72
ऑफ - बैलेंस शीट मदें	77.92	77.86

(घ) तुलन पत्र की तारीख को पूंजी अंशदान की पद्धति

(रु. करोड़)

अभिदाता	31 मार्च 2004	31 मार्च 2003
भारतीय रिजर्व बैंक	1,450	1,450
भारत सरकार	550	550
जोड़	2,000	2,000

II. आस्तियों की गुणवत्ता और ऋण सघनता
(स्टाफ अग्रिमों को छोड़कर)

ड.

विवरण	31 मार्च 2004	31 मार्च 2003
शुद्ध ऋणों और अग्रिमों से शुद्ध अनुत्पादक आस्तियों का प्रतिशत	0.0014%	0.0017%

(ज) अनुत्पादक आस्तियों में परिवर्तन :

(रु. करोड़)

विवरण	2003-04	2002-03
वर्ष के प्रारंभ में अनुत्पादक आस्तियाँ	1.61	0.93
आइ. सी. आई. वर्ष के दौरान वृद्धि	0.01	0.84
आइ. सी. आई.	1.62	1.77
प्रारंभ में वर्ष के दौरान आई. सी. आई. कमी	0.82	0.16
वर्ष की समाप्ति पर अनुत्पादक आस्तियाँ	0.80	1.61

(झ) ऋण एक्सपोजर की पूँजी निधियों से प्रतिशतता और कुल आस्तियों से प्रतिशतता :

क्रम सं	वर्ग	2003-04		2002-03	
		ऋण एक्सपोजर की प्रतिशतता		ऋण एक्सपोजर की प्रतिशतता	
		पूँजी निधियों से	कुल आस्तियों से	पूँजी निधियों से	कुल आस्तियों से
I	सबसे बड़ा एकल ऋणकर्ता	41.60	5.43	52.48	6.59
II	सबसे बड़ा ऋणकर्ता समूह	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
III	दस सबसे बड़े एकल ऋणकर्ता				
	उ.प्र. राज्य भूमि विकास बैंक	41.60	5.43	49.22	6.18
	आंध्रप्रदेश सहकारी बैंक	39.43	5.14	52.48	6.59
	आई. सी. आई. सी. आई. बैंक	26.86	3.50	8.87	1.11
	पंजाब राज्य सहकारी बैंक	25.03	3.26	14.33	1.80
	हरियाणा रा. भू. वि. बैंक	22.33	2.91	25.28	3.18
	पंजाब रा. भू. वि. बैंक	21.58	2.81	24.30	3.05
	आंध्रप्रदेश राज्य सरकार	20.16	2.63	30.04	3.77
	मध्यप्रदेश राज्य सरकार	18.88	2.46	17.41	2.19
	उत्तरप्रदेश राज्य सरकार	18.73	2.44	24.20	3.04
	तमिलनाडु राज्य सरकार	17.93	2.34	19.69	2.47
IV	दस सबसे बड़े ऋणकर्ता समूह	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(अ) कुल ऋण आस्तियों से पाँच सबसे बड़े उद्योग समूहों को ऋण एक्सपोजर की प्रतिशतता - लागू नहीं.

III. तरलता

(i) रुपयों में आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप :

(ii) विदेशी मुद्रा में आस्तियों और देयताओं का स्वरूप :

(रु. करोड़)

मद	1 वर्ष से कम अथवा उसके बराबर	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक 7 वर्ष तक	7 वर्ष से अधिक	जोड़
आस्तियाँ रुपए में	17259.75	15642.84	11200.86	6394.96	5189.55	55687.96
आस्तियाँ विदेशी मुद्रा में	0	0	0	0	0	0
कुल आस्तियाँ	17259.75	15642.84	11200.86	6394.96	5189.55	55687.96
देयताएँ रुपए में	9818.80	9044.94	9328.91	3147.39	24050.91	55390.95
देयताएँ विदेशी मुद्रा में	0.00	2.58	11.62	19.70	263.11	297.01
कुल देयताएँ	9818.80	9047.52	9340.53	3167.09	24314.02	55687.96

* भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए प्रावधान तथा साथ ही निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास के समक्ष प्रावधान, जिन्हें तुलनपत्र में देयताओं के रूप में दर्शाया गया है, को उक्त तालिका में आस्तियों से घटाया गया है.

IV. परिचालन परिणाम :

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2004 की स्थिति	31 मार्च 2003 की स्थिति
1	प्राप्त ब्याज आय का कार्यशील निधियों से प्रतिशत	8.02	8.45
2	गैर-ब्याज आय का कार्यशील निधियों से प्रतिशत	0.11	0.10
3	परिचालन लाभ का कार्यशील निधियों से प्रतिशत	3.61	3.96
4	आस्तियों पर आय (प्रतिशत)	2.78	3.22
5	प्रति कर्मचारी लाभ (रु.करोड़)	0.28	0.29

V. प्रावधानों में परिवर्तन

(क) अनुत्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान

(रु.करोड़)

क्रम सं.	विवरण	2003-04	2002-03
i)	वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	0.86	0.89
जोड़ें	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.01	0.11
घटाएं	बेशी प्रावधानों को बट्टे खाते डालना, वापस लेना	0.77	0.14
ii)	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंत शेष	0.10	0.86

(ख) निवेशों में ह्रास हेतु प्रावधान

(रु.करोड़)

क्रम सं.	विवरण	2003-04
1	वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	शून्य
2	जोड़ें	
i)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.65
ii)	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंत शेष	शून्य
3	उप जोड़ (1+2(i)+2(ii))	0.65
4	घटाएं	
i)	वर्ष के दौरान अपलिखित	शून्य
ii)	निवेश उतार-चढ़ाव, प्रारक्षण खाते को अंतरण, यदि कोई हो	शून्य
5	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष (3-4(i)-4(ii))	0.65

VI. पुनर्गठित लेखे

वर्ष के दौरान किसी भी ऋण का पुनर्गठन नहीं हुआ है।

है, वर्ष के दौरान कोई भी वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप नहीं किया गया।

VII. वायदा दर करार और ब्याज दर स्वैप

जैसा कि दिनांक 07 जुलाई 1999 के भा.रि.बैंक के परिपत्र सं.एमपीडी.बी.सी.187/07.01.279/1999-2000 द्वारा अनुमति दी गई

VIII. ब्याज दर डिरायवेटिक्स

वर्ष के दौरान कोई भी ब्याज दर डिरायवेटिक्स लेन-देन नहीं किया गया।

IX. संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन

(रु. करोड़)

पार्टी का नाम	संबंध की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति	वर्ष के दौरान लेन-देन की राशि	बकाया राशि
भारतीय रिज़र्व बैंक	नाबार्ड की पूंजी में 72.50% स्वामित्व	उधार (चुकोती को छोड़कर) उधार पर ब्याज नाबार्ड द्वारा अनुसूचित राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियों में प्राप्त अंशदान बांडों का रखरखाव शुल्क	(1598.48) 148.31 2.00 0.06	4193.60
भारत सरकार	नाबार्ड की पूंजी में 27.50% स्वामित्व	उधार (चुकोती को छोड़कर) उधार पर ब्याज गारंटी शुल्क	(26.06) 41.58 5.41	565.19 21.01
एडीएफटी, चेन्नै	नियंत्रण - नाबार्ड द्वारा धारित शेयर पूंजी 52.10%	ऋण (चुकोती को छोड़कर) ऋण पर ब्याज	0.00 0.00	0.00 0.00
एबीएफएल, हैदराबाद	नियंत्रण - नाबार्ड द्वारा धारित शेयर पूंजी 47.82%	ऋण (चुकोती को छोड़कर) ऋण पर ब्याज	(0.89) 0.17	1.36 0.02
केएडीएफसी, बंगलूर	नियंत्रण - नाबार्ड द्वारा धारित शेयर पूंजी 82.41%	कोई लेन-देन नहीं	0.00	0.00
नाबार्ड कन्सल्टेन्सी सर्विसेज प्रा.लि.	संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	नाबार्ड द्वारा खर्च की गई राशि	0.57	0.38
श्री योगेश नंदा	प्रमुख प्रबंध कार्यिक - 30 जून 2003 तक अध्यक्ष	अनुलाभों सहित पारिश्रमिक	0.012	
श्रीमती रंजना कुमार	प्रमुख प्रबंध कार्यिक - 21 नवंबर 2003 से अध्यक्ष	अनुलाभों सहित पारिश्रमिक	0.023	
श्री वाई.एस.पी. थोरात	प्रमुख प्रबंध कार्यिक - 17 मार्च 2004 से प्रबंध निदेशक	अनुलाभों सहित पारिश्रमिक	0.002	

X. व्यवसाय खंडों के संबंध में सूचना

क) संक्षिप्त पृष्ठभूमि :

बैंक के मान्यता प्राप्त प्राथमिक व्यवसाय खंड निम्नवत् हैं :

- i) सीधा वित्तपोषण : ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास हेतु राज्य सरकारों को दिया गया ऋण और स्वैच्छिक एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को विकासात्मक गतिविधियों के लिए दिया गया ऋण इस खंड में शामिल है.

- ii) पुनर्वित्त : राज्य सरकारों, वाणिज्य बैंकों, भूमि विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों इत्यादि को उनके द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को वितरित ऋणों हेतु पुनर्वित्त के रूप में प्रदत्त ऋण और अग्रिम.

- iii) ट्रेजरी : कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्ल, अल्पावधि जमाराशियों, सरकारी प्रतिभूतियों इत्यादि के अंतर्गत निधियों का निवेश.

- iv) अनाबंटित : इस खंड में स्टाफ को दिए गए ऋणों और अन्य विविध प्राप्तियों से आय और बैंक की विकासात्मक भूमिका के

लिए किए गए व्यय और सामान्य प्रशासनिक व्ययों को शामिल किया गया है।

भौगोलिक चयनित द्वितीयक व्यवसाय खंड के तहत निम्नलिखित राज्यों में कारोबार भी शामिल है।

- i) दक्षिणी अंचल : कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, मंगलूर.
- ii) पूर्वी अंचल : त्रिपुरा, मिज़ोरम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, बोलपुर, नागालैंड, सिक्किम, असम,

मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय.

- iii) उत्तरी अंचल : मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, बिहार, नई दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय, लखनऊ, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और उत्तरांचल.

- iv) पश्चिमी अंचल : गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और प्रधान कार्यालय, मुंबई.

ख) प्राथमिक व्यवसाय खंड के संबंध में सूचना

(रु. करोड़)

क्रम सं.	खंड	बाहरी ग्राहकों से खंड राजस्व	खंड परिणाम	खंड आस्ति	खंड देयताएं
1	सीधा वित्त	1,510.93	201.95	14,147.46	12,828.18
2	पुनर्वित्त	2,427.75	1,232.90	35,660.19	#20,492.95
3	ट्रेजरी	309.40	306.58	2,487.74	0.00
4	अनाबंदिता	19.19	-281.00	3,593.21	505.92
	जोड़	4,267.27	1,460.43	55,888.60	33,827.05

* जहां बाहरी देनदारियां नहीं हैं, वहां राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घवधि परिचालन) और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधियों का शेष भी सम्मिलित है।

ग) द्वितीयक व्यवसाय खंड के संबंध में सूचना

(रु. करोड़)

क्रम सं.	भौगोलिक खंड	बाहरी ग्राहकों से प्राप्त खंड राजस्व	खंड आस्तियां
1	पूर्वी अंचल	440.35	5,606.69
2	उत्तरी अंचल	1,739.75	23,031.99
3	दक्षिणी अंचल	1,241.08	15,552.60
4	पश्चिमी अंचल	846.09	11,697.32
	जोड़	4,267.27	55,888.60

18. जहां भी आवश्यकता हुई है, वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत और पुनः व्यवस्थित किया गया है।

कृते गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

पी.एस.एस.आर. सर्मा
मुख्य महाप्रबंधक
वित्त और लेखा विभाग
नई दिल्ली, 12 जून 2004

अशोक गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं. 17244
नई दिल्ली, 12 जून 2004

रंजना कुमार
अध्यक्ष

वाई.एस.पी. थोरात
प्रबंध निदेशक

एन.एस.सिसोदिया
निदेशक

के.जे.उदेशी
निदेशक

नई दिल्ली, 12 जून 2004

जी एस मेनन
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एवं इसकी सहायक संस्थाओं का समेकित सुलभ-पत्र और नकदी प्रवाह

अ. लेखा-परीक्षणों का प्रमाण पत्र

हमने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के संलग्न नकदी प्रवाह विवरण की लेखा-परीक्षा की है जो 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के लेखा-परीक्षित विवरणों से सम्बन्धित व उनके आधार पर है। हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास और हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं और स्वकीकरणों के अनुसार इसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ सुवीचक करार के खंड 81 के अनुसार तैयार किया गया है।

नई दिल्ली, 12 जून 2004

कुल्लु गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
समिती लेखाकार

अशोक गुप्ता
(साक्षीकार)
सबस्क्रिप्ता सं: 17244

आ. लेखा-परीक्षणों का प्रमाण पत्र

हम रिपोर्ट देते हैं कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा तैयार किए गए सम्बन्धित वित्तीय विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक (ए एस 21), सम्बन्धित वित्तीय विवरण, की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और राष्ट्रीय बैंक, नाबार्ड कंसल्टेन्सी सर्विसेस प्रा. लि., एग्री बिजनेस काउन्सिल (ए बी) लि., कर्माडक एग्री डेवलपमेंट काउन्सिल कंपनी लि. के अलग-अलग लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों और एग्री डेवलपमेंट काउन्सिल (तमिलनाडु) लि. के गैर-लेखा-परीक्षित विवरणों को सम्बन्धित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

हमें दी गई सूचना और स्वकीकरण और राष्ट्रीय बैंक और इसकी तीन सहायकी संस्थाओं के अलग-अलग लेखा-परीक्षित विवरणों और इसकी एक सहायक संस्था के गैर-लेखा-परीक्षित विवरणों पर विचार करने के बाद हमारी राय है कि :

- क. सम्बन्धित सुलभ पत्र राष्ट्रीय बैंक और इसकी सहायक संस्थाओं के सम्बन्धित कार्यों की 31 मार्च 2004 को सत्य और निष्पक्ष स्थिति प्रदर्शित करता है।
- ख. सम्बन्धित लाभ-हानि लेखा राष्ट्रीय बैंक और इसकी चार सहायक संस्थाओं के 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के कार्यों के सम्बन्धित परिणामों की सत्य और निष्पक्ष स्थिति प्रदर्शित करता है।

नई दिल्ली, 12 जून 2004

कुल्लु गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
समिती लेखाकार

अशोक गुप्ता
(साक्षीकार)
सबस्क्रिप्ता सं: 17244

इ. लेखा-परीक्षणों का प्रमाण पत्र

हमने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के संलग्न नकदी प्रवाह विवरण की लेखा-परीक्षा की है जिसे राष्ट्रीय बैंक, नाबार्ड कंसल्टेन्सी सर्विसेस प्रा. लि., एग्री बिजनेस काउन्सिल (ए बी) लि., कर्माडक एग्री डेवलपमेंट काउन्सिल कंपनी लि. के अलग-अलग लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों और एग्री डेवलपमेंट काउन्सिल (तमिलनाडु) लि. के गैर-लेखा-परीक्षित विवरणों के आधार पर सम्बन्धित किया गया है। हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास और हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं और स्वकीकरणों के अनुसार इससे सत्य और निष्पक्ष स्थिति का पता चलता है।

नई दिल्ली, 12 जून 2004

कुल्लु गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
समिती लेखाकार

अशोक गुप्ता
(साक्षीकार)
सबस्क्रिप्ता सं: 17244

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
समेकित वार्षिक पत्र - 31 मार्च 2004 की स्थिति

वैयक्तिक	रुपये
पूंजी	2000,00,00,000
प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियां	5292,51,52,370
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (बीर्यावधि परिचालन) निधि	13070,00,00,000
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (विपरीतकरण) निधि	1500,00,00,000
अंतरराष्ट्रीय ऋणियों से प्राप्त अनुदानों से सृजित निधियां	184,59,22,255
उपहार, अनुदान और दान	103,54,80,565
अन्य निधियां	510,55,87,247
माइनोरिटी ब्याज	11,90,26,649
अमादाशियां	12151,00,42,530
बांड और डिबेंचर	11883,32,21,000
उधार	7553,88,11,482
घातु देयताएं और प्रावधान	1646,32,50,354
कुल देयताएं	55907,43,74,432

आस्तियां	रुपये
रोकड़ और बैंक शेष	2918,91,10,319
निवेश (लागत पर)	2391,27,47,581
अग्रिम	48807,87,43,285
अचल आस्तियां	244,91,17,888
अन्य आस्तियां	1544,20,51,846
विविध खर्च जिसे बढ़ते खाले में नहीं छासा गया	26,03,753
कुल आस्तियां	55907,43,74,432

संलग्न इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कुमारी गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
समवेत लेखाकार

पी.एस.एस.आर. शर्मा
मुख्य महाप्रबंधक
वित्त और लेखा विभाग
नई दिल्ली, 12 जून 2004

अशोक गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं. 17244
नई दिल्ली, 12 जून 2004

रंजना कुमार
अध्यक्ष
नई दिल्ली, 12 जून 2004

वाई.एस.पी. धीराज
प्रबंध निदेशक

एम.एस.सिसोदिया
निदेशक

के.जे.उदेसी
निदेशक

जी.एस.एम.
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

(रुपए)

विवरण	31 मार्च 2004
आय :	
ऋण और अग्रिम पर प्राप्त ब्याज	3939,22,56,149
निवेश परिचालनों से आय	309,84,22,480
अन्य प्राप्तियां	20,29,80,127
कुल आय	4269,36,58,756
व्यय :	
ब्याज और वित्तीय प्रभार	2369,99,23,941
स्थापना और अन्य व्यय	355,74,58,952
मूल्यह्रास	30,17,50,099
अशोध्य और संचिन्ध ऋणों के लिए प्रावधान	53,29,16,129
निवेश में मूल्यसत	65,00,000
बट्टे खाते डाले गए प्राथमिक खर्च	3,98,418
कुल व्यय	2809,86,05,439
आयकर निर्धारण पूर्व लाभ	1459,49,53,289
आयकर के लिए प्रावधान	375,18,21,328
आस्थगित कर आस्ति समायोजन	36,70,15,118
आयकर चक्रवात् लाभ	1121,02,47,074
हानि में सहायक संस्थाओं की हिस्सा जो कि माइनोंरिटी इंटररेस्ट में आरोप्य है	(49,51,117)
विनिर्धोजन हेतु उपलब्ध लाभ	1121,51,98,191

विनिर्धोजन :

(रुपए)

उपयुक्तानुसार विनिर्धोजन के लिए उपलब्ध लाभ	1121,51,98,191
जोड़े : लाभ और हानि खाते में नामे किए गए व्यय के समस्त विभिन्न निधियों से आहरण	17,14,60,678
विनिर्धोजन हेतु उपलब्ध कुल लाभ	1138,66,59,088
निम्नलिखित में अंतरित किया गया :	
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 38(1)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां	800,00,00,000
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (बीर्याधि परिचालन) निधि	124,00,00,000
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	25,00,00,000
सहकारिता विकास निधि	4,75,95,441
अनुसंधान और विकास निधि	8,70,45,830
सूक्ष्म वित्त विकास निधि	7,05,11,537
विदेशी मुद्रा जोखिम निधि	13,82,29,803
आदिवासी विकास निधि	80,88,00,000
निवेश में उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	9,87,71,000
प्रारक्षित निधि	297,65,05,858
विनिर्धोजन हेतु उपलब्ध कुल लाभ	1138,66,59,088

समेकित लेखों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियां

- समेकन स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करार के अनुसार किया गया है।
- एग्री डेवलपमेंट फायर्नस (तमिलनाडु) लि. नामक सहायक संस्था के वित्तीय विवरण, गैर-लेखा परीक्षित हैं।
- सहायक संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है :

सहायक संस्था का नाम	निगमन का देश	स्वाभित्त में हिस्सेदारी
एग्री डेवलपमेंट फायर्नस (तमिलनाडु) लि.	भारत	52.10
एग्री बिजनेस फायर्नस (ए पी) लि.	भारत	47.82
कर्नाटक एग्री डेवलपमेंट फायर्नस कंपनी लि.	भारत	82.40
नाबाई कंसल्टेन्सी प्रा.लि.	भारत	100.00

4. एग्री डेवलपमेंट फायर्नस (तमिलनाडु) लि. और एग्री बिजनेस फायर्नस (ए पी) लि. ने स्थाई आस्तियों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची xiv में निर्धारित दरों पर रिटर्न डाउन वेल्थ (डबल्यू डी वी) प्रणाली के अनुसार मूल्य ह्रास का प्रावधान किया है। जबकि कर्नाटक एग्री डेवलपमेंट फायर्नस लि. ने स्थाई आस्तियों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची xiv में निर्धारित दरों पर सीधी मूल्य ह्रास प्रणाली के अनुसार आनुपातिक आधार पर मूल्य ह्रास का प्रावधान किया है। इस प्रकार राष्ट्रीय बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयार करने में मूल्य ह्रास हेतु अपनाई गई लेखाबंदी नीति इसकी सहायक संस्थाओं द्वारा मूल्य ह्रास के लिए अपनाई गई लेखाबंदी नीति से भिन्न है। अतः समेकित वित्तीय विवरण में शामिल कुल रु.30.17 करोड़ के मूल्य ह्रास में से उस राशि की 0.08% राशि का निर्धारण कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची xiv में निर्धारित दरों पर डबल्यू डी वी / सीधी मूल्य ह्रास प्रणाली की अपनाने से आनेवाले मूल्य ह्रास के आधार पर किया गया है।

संलग्न इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृष्ण गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
समदी लेखाकार

पी.एस.एस.आर. सर्मा
मुख्य महाप्रबंधक
वित्त और लेखा विभाग
नई दिल्ली, 12 जून 2004


अशोक गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं. 17244
नई दिल्ली, 12 जून 2004

रंजना कुमार
अध्यक्ष
नई दिल्ली, 12 जून 2004

वाई.एस.पी. थोरात
प्रबंध निदेशक

एन.एस.सिसोदिया
निदेशक

के.जे.उदेशी
निदेशक


जी.एस.सूद
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के लिए मकड़ी प्रवाह विवरण

(रुपये)

विवरण	31.03.2004	31.03.2003
(क) परिचालन गतिविधियों से मकड़ी प्रवाह		
लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ	1488,42,61,805	1624,26,66,772
निम्न के लिए समावोजन :		
मूल्यवृद्धि	30,16,16,046	28,66,73,696
विविध गतिविधियों में जमा ब्याज	63,61,76,667	21,44,16,800
आय व्यय	17,14,80,678	16,69,22,633
निवेश से आय	-216,66,67,666	-167,92,72,671
विविध गतिविधियों से व्यय	-367,80,72,768	-264,84,41,615
कार्यशील पूंजी के परिवर्तन से पूर्व परिचालनगत लाभ	657,77,88,710	1148,91,64,674
निवल परिवर्तन हेतु निम्नलिखित में समावोजन :		
बाह्य आस्तिधा	-476,71,67,067	-1603,22,92,419
बाह्य देयताएं	961,66,97,666	54,26,13,369
परिचालन गतिविधियों से कुलित मकड़ी	1081,69,29,613	199,94,66,933
आयकर का भुगतान	-364,06,32,849	-442,60,00,000
परिचालन गतिविधियों से निवल मकड़ी प्रवाह (अ)	776,66,66,894	-248,06,14,167
(ख) निवेश गतिविधियों से मकड़ी प्रवाह		
निवेशों से आय	216,66,67,666	-167,92,72,671
बाह्य आस्तिधा का व्यय	-31,16,60,997	-16,66,66,461
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	-1647,48,49,641	3,12,71,666
देयताओं का व्यय	-9,29,90,639	-90,33,93,000
निवेश गतिविधियों में प्रयोग की गई/से कुलित निवल मकड़ी (आ)	-672,61,30,040	99,76,74,263
(ग) वित्तपोषित गतिविधियों से मकड़ी प्रवाह		
प्राप्त अनुदान/अनुदान	666,71,12,896	696,29,64,629
बांडों से प्राप्ति	3161,13,60,906	2623,79,79,030
उधार में वृद्धि / कमी	979,90,11,167	-666,61,44,664
जमा में वृद्धि / कमी	-67,66,66,996	2413,72,36,626
प्रदान और अग्रिम में वृद्धि	-6433,81,21,166	-4616,62,04,622
वित्तपोषित गतिविधियों से निवल मकड़ी का भुगतान (इ)	669,66,96,764	129,79,14,974
मकड़ी और मकड़ी समकक्ष में निवल वृद्धि (अ) + (आ) + (इ)	616,66,78,962	-62,66,26,343
अवधि के प्रारंभ में मकड़ी और मकड़ी समकक्ष	669,66,67,673	426,66,92,419
अवधि की समाप्ति में मकड़ी और मकड़ी समकक्ष	1175,66,49,791	699,69,27,373
<p>संलग्न इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार कुल गुणा शर्मा एण्ड एसोसिएट्स समदी लेखाकार</p> <p>पी.एस.एस.आर. सर्मा मुख्य महाप्रबंधक वित्त और लेखा विभाग नई दिल्ली, 18 जून 2004</p> <p>अशोक गुप्ता साझेदार सदस्यता सं. 17844 नई दिल्ली, 12 जून 2004</p> <p>रंजना कुमार अध्यक्ष नई दिल्ली, 12 जून 2004</p> <p>आई.एस.पी. बोरात प्रबंध निदेशक</p> <p>एम.एस.सिसोदिया निदेशक</p> <p>के.जे.उबेरी निदेशक</p>		

105/मन

जी.एस.मैन
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नई दिल्ली

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के निम्न समेकित मकड़ी प्रवाह विवरण

(रुपये)

विवरण	31 मार्च 2004
(क) वरिष्ठालय गतिविधियों से मकड़ी प्रवाह	
लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ	1459,49,53,296
मुख्यतः	30,17,50,099
विभिन्न निधियों में जमा ब्याज	23,51,70,357
अन्य खर्च	17,22,00,929
विभिन्न निधियों से खर्च	-357,90,72,799
निवेश से आय	-215,55,57,388
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व वरिष्ठालयगत लाभ	859,93,44,481
निवल परिवर्तन हेतु निम्नलिखित में समावेशन:	
चालू आस्तियाँ	-493,88,73,099
चालू देयताएँ	901,54,87,499
वरिष्ठालय गतिविधियों से सृजित मकड़ी	1074,79,59,830
आवक्य का सुगमता	-304,19,49,594
वरिष्ठालय गतिविधियों से निवल मकड़ी प्रवाह	(अ) 778,59,10,299
(ख) निवेश गतिविधियों से मकड़ी प्रवाह	
निवेशों से आय	215,55,57,388
स्थाई आस्तियों का क्रय	-81,15,59,307
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	-1047,49,49,541
शेयरों के क्रय	-4,38,99,080
प्राथमिक खर्च	-19,19,162
निवेश गतिविधियों में प्रयोग की गई निवल मकड़ी	(आ) -897,70,49,899
(ग) वित्तपोषित गतिविधियों से मकड़ी प्रवाह	
प्राप्त अनुदान/अंशदान	385,71,12,890
बाँडों से प्राप्ति	3161,19,80,900
उधार में वृद्धि	970,06,25,999
जमाओं में कमी	-98,02,79,849
ऋण और अग्रिम में वृद्धि	-3490,77,95,735
वित्तपोषित गतिविधियों से निवल मकड़ी का सृजन	(इ) 908,84,29,081
मकड़ी और मकड़ी समकक्ष में निवल वृद्धि (अ) + (आ) + (इ)	810,82,99,725
अवधि के प्रारंभ में मकड़ी और मकड़ी समकक्ष	385,02,05,593
अवधि की समाप्ति में मकड़ी और मकड़ी समकक्ष	1179,84,50,319
<p>संलग्न इसी विभांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार हमने गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स समझी लेखाकार</p> <p>वी.एस.एस.आर. शर्मा मुख्य महाप्रबंधक वित्त और लेखा विभाग नई दिल्ली, 12 जून 2004</p> <p>अशोक गुप्ता साक्षीकार संख्या सं. 17244 नई दिल्ली, 12 जून 2004</p> <p>रंजना कुमार अध्यक्ष नई दिल्ली, 12 जून 2004</p> <p>आई.एस.पी. धीरान्त प्रबंध निदेशक</p> <p>एम.एस.सिसोदिया निदेशक</p> <p>के.जे.उदेशी निदेशक</p>	

1
105 मेन

जी एस मेनन
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

नौएडा, दिनांक 8 जुलाई

सं० : 3- भा० अ० ज० प्रा० / स्था० / 20 / 99 - भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा - 35 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग से भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग ने प्राधिकरण केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए हैं, जैसे—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -

- (i) इन विनियमों को भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भर्ती, वरीयता, और प्रोन्नयन (पाँचवां संशोधन) विनियम, 2003 कहा जाएगा।
- (ii) ये केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन मिलने की सूचना की तिथि यानी 29.6.2004 से लागू होंगे।

2. कालम - 10 पर निम्न श्रेणी लिपिक पद से संबंधित क्रम सं० 18 के विरुद्ध भा० अ० ज० प्रा० भर्ती, वरीयता और प्रोन्नयन विनियम, 1992 की अनुसूची में प्रोन्नयन से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियाँ इस प्रकार हैं—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा 90 %
- (ii) समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा 10 %

(क) सीमित विभागीय परीक्षा के लिए पात्रता की शर्तें निम्नलिखित होंगी—

“परीक्षा समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों तक सीमित होगी जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की अनिवार्यता को पूरा करते हों, जैसे— मैट्रिक अथवा समकक्ष अर्हता और जिन्होंने समूह 'घ' के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।”

(ख) इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयुसीमा 40 वर्ष (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष) होगी।

विद्यमान प्रविष्टियों को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा 85 %
- (ii) समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा 10 %
- (iii) समूह 'घ' के कर्मचारियों को जो निम्न श्रेणी लिपिक पद के लिए शैक्षणिक अर्हता रखते हों। वरीयता के आधार पर 5 %
- (क) सीमित विभागीय परीक्षा के लिए पात्रता की शर्तें निम्नलिखित होंगी—

“परीक्षा समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों तक सीमित होगी जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की अनिवार्यता को पूरा करते हों, जैसे— मैट्रिक अथवा समकक्ष अर्हता और जिन्होंने समूह 'घ' के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।”

(ख) इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयुसीमा 40 वर्ष (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष) होगी।

(क-1/20-पांडियन)

(एस० एस० पांडियन)
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 23 अप्रैल 2004

सं. : यू-16/53/99-(राजस्थान)/चिकित्सा-2--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-150 के अधीन निगम की शक्तियाँ महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किये गये संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा वे शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डॉ. एन. सी. शर्मा को मानकों के अनुसार देव पारिवर्तिक पर 7.1.2004 से 6.1.2005 का पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राज्य चिकित्सा आयुक्त (राजस्थान) द्वारा निर्धारित क्षेत्र उदयपुर और कंकरोली के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की साक्ष्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ।

डा. (श्रीमती) सुभाष सिंह
चिकित्सा आयुक्त

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(केंद्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 20 जुलाई 2004

सं. के.भ.नि.आ.1(4)/2114/2004/वेस्ट बंगाल/22490--केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोजता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें :--

क्र. सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति की तिथि	सहमति की तिथि
1.	उत्पूबी/30752	मै. मित्री प्रोविजनल स्टोर	01.02.02	01.02.02
2.	उत्पूबी/30759	मै. गीतम सरकार	01.04.02	01.04.02
3.	उत्पूबी/30766	मै. के. राय एंड राय कन्सल्टेशन सर्विस	01.10.01	01.10.01
4.	उत्पूबी/30807	मै. मनोज चौधरी	01.05.02	01.05.02
5.	उत्पूबी/30874	मै. ह्यामा पदा झा	05.11.02	05.11.02
6.	उत्पूबी/30909	मै. आनंदलोक मैडिकल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड	01.01.03	01.01.03
7.	उत्पूबी/31121	मै. मंगलपुर समावे कृषि उद्यान समिति लि.	01.10.03	01.10.03
8.	उत्पूबी/36963	मै. मना इन्जीनियरिंग	01.11.03	01.11.03
9.	उत्पूबी/38492	मै. बरसात रेगुलेटिड मार्केट कमेटी	02.05.03	02.05.03
10.	उत्पूबी/31125	मै. रसुलपुर एस. के.यू.एस. लि.	01.11.03	01.11.03
11.	उत्पूबी/30957	मै. राधिकापुर ग्राम पंचायत एस.के.यू.एस. लि.	01.01.03	01.01.03
12.	उत्पूबी/30718	मै. करनदीधी लैम्पस लि.	01.12.01	01.12.01
13.	उत्पूबी/30817	मै. नकुल मालाकर	01.07.02	01.07.02
14.	उत्पूबी/30990	मै. आर.एस. एन्टरप्राइस	01.04.03	01.04.03
15.	उत्पूबी/31036	मै. राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल	01.06.03	01.06.03
16.	उत्पूबी/30922	मै. वि. स्कूलर	01.02.03	01.02.03
17.	उत्पूबी/39989	मै. एम.एस.जी. एन्टरप्राइज	13.08.01	13.08.01
18.	उत्पूबी/30638	मै. एस.के. एण्ड कम्पनी	01.09.01	01.09.01
19.	उत्पूबी/30640	मै. मै. सना कुमार प्रधान	01.08.01	01.08.01

अतः केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दशापी गई है।

एस. आर. जोशी
केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. के.भ.नि.आ.1(4)/2111/2004/एमएच/22486--केन्द्रीय भविष्य निधि आधुनिक को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित निवेदना तथा कार्यकारी की जा चुकित इस बात से सहमत है कि कार्यकारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1992 (1992 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें :-

क्र. सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	स्थापि की तिथि	सहमति की तिथि
1.	एमएच/105298	श्री. श्री गणेश प्राचीन बीगर सेती शाह चतुर्थात्ता लि.	21.02.04	21.02.04
2.	एमएच/115401	श्री. इरिजोन लोजिस्टिक प्रा. लि.	01.05.03	01.05.03
3.	एमएच/11158	श्री. मोरा कोलीवाडा सहकारी को. लि.	01.09.02	01.09.02
4.	एमएच/115546	श्री. मंगल चूर्ति इन्टरप्राइसिस	01.10.03	01.12.03
5.	एमएच/115594	श्री. सुनीता इन्टरप्राइसिस	01.12.03	01.13.03
6.	एमएच/115280	श्री. वराहो ईरुध कोवर लि.	01.02.03	01.02.03
7.	एमएच/115489	श्री. लि साहजीस कामसलडेन्सी सर्विस	01.09.03	01.09.03
8.	एमएच/115255	श्री. 0 त्रिज्य साईक साईसजी लि.	01.01.03	01.01.03
9.	एमएच/115344	श्री. ब्रेड करस	11.04.03	11.04.03
10.	एमएच/115007	श्री. विर्यलसमेराईन सर्विस प्रा. लि.	01.02.02	01.02.02
11.	एमएच/115541	श्री. श्री डी माइली सिस्टम्स प्रा. लि.	01.10.03	01.10.03
12.	एमएच/46941	श्री. सतारा जिला माधक सहकारी चतुर्थी मर्यादित	01.12.03	01.12.03
13.	एमएच/105291	श्री. चूरीमिल बीकार कामगार वा चरसरदार एंड जनहित संघर्ष समिति सोलापुर	02.02.04	02.02.04
14.	एमएच/46721	श्री. सुलगुन सेल्स प्रा. लि.	09.06.03	09.06.03
15.	एमएच/एमके/52365	श्री. डब्जवल प्रोक्शनस सर्विसिज प्रा. लि.	08.03.04	08.03.04
16.	एमएच/115252	श्री. जेवसी इन्टरप्राइसिस	01.01.03	01.01.03
17.	एमएच/115279	श्री. कामला इन्विनिवर्सिटी (कायमंड) प्रा. लि.	01.01.03	01.01.03
18.	एमएच/एमएसके/52355	श्री. एक आई सोल्यूशंस एंड चेरकरस	13.02.04	13.02.04
19.	एमएच/45945	श्री. इन्टरनेट प्रोक्शनस मेस कोम लि.	23.01.02	23.01.02
20.	एमएच/115392	श्री. स्वेता इलेक्ट्रिक प्रा. लि.	08.05.03	08.05.03
21.	एमएच/61792	श्री. श्री कृष्णा कठिंग सेक्टर	01.04.96	01.04.96
22.	एमएच/46862	श्री. सोना कलोथ डिपर	01.10.03	01.10.03
23.	एमएच/28127	श्री. डि मेथोडिस्टर (डब्ज्यू. एस. सी. एस. किडर गार्डन स्कूल)	01.11.02	01.11.02
24.	एमएच/105271	श्री. भूसाहच त्रिजवार मागरी सहकारी बैंक लि.	04.12.03	04.12.03
25.	एमएच/105231	श्री. एस. एन. कोटिक एंड कम्पनी	08.08.03	08.08.03
26.	एमएच/105252	श्री. सोलापुर महानगरपालिका चतुर्थ शरणी मीकराजी सहकारी चतुर्थी मर्यादित	01.10.03	01.10.03
27.	एमएच/105274	श्री. आर. आर. खाडके	26.04.03	26.04.03
28.	एमएच/105283	श्री. भारतीय मेहतर समाज	05.01.04	05.01.04
29.	एमएच/46792	श्री. शिवसाहबादरी सहकारी चतुर्थी लि.	22.09.03	22.09.03

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आधुनिक उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उक्त या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

एस. आर. जोशी
केन्द्रीय भविष्य निधि आधुनिक (मुख्या.)

सं. के.भ.नि.आ.1(4)/2114/2004/पीएन/22486--केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें :--

क्र. सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति की तिथि	सहमति की तिथि
1.	पीएन/21775	मै. स्वास्थ्यिक इन्ट्राइसिस	04.11.03	04.11.03
2.	पीएन/21777	मै. अबलाज इलैक्ट्रीनिक्स	04.10.03	04.10.04

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. के.भ.नि.आ.1(4)/2118/2004/केआर--केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें :--

क्र. सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति की तिथि	सहमति की तिथि
1.	केआर/केसी/19859	मै. हस्पल इन्जीनियरिंग कम्पनी	01.12.03	01.12.03
2.	केआर/केसी/19218	मै. कोनथाइथिल वुड इन्डस्ट्रीज	01.04.00	01.04.00
3.	केआर/19420	मै. ननमनी एग्रो मिल्स प्रा. लि.	01.10.00	01.06.00
4.	केआर/केसी/15191	मै. कोचीन डीजल सेल्स एण्ड सर्विसस	01.06.96	01.06.96
5.	केआर/16928	मै. एस. के. इंजीनियरिंग	01.06.04	18.05.04
6.	केआर/केके/17884	मै. इन्जीनियर्स कन्सल्टियम	01.03.04	01.03.04
7.	केआर/16315	मै. ज्योतिशासातम कन्थली	01.06.98	01.06.98

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. के.भ.नि.आ.1(4)/2113/2004/टीएन/22487--केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें :--

क्र. सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति की तिथि	सहमति की तिथि
1.	टीएन/वीएनआर/38659	मै. वीकेवी मैट्रिकुलेशन स्कूल	11.06.01	11.06.2001
2.	टीएन/टीआई/46966	मै. देवा कालानील्लायम मैट्रिकुलेशन स्कूल	24.07.02	24.07.02

क्र. सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति की तिथि	सहमति की तिथि
3.	टीएन/टीआई/46994	मै. नाइसे सिक्योरिटी सर्विस	11.11.02	11.11.02
4.	टीएन/50421	मै. ट्रिमेनटस टेक्नोलोजीस (प्रा.) लि.	14.07.03	14.07.03
5.	टीएन/टीआई/55007	मै. कन्याकुमारी डिविजनल पोस्टल डिपार्टमेंट इम्पलाइज को. ओ. थ्रिप्ट एंड क्रेडिट सोसाईटी	23.12.02	23.12.02
6.	टीएन/टीआई/55028	मै. इन्डियन ऐरिया मानल अलाई ओपोन्या थोजीलाजिल मनेत्रा संगम	26.02.03	26.02.03
7.	टीएन/वीएलआर/38307	मै. होटल जयाबाला इन्टरनेशनल	31.08.98	31.08.98
8.	टीएन/वीआरएल/38328	मै. धेकारंमबलूर प्राईमरी एग्रीकलचर को.-आ. बैंक	29.09.98	29.09.98
9.	टीएन/वीआरएल/38529	मै. सी-1053, एस. के. भंडारलम पी. ए. सीबी	21.10.99	21.10.99
10.	टीएन/वीएलआर/38637	मै. एस. कृष्णापुरम एम. पी. सी. एस.	14.08.00	14.08.00
11.	टीएन/टीआई/46960	मै. कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट लेबर कन्ट्रैक्ट को.-ओ. सोसाईटी लि.	17.07.02	17.07.02
12.	टीएन/47573	मै. केके-127, दि हासुर पी. ए. सी. बैंक	01.01.03	01.01.03
13.	टीएन/50272	मै. दि इन्सटैंट हाऊस कौपिंग सर्विसिस	16.09.02	16.09.02
14.	टीएन/50468	मै. सूर्या वल्ड	04.09.03	04.09.03
15.	टीएन/टीआई/55014	मै. राजापुर वूमेन मिल्क प्राइसर्स को.-ओप. सोसाईटी	20.01.03	20.01.03
16.	टीएन/वीएलआर/38868	मै. चीनाकेसाकुपम एम. पी.सी. एस.	27.10.03	27.10.03

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.)

सं. के.भ.नि.आ.1(4)/2117/2004/कर्नाटक--केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोजता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें :--

क्र. सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति की तिथि	सहमति की तिथि
1.	केएन/35499	मै. ग्राम विकास	01.12.03	03.11.03
2.	केएन/35414	मै. ध्रुव इनफोटेक प्रा. लि.	10.06.03	04.04.03
3.	केएन/35380	मै. मेटल केअर प्रा. लि.	01.11.03	06.10.03
4.	केएन/35463	मै. माइक्रो विलेज सोफटेक प्रा. लि.	01.10.03	06.09.03
5.	केएन/35365	मै. गंगा जेन बायोटेक्नोलोजीस प्रा. लि.	04.03.03	04.03.03
6.	केएन/35494	मै. बी. ई. ए. सिस्टम्स कस्टमर स्पॉर्ट एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा. लि.	01.11.03	01.11.03
7.	केएन/35489	मै. स्पॉर्ट सोफ्ट (ई) प्रा. लि.	01.12.03	03.11.03
8.	केएन/35458	मै. बीसीएस प्रोग्रामर कम्प्यूटर सर्विसिस	01.09.03	01.09.03
9.	केएन/35407	मै. फास्ट साइट कम्प्यूटिंग (ई.) प्रा. लि.	12.06.03	12.06.03
10.	केएन/35481	मै. वेब इन्टरनेशनल कार्गो	01.11.03	20.10.03
11.	केएन/35473	मै. ई-काम सर्विस कंसल्टिंग प्रा. लि.	01.10.03	30.09.03

क्र. सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति की तिथि	सहमति की तिथि
12.	केएन/35443	मै. अलैक्ट्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीस प्रा. लि.	01.08.03	01.08.03
13.	केएन/22992	मै. इथेजर एम. पी. सी. एस. लि.	01.04.03	05.02.03
14.	केएन/36004	मै. एम. डी. सी. यू. लि.	08.04.03	08.04.03
15.	केएन/36009	मै. संधानर एम. पी. सी. एस. लि.	01.04.03	30.03.03
16.	केएन/38027	मै. बिनाका सर्विसिस	01.12.03	01.12.03
17.	केएन/36008	मै. गानाडालू एम. पी. सी. एस. लि.	01.04.03	28.03.03
18.	केएन/36019	मै. मारालिगानादादी एम. पी. सी. एस. लि.	01.05.03	31.03.03
19.	केएन/38018	मै. कामथ इलैक्ट्रीकल्स	01.10.03	01.10.03

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.)

सं. के.भ.नि.आ.1(4)/2110/2004/केआर--केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें :-

क्र. सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति की तिथि	सहमति की तिथि
1.	केआर/16792	मै. श्री उडियन देवी क्षेत्र योगम	25.08.03	25.08.03
2.	केआर/केके/17863	मै. एपेक्स पब्लिक स्कूल	01.12.03	18.11.03
3.	केआर/19277	मै. अलंकार कले प्रोडक्ट्स	01.06.00	26.05.00
4.	केआर/19365	मै. जनानिधि	01.03.01	01.03.01
5.	केआर/केसी/19776	मै. इरनाकुलम प्रेस क्लब	01.09.03	01.09.03
6.	केआर/16805	मै. फ्लेमिंगा (डी. एफ. एस.) प्रा. लि.	01.09.03	30.08.03
7.	केआर/16881	मै. क्लीन एण्ड क्लीन	10.02.04	10.02.04
8.	केआर/19866	मै. ए. एण्ड जेड हाउस कीपर्स	05.01.04	05.01.04
9.	केआर/केसी/119866	मै. बैनाली इलैक्ट्रॉनिक कम्पनी	01.02.04	29.01.04
10.	केआर/16844	मै. के आर-4	12.12.03	12.12.03
11.	केआर/16883	मै. सी वर्ल्ड हालीडे इन्डिया (प्रा.) लि.	19.02.04	19.02.04
12.	केआर/केसी/19892	मै. विकास फण्डस एण्ड क्योरीडा (प्रा.) लि.	01.03.04	01.03.04

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.)

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इन्डिया

चेन्नई-600 034, दिनांक 27 जुलाई 2004

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

3 एससीए (5)/1/2003-2004 : इस संस्थान की अधिसूचना नं. 4 एससीए (1)/4/1982-83 दिनांक 31 मार्च 1983, 3 एससीए (4)/5/1992-93 दिनांक 27 नवम्बर 1992, 3 एससीए (4)/4/1994-95 दिनांक 22 फरवरी 1995, 3 एससीए (4)/4/1995-96 दिनांक 12 मार्च 1996, 3 एससीए (4)/3/1996-97 दिनांक 11 दिसम्बर 1996, 3 एससीए (4)/3/1997-98 दिनांक 31 मार्च 1998, 3 एससीए (4)/4/1998-99 दिनांक 7 मई 1999, 3 एससीए (4)/4/1999-2000 दिनांक 17 अप्रैल 2000, 3 एससीए (4)/5/2000-01 दिनांक 12 दिसम्बर 2001, 3 एससीए (4)/5/2001-02 दिनांक 21 मई 2002, 3 एससीए (4)/4/2002-03 दिनांक 30 अप्रैल 2003 और नं. 25-सीए (48)/1995-96 दिनांक 7 जुलाई 2003 के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है।

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक स्थापन
1.	005504	श्री रामालिंगेस्वारा सरमा ई एफसीए जी-3, कालानजाली निवास हनमानजी कालोनी, ब्रिगेडियर सय्यद रोड, तारबुंद, सिकन्दराबाद-500009	14/07/2003
2.	015107	श्री विजयाकुमार आर, एससीए एफसीजी/ 3 पीडीओ पी ओ बॉक्स नं. 81, पीसी 113, मस्कट, सल्लतनत ऑफ ओमान	25/06/2003
3.	016301	श्री नटराजन एस, एससीए न्यू नं. 19 (ओल्ड नं. 10), 5th मैन रोड, आर ए पुरम, चेन्नई-600028	11/07/2003
4.	018435	श्री निध्यानन्दन टी के, एससीए 'नाथनस् अनुश', नं. 17बी, तीसरी मंजिल, 1 मैन रोड, इन्दिरा नगर, चेन्नई-600020	28/07/2003
5.	018497	श्री रविराज एम, एफसीए 107/3, पहली मंजिल, 8th क्रास, 6th मैन माल्लेस्वाराम, बैंगलोर-560003	23/06/2003
6.	018559	श्री मैथ्यू सी, एससीए मल्लैट नं. 105, कान्जान जुंगा अपार्ट्स, सिविल लाईन्स रोड, पालारीवातोम, कोच्ची-682025	27/05/2003

7.	018564	श्री जेयारामान पी एल ए, एफसीए अस्सिट. जनरल मैनेजर, एकाउंट्स रिकॉसिलेशन सेल, कारूर वेश्य बैंक, सैंट्रल ऑफिस कारूर-639002	06/06/2003
8.	018625	श्री गोपालाकृष्णन् पी, एससीए वाईस प्रजिडेंट कोरपोरेट ऑडिट, सोभा डवलपर्स प्रा. लि., ई-106, सनराइज चैम्बर्स, 22 उल्सूर रोड, बैंगलोर-560042	08/07/2003
9.	019033	श्री सुब्बा राव जी एस वी के एससीए 304, प्रदीप अपार्टमेंट्स, गांधी नगर, न्यू बाकाराम, हैदराबाद-500080	22/04/2003
10.	020029	श्री राजामान्नार जी, एफसीए श्री गोविन्द इस्लाम, नं. 9, 48th स्ट्रीट, नानानाल्लूर, चेन्नई-600061	28/04/2003
11.	020030	श्री बाबू श्रीनिवास एम एस, एससीए 1711 रॉयल ओक रोड, एपीटी 1ए, पिट्सबर्ग, पी ए 15220, यू एस ए	29/05/2003
12.	020166	श्री नान्दा कुमार एन, एससीए फाइनेंसियल कंट्रोलर, मैसर्स एसडीवी अमी जांबिया लि., पी ओ बॉक्स 30131, लुसाका, जांबिया	11/04/2003
13.	021313	श्री शंकर वी एस, एससीए 15, 5th क्रास, गणेशा ब्लॉक, दिन्नूर, मैन रोड, आर टी नगर, बैंगलोर-560032	27/08/2003
14.	021537	श्री पेसाला मास्तान राव, एससीए फ्लैट नं. 201, श्री साई निवास, एल आई सी कालोनी, नियर श्रीनगर कालोनी, हैदराबाद-500073	02/04/2003
15.	021674	श्री श्रीनिवासन वी वी, एफसीए 15 लिंकन एवेन्यू, मोन्ट अलबर्ट नोर्थ, वीआईसी 3129, आस्ट्रेलिया	05/08/2003
16.	021874	श्री सानकारन डी, एससीए नं. 1629, I क्रास स्ट्रीट, रामा मोहन पुरम (नियर देवहिया पार्क), बैंगलोर-560021	12/08/2003
17.	022121	श्री लाजार आर, एससीए 52/सी, अपस्टैट्स, कालमेतू स्ट्रीट वीरेसवाराम, श्रीरामगाम, तिरुचिरापल्ली-620006	18/06/2003
18.	022412	श्री हरीहरन एम, एफसीए 304/बी एचवीएस कोर्टेस, 21 क्यूनिनगांम रोड, बैंगलोर-560052	14/08/2003
19.	022776	श्री रंगनाथन वैकाटारामान, एससीए इंटरनल ऑडिट मैनेजर, दुबई नेशनल इश्योरेन्स एण्ड रिश्योरेन्स पीएससी, पी ओ बाक्स 1806, दुबई, यू ए ई	11/07/2003

20. 022822 श्री बालासुन्दरा रामाशर्मा एम 12/05/2003
एसीए
502, स्वागुरुहामोती अपार्टस्, नियर आई ओ बी,
मोतीनगर 'X' रोडस्, हैदराबाद-500018
21. 023382 श्री मोहन कुरुविल्ला, एसीए 19/08/2003
प्रोफेसर
हारुस्टोन बापटीस्ट यूनीवर्सिटी,
7502 फोनडरेन रोड, हारुस्टोन,
टी एक्स 77101, यू एस ए
22. 023930 श्री मोहम्मद सादीक्यूल आमीन एम 28/04/2003
एसीए
22, सैकेण्ड स्ट्रीट, लेक एरिया, नंगमबक्कम,
चेन्नई- 600034
23. 024502 श्री उमापथी राव के, एसीए 08/08/2003
एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर, बॉस प्रोफेल्स लिमिटेड
14/ए, आरआई काम्पलेक्स, अन्ना नगर ईस्ट,
चेन्नई-600102
24. 024617 श्री वेंकटा स्वामी टी एन, एसीए 07/04/2003
सेक्टर-1/205 बी, उक्कोनागाराम,
विशाखापट्टनम-530032
25. 024997 श्री रवि एस, एफसीए 22/08/2003
फ्लैट नं. 5303, नान्दी एन्क्लेव,
II क्रॉस Vth ब्लॉक, बानासानकारी, थर्ड स्टेज,
बैंगलोर-560085
26. 025009 श्री नारायण बी एस, एसीए 30/07/2003
3-5-45/6/2, इंडेमबाग, रामकोटे,
हैदराबाद-500001
27. 025265 श्री रामाचन्द्रन आर, एसीए 13/05/2003
17, श्रीपुरम, तिरुनेल्वेली जंक्शन,
तिरुनेल्वेली-627001
28. 025642 श्री नारायण एस एल, एसीए 24/07/2003
कोरपोरेट वाइस प्रेजिडेंट फानेन्स,
एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ए-10-11,
सेक्टर-3, नोएडा-201301
29. 026058 श्री श्रीनिवास रेड्डी एम, एसीए 07/05/2003
प्लोट नं. 132, सेक्टर 4, एम बी पी कालोनी,
विशाखापट्टनम-530017
30. 026555 श्री वेंकटेश यू, एसीए 15/07/2003
के/ऑफ, श्री जे मार्टिन जोसफ सेलवार्राज,
20ए, सैकेण्ड क्रॉस स्ट्रीट, ट्रस्टपुरम,
कोदाम्बाक्कम, चेन्नई-600 024
31. 027092 मिस चित्रा प्रसाद, एसीए 05/09/2003
134ई तुंगगाबादरा, स्टेरिलिंग रोड, नंगमबक्कम,
चेन्नई-600034
32. 027629 श्री जोसफ थोमस, एसीए 07/05/2003
फाइनेंसियल कंट्रोलर, एम आई गल्फ सर्विसिज,
एलएलसी, पी ओ बाक्स 2851, दुबई, यू ए ई
33. 028146 श्री सुन्दर ए, एसीए 30/04/2003
नं. 43, सैकेण्ड स्ट्रीट, गिल नगर, चोलाईमूड,
चेन्नई-600094
34. 028764 श्री नागाराजन पी, एसीए 30/06/2003
अस्सिस्टेंट मैनेजर (एफ एण्ड ए)
डयना ट्रेड, पी ओ बाक्स नं. 22842,
शाहरजाह, यू ए ई
35. 028798 श्री पार्थसारथी आर, एसीए 11/09/2003
जनरल मैनेजर
आटो वर्ल्ड स्पेयर पार्ट्स ईएसटी,
पी ओ बाक्स 20145, दुबई, यू ए ई
36. 028849 श्री धानूमालायान एस एन 01/04/2003
एफसीए
बी5, 'नर्मदा अपार्टमेंटस्', सुबरामाण्यम स्ट्रीट,
अभीरामापुरम, चेन्नई-600018
37. 028905 श्री विपिनचंद्रन एस, एसीए 26/05/2003
फाइनेंसियल कंट्रोलर, हासान अबुल ईएसटी,
पी ओ बाक्स 3034, साफात 13031,
कुवैत
38. 029220 श्री नागाराजन वी, एफसीए 06/08/2003
फाइनेंसियल कंट्रोलर, क्वालीप्लास्ट लि.,
पी ओ बाक्स 7136, अक्करा, नोर्थ, अक्करा, घाना,
वेस्ट अफ्रीका
39. 029334 श्री लक्ष्मीनारायणन टी वी, एसीए 19/05/2003
405, गोल्फ मानोर, नालविंड टुयुनल रोड,
मुरुगेशापालाया, बैंगलोर-560017
40. 029851 श्री गणेश बी, एसीए 28/04/2003
102, जीआईटीसी, ब्लॉक 2, थर्ड मैन 5th क्रॉस,
डॉलरस् लेआऊट, बीटीएम स्टेज सैकेण्ड,
बिलेकाहाल्ली, बैंगलोर-560076
41. 043190 श्री गुरू दत्त कामालाक्ष शिनोय 11/08/2003
एसीए
6/1-5, पाई स्ट्रीट, वेस्टमेड, एनएसडब्ल्यू 2145,
सिडनी, आस्ट्रेलिया
42. 043841 श्री जोर्ज थोमस, एसीए 03/07/2003
फ्लैट नं. 108, बी-विंग, कामालाकार भुवन
सीएचएस, इकसार-महात्रे रोड, बोरीवली (वेस्ट)
मुम्बई-400103
43. 050449 श्री शिव प्रकाश नानदा, एसीए 27/05/2003
ग्रुप फाइनेंस डायरेक्टर, अस्सारेन ग्रुप ऑफ
कम्पनीज, पी ओ बाक्स 1475, पी सी 112, रूबी,
सल्लनेत ऑफ ओमान
44. 052657 श्री मैथ्यू माथार्थ, एसीए 24/06/2003
153, जल वायु विहार, कामानाहाल्ली मैन रोड,
बैंगलोर-560043
45. 073055 श्री श्रीनिवास चित्ता, एसीए 12/05/2003
12-13-312, फ्लैट नं. 201
अकांक्षा अपार्टस्, स्ट्रीट नं. 13, तारनाका,
हैदराबाद-500017

46.	081164	श्री भास्काराकृष्णान बी वी एस एसीए फ्लैट नं. 109, सरस्वती रेजिडेंसी, पदमा राव नगर, सिकन्दाराबाद-500025	01/08/2003	58.	201588	श्री प्रेम सेबास्तिथान एंथोनी एसीए चीफ फाइनैसियल ऑफिसर, नेरो स्पाइनल हॉस्पिटल, पी ओ बॉक्स 71444, दुबई, यू ए ई	19/08/2003
47.	093159	श्री गणपति सुब्रामण्यम आर एसीए 2043, फोर्ड स्ट्रीट, बुकलिन, एन वाई 11229, यू एस ए	26/08/2003	59.	201784	श्री वाराधाराजन एस, एसीए ब्लाक 325, क्लेमेन्ती एवेन्यू 5, # 02-137, सिंगापोर-120325	30/05/2003
48.	106607	श्री क्रीतिवासा गुहान एस के एसीए 30, वुडक्रेस्ट वाल्क, रिगेट, सुरेय आर एच 2 ओजेएल, यूनाईटेड किंगडम	21/05/2003	60.	202133	श्री सूरि बाबू गोपी, एसीए गोपी स्ट्रीट, न्यियर कानयाकापारामेस्वारी टेम्पल, केनाल रोड, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, पेनूगोनदा-534320	19/05/2003
49.	200272	श्री बालासुब्रामण्यम पी, एसीए मैनेजर-फाइनैसियल एडमिनेस्ट्रेशन, क्रैन बैंक लिमिटेड, प्लॉट 38, काम्पाला रोड, पी ओ बॉक्स 22572, काम्पाला, युगांडा	21/04/2003	61.	202181	श्री शिजु अब्राहम थोमस, एसीए सीनियर एसोसियेट्स, वर्ल्ड फाइनैसियल ग्रुप, 1120 फिनच एवील्यु वेस्ट सुइट 507, डाऊनस्विथ, ओएनटी एम3जे 3 एच 7, कानाडा	28/07/2003
50.	200655	श्री सुधाकार वाई आर एन, एफसीए पी ओ बॉक्स 26489, अदलिया, किंगडम ऑफ बहरीन	16/04/2003	62.	202188	मिस श्री लथा, एसीए 4918, किमबाल लेन, कारपेंटरविल्ले, आई एल 60110, यू एस ए	13/08/2003
51.	200837	श्री रमेश एन चारी, एसीए एसोसियेट डायरेक्टर, मैसर्स बारक्लेयस् कैपिटल, नं. 200, पार्क एवेन्यू, न्यूयॉर्क 10166, यू एस ए	22/04/2003	63.	202384	श्री अजय कुमार, एफसीए के/ऑफ क्रैन बैंक लिमिटेड, पी ओ बॉक्स 22572, प्लॉट नं. 20/38, कामपाला रोड, कामपाला, युगांडा, ईस्ट अफ्रीका	23/05/2003
52.	200912	श्री सौरीराजन ए, एसीए न्यू नं. 78 (ओल्ड नं. 80) कापालीतस्वारार कोइल स्ट्रीट, मायलापोर, चेन्नई-600004	16/06/2003	64.	202928	श्री जालील वी पी, एफसीए ऑफिसर ऑपरेशनस्-ऑपरेशनस् डिपार्ट., आबू धाबी इनवेस्टमेन्ट ऑथरिटी, पी बी नं. 3600, अदिया, आबू धाबी, यू ए ई	02/07/2003
53.	201197	श्री पारामेस्वारान बी, एसीए फाइनैस एण्ड एडमिस्ट्रेशन मैनेजर, जानस्सेन सिलाग गोल्फ, पी ओ बॉक्स 9556, दुबई, यू ए ई	23/06/2003	65.	203171	श्री सुब्रामण्यम एम, एसीए 502-ए, जयादुर्गा टॉवर्स, महालक्ष्मी इल्लाम, भोलाकपुर, सिकन्दाराबाद-500080	21/08/2003
54.	201250	श्री आनन्द जे, एसीए ब्रांच मैनेजर एल आई सी ऑफ इंडिया, ईरोड साऊथ ब्रांच, 13, रेल्वे स्टेशन रोड, ईरोड-638001	08/05/2003	66.	203252	श्री रवि के, एसीए जनरल मैनेजर (फाइनैस एण्ड एकाऊंट्स) रिजेनसी क्रियेशन्स लिमिटेड, सी-69, सेक्टर 58, नोएडा-201307	25/07/2003
55.	201348	श्री कृष्णन जी, एसीए ए6 तीन मूर्थी अपार्टमेन्ट्स, नाटेसन कालोनी, अलवरपेट, चेन्नई-600018	22/04/2003	67.	203270	श्री सुरेश ए, एसीए फाइनैसियल कंट्रोलर, एम एफ आई ऑफिस सोल्योशनस् लि., पी ओ बॉक्स 49160, नैरोबी, केन्या	02/04/2003
56.	201458	श्री नरसिम्हा मूर्थी बी आर, एसीए 'वशिष्ठ' पहली मंजिल, थर्ड क्रास अच्युथाराव सेआऊट, शिमोगा-577202	04/04/2003	68.	203874	श्री राघवेन्द्रा टी, एसीए नं. 8, स्वर्णा कुंज, दोहाबोम्मा सान्द्रा, IV ब्लॉक, बैंगलोर-560097	04/04/2003
57.	201519	श्री जैद के एम, एसीए फाइनैस मैनेजर यूनाईटेड पेपर इंडस्ट्रिज बीएससी (I), पी ओ बॉक्स 2004, मानामा, बहरीन	13/08/2003	69.	203891	मिस सोभा रानी मानदावा, एसीए बिल्डिंग 32, यूनिट 17, 55 मिल प्लान रोड, दानबुरी सी टी 06811, यू एस ए	14/07/2003
				70.	204106	मिस शुभा एस, एसीए नं. 4, 77th स्ट्रीट, 16th एवेन्यू, अशोक नगर, चेन्नई-600083	28/08/2003

71.	204197	श्री बालाजी पी, एसीए 07/08/2003 55 इल्लसवर्थ एसटी., लाडेस रानच, सी ए 92694, यू एस ए	84.	206026	श्री मोहन गुनतुपाल्ली, एसीए 30/07/2003 एच नं. 5-6-111, प्लाट नं. 647, रोड नं. 10, वायदेही नगर, वानास्थालीपुरम, हैदराबाद-500070
72.	204210	श्री वेंकटा राव मेरला, एसीए 31/07/2003 हेड बिजिनेस डवलपमेन्ट एण्ड फाइनैस, इनटेक सोफ्टवेयर लि., 1365, रोड नं. 45, जुबली हिल्स, हैदराबाद-500033	85.	206135	श्री माधुसुदन शर्मा एस, एसीए 25/04/2003 9/22, अम्बा नागारी, धानौरी रोड, विशारानतवाडी, पुणे
73.	204579	श्री श्रीनिवासन डी, एसीए 23/05/2003 18 बिग स्ट्रीट, ट्रीपलीकेट, चेन्नई-600005	86.	206591	श्री हारून राहमाथुल्ला, एसीए 04/07/2003 67, ईस्ट थर्ड स्ट्रीट, अपार्टमेन्ट 3 सी, न्यूयॉर्क 10003, यू एस ए
74.	205017	श्री श्रीनिवासा सुब्रामण्यम एस 13/05/2003 एसीए बीजी 1 एण्ड 2 इत्तीना सारवा अपार्टमेन्ट्स, 4th क्रास, बालाजी लेआऊट, होंगासानदरा, बैंगलोर-560068	87.	206743	श्री मार्टीन जैकब, एसीए 07/08/2003 ए31, प्रोडिको ओने, पोर्ट हारकोर्ट, रिवरस् स्टेट, नाइजेरिया
75.	205115	श्री विजया कुमार बुद्दी, एसीए 18/06/2003 अपार्टमेन्ट नं. 102, मूनलाईट रेजीडेंसी, प्लाट नं. 145, सिद्धार्थ नगर, हैदराबाद-500038	88.	207032	श्री वीरा वेंकटा सतीश गोतीपाती 23/06/2003 एसीए फाइनैस मैनेजर, बीएचसी एग्री (इंडिया) प्रा. लि. नालको हाऊस, रोड नं. 2, बानजारा हिल्स, हैदराबाद-500033
76.	205555	श्री सुरेश रेड्डी के वी, एसीए 28/07/2003 फाइनैस मैनेजर-फार्मासियुटिकल्स, मैसर्स ग्लेक्सो स्मिथक्लाइन, फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड, डॉ. अन्नी बेसन्ट रोड, वोरली, मुम्बई-400025	89.	207195	श्री श्रीराम गुप्ता कानामारलापुडी 21/04/2003 एसीए सी-4, रिजेनसी अपार्टस्, बीच रोड, कालाकक्षेत्रा कालोनी, बेसन्त नगर, चेन्नई-600090
77.	205730	मिस शांथी एम एस, एसीए 19/05/2003 45 4th मैन रोड, जवाहर नगर, चेन्नई-600082	90.	207212	मिस मृदुला के एस, एसीए 15/07/2003 843, 'अरुनोदया', 13th क्रास, थर्ड मैन महालक्ष्मी लेआऊट, बैंगलोर-560086
78.	205815	श्री लक्ष्मी नरसिम्हा सास्त्री के 22/05/2003 एसीए फाइनैसियल कंट्रोलर, माक्स पैकैजिंग इंडस्ट्रीज लि., पी ओ बॉक्स 20141, नाकावा इंडस्ट्रियल एरिआ, कामपाला, युगांडा	91.	207274	श्री कृष्णा किशोर के, एसीए 25/04/2003 प्लोट नं. 316, 'बी' ब्लॉक, हीलाइन आर्कड अपार्टमेंट्स, नियर मुश्रीराबाद, 'X' रोडस् बोलाकपुर, हैदराबाद
79.	205850	श्री वेंकटा राघवन आर, एसीए 01/07/2003 फाइनैस मैनेजर, राक बैंक-हेड ऑफिस, पी ओ बॉक्स 5300, रास अल खैमाह, यू ए ई	92.	207355	श्री वेंकटाबाबू राव जामी, एसीए 21/04/2003 206, केवीके 'एस क्लासिक होमस्, प्लाट नं. 189 एण्ड 190 कल्यान नगर, वेंचर III नियर मोती नगर 'X' रोडस्, (बोराबानदा), हैदराबाद-500018
80.	205871	श्री मैथ्यू पी चेरियान, एसीए 06/05/2003 301 लाल्स रेजीडेंसी, अदूर-691523	93.	207642	श्री श्रीनिवासा सारावान कानूपार्थी 04/06/2003 एसीए 2एच-1बी लैंडलिंगस् टाऊनशिप, ऑपो. सैकेण्ड क्रास, जे एन विल्ला, डेरेबाइल, कोनचाडी, मैंगलोर-575003
81.	205900	श्री संजय पुरुषोत्तमन, एसीए 16/07/2003 ए-4, पोन्नी, ई-14, अन्ना नगर, चेन्नई-600102	94.	208393	मिस गायत्री एन, एसीए 08/07/2003 नं. 3/1, केशावापेरूमाल वेस्ट स्ट्रीट, मायलापोर, चेन्नई-600004
82.	205911	श्री चेल्लाप्पा के एन, एसीए 07/05/2003 अस्सिस्टेंट मैनेजर, अलिया मलेशिया लिमिटेड, पांचवीं मंजिल, मैन ऑफिस टॉवर, फाइनैसियल पार्क, जालान मेरदेका, 8700 डब्ल्यू पी, लबुआन, मलेशिया	95.	208818	मिस विशाखा छवछरिया, एसीए 28/04/2003 33/5, विक्टोरिया रोड, फर्स्ट क्रास, बैंगलोर-560047
83.	205947	श्री अनांथा नारायणन एन, एसीए 16/04/2003 प्रोजेक्ट एकाऊंटेंट, के/ऑफ शैल आयरन ओफशोरे लि. पी ओ बॉक्स # 62997, दुबई 0, यू ए ई	96.	208961	श्री आर्मस्ट्रॉंग एस ए, एसीए 05/09/2003 आर एस एम एण्ड कं., पी ओ बॉक्स 1171, पोस्टल कोड 112, रूबी, सल्लनेत ऑफ ओमान

97. 209063	श्री इलानगोवान पी, एसीए 06/05/2003 फ्लैट नं. 2, अलांकार राथीनाम फ्लैट्स, नं. 1ए, पादासालाई स्ट्रीट, लक्ष्मीपुरम, क्रोमपेट, चेन्नई-600044	103. 209742	मिस चित्रा एस, एसीए 09/06/2003 17 बालाजी वेन्यू, लुज चर्च रोड, मायलापोर, चेन्नई-600004
98. 209138	श्री विजयाकुमार पी, एसीए 28/05/2003 डिवीजनल मैनेजर, नेशनल इश्योरेंस कं. लि. 47-13-1, श्रीनिवासा भवन द्वारकानगर, विशाखापट्टनम-530016	104. 210302	श्री रामकुमार एन, एसीए 05/05/2003 58 न्यू रोड, हेज, मिडिलसेक्स यूबी3 5बीक्यू, यू के
99. 209191	श्री दिनेश कुमार के, एसीए 06/06/2003 45/1180, जीवन बीमा नगर, अन्ना नगर वेस्ट एक्स, चेन्नई-600101	105. 210388	श्री मनोज पी जोसफ, एसीए 24/07/2003 फाइनेंस मैनेजर नाबील परफ्यूमस्, पी ओ बॉक्स 5332, दुबई, यू ए ई
100. 209288	श्री युनुस अवानी वेदू, एसीए 21/07/2003 14/746, अवानी वेदू, कुन्दनगल, कोजहीकोडे-673003	106. 210458	श्री उमेश पुरोहित, एसीए 13/05/2003 प्लोट नं. 50, शिव सुन्दर अपार्टमेंट, खारे टाऊन, नागपुर-440010
101. 209520	श्री साराथ बाबू मानदुवा, एसीए 01/07/2003 403, विसुआ हरिटेज रेजिडेंसी I फेज, धर्मा रेड्डी कालोनी, कुकाटपाल्ली, हैदराबाद-500072	107. 210657	श्री भावादास के सी, एसीए 22/05/2003 एक्जिक्यूटिव मोरेस् रोलैण्ड, पी ओ बॉक्स 401805, गाबोरोने, बौतसवाना
102. 209661	मिस अम्बिका एस, एसीए 05/06/2003 एसआरटी 472, सनाथ नगर, हैदराबाद-500018	108. 210716	श्री कालपेश आर मारू, एसीए 21/05/2003 35, शारावाती रोड, गुरुहालक्ष्मी हाऊसिंग कालोनी, 1 स्टेज, वेस्ट ऑफ चोरड रोड, बैंगलोर-560079
		109. 210862	श्री गोपाल आर, एसीए 18/08/2003 8-3-988/34/1, एस बी एच कालोनी, श्रीनगर कालोनी एक्स, हैदराबाद-500073

(Handwritten Signature)

अशोक हल्दिया
(सचिव)

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

3 एससीए 5/2/2003-2004 इस संस्थान की अधिसूचना नं. 3-एससीए (4)/4/1994-95 दिनांक 22-02-1995, 3-एससीए (4)/4/1995-96 दिनांक 12-3-1996, 3एससीए (4)/3/1996-1997 दिनांक 11-12-1996, 3-एससीए (4)/3/1997-98 दिनांक 31-03-1998, 3एससीए (4)/4/98-99 दिनांक 7-5-1999, 3-एससीए (4)/5/2000-01 दिनांक 12-12-2001, 3एससीए (4)/5/2001-02 दिनांक 21-05-2002 और 3एससीए (4)/4/2002-2003 दिनांक 30-4-2003 और 3एससीए (4)/7/2002-2003 दिनांक 3-6-2003, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	स्थापन दिनांक
1.	002730	श्री नंदूरी सुब्बा राव, एफसीए 7-84-1, जहीर नगर, हबसीगुडा, हैदराबाद-500007	1/10/2002
2.	004816	श्री लक्ष्मीनारायणन एस एसीए न्यू न. 19 (ओल्ड न. 10) देसिका रोड, माईलापोर चेन्नई-600004	1/10/2002
3.	009281	श्री रतन्म पालूरी वेंकेटा एफसीए 7-29 बापूजी नगर, नाचाराम हैदराबाद-500076	01/10/2002
4.	012123	श्री चक्रपाणी पी एस, एफसीए फ्लैट न. 4-ए, 4 TH फ्लोर कस्तूरी अपार्टमेंट्स, जे पी एवेन्यू, आर के सलाई चेन्नई-600004	01/10/2002
5.	012244	श्री जहीर अहमद ए एस एसीए 6 सैक्रेट्रीएट कालोनी आदमबक्कम, चेन्नई-600088	01/10/2002

6.	012938	श्री पानतूलू पुट्ट. र्ति चैनचाईया, एफसीए एफआई विजिथा रेसीडेंसी, प्लाट 86 मैथोडिस्ट कालोनी, उमानगर बेगमपेट, हैदराबाद-500016	1/10/2002
7.	014011	श्री नवरत्न मल जैन, एफसीए 105 गोंबिदाप्पा नाईकेन स्ट्रीट, तीसरी मंजिल, चेन्नई-600001	01/10/2002
8.	014059	श्री रवीशंकर सुब्राम्णयम एफसीए न. 65/30 सोलाईअप्पन स्ट्रीट, माईलापोर, चेन्नई-600004	1/10/2002
9.	016148	श्री कृष्णन वी, एफसीए चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर, स्ट्रेटेजिक फूड्स, इंटरनेशनल कम्पनी एलएलसी, पीबी न. 53193, दुबई, यू ए ई	01/10/2002
10.	018054	श्री राजागोपालन टी वी एफसीए 125 3 RD मैन 6 TH फ़्लास, कोरामंगला फस्ट ब्लॉक, बैंगलोर-560034	01/10/2002
11.	018174	श्री मुरलीधरन आर, एसीए चीफ मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, माईलापोर-ब्रांच आफिस, 150 लूज चर्च रोड, चेन्नई-600004	8/12/2000
12.	018585	श्री श्रीधर एम, एफसीए 8-3-319/बी/24/9, बी/एच सारथी स्टूडियोस, वेल्लारेड्डीगुडा, अमीरपेट, हैदराबाद-500007	01/10/2002
13.	018636	श्री सोमादास जी सी, एफसीए 7-4-1 सैकेण्ड फ्लोर 59 TH फ़्लास वी ब्लॉक, राजाजीनगर, बैंगलोर-560010	01/10/2002

14.	018718	श्री सोमाशेखरन पी एस एफसीए 19, अम्बेर गार्डन्स, # 12-23, सिंगापुर 208787	01/10/2002	24.	019618	श्री उदय बास्कर पी एफसीए डिप्टी जनरल मैनेजर इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड 304 भाई नगर, भुवनेश्वर-750022	01/10/2002
15.	018823	श्री मोहम्मद जफरुल्लाहा एमसीए 121 वैराईटी हाल रोड, कोयम्बटूर-641001	01/10/2002	25.	019700	श्री मुरलीधरन एम एस, एसीए 32 सुन्दरम स्ट्रीट, भारथी नगर रानीपेत-632403	08/12/2000
16.	018880	श्री रामा मूर्ति, एस एल एफसीए 10, थर्ड फ्लोर, कुरुवारासंघा सिलवर जुबली बिल्डिंग, गाँधी नगर, बैंगलोर-560009	01/10/2002	26.	019812	श्री सूर्य नारायणन जी, एसीए फाइनैसियल कन्ट्रोलर, आरएसएच (मिडिल ईस्ट) एलएलसी अल मकदूम स्ट्रीट डेईरा, पी. ओ. बाक्स 20764, दुबई, यू ए ई	01/10/2002
17.	018950	श्री शंकर राम एस, एसीए न. 406/सी 4 TH मैन रोड, 'ब' ब्लॉक विनायक नगर, कोनेना अगरहारा, बैंगलोर-560017	01/10/2001	27.	019852	श्री मनोहरा राव एस, एसीए गुनडंग पूतरी, 30, तमन डागो, लिप्पो सिकारंग, बैकासी-17550 इंडोनेशिया	01/10/2002
18.	018977	श्री नारायना वी, एफसीए सैकेण्ड फ्लोर आर्य प्लाजा # 3/5 बुल टैम्पल रोड, चामराजपेट वेस्ट बैंगलोर-560018	01/10/2002	28.	020176	श्री हरीशा भट्ट ए, एसीए सीनियर वाईस प्रेसिडेंट-फाईनेस मैक डॉवल एण्ड कंपनी लि. 51 रिकमंड रोड, बैंगलोर-560025	01/10/2002
19.	019013	श्री बार्ने जार्ज के, एसीए जनरल मैनेजर-फाइनसियल ए/सीएस मलायला मनोरमा कम्पनी लि. पी बी न. 6, के के रोड, कोट्टयम-686001	01/10/2002	29.	020354	श्री वायथीसवरन आर एफसीए फ्लैट न. एस-1, गुरु विलास मधुरमस अपार्ट्स, 141 कुच्चेरी रोड, माईलापोर, चेन्नई-600004	01/10/2002
20.	019194	श्री श्रीधरन के वी, एफसीए मर्जस एण्ड एक्ज्यूशियन कंसलटेन्ट आईडियल बिजनेस कॉम्बिनेशनस आई एन सी, 1918 दुनलोई सर्किल, दूनेदिन फ्लोरिडा-34698, यू एस ए	01/10/2002	30.	020581	श्री बालामुरली वी, एफसीए न्यू न. 13 (ओल्ड न. 7) मौ., अबदुल्ला साहिब स्ट्रीट, सैकेण्ड लेन, चिपॉक चेन्नई-600005	01/10/2002
21.	019234	श्री वरदाराजन आर, एफसीए न. 17 (ओल्ड न. 5) आर्य गोडा रोड, वेस्ट माम्बालाम चेन्नई-600033	01/10/2002	31.	020828	श्री शेखर एस एन एस आर, एफसीए कृष्णा कुटीर 5-210/4, कृष्णा कालोनी, ओल्ड बाउनपल्ली सिकन्दराबाद-500011	01/10/2002
22.	019255	श्री धानीगाराजू एस, एसीए 20, 1 क्रॉस, राजअय्यर थोतम, सरम, पांडिचेरी-605013	01/10/2002				
23.	019480	श्री विजयकुमार एम एन एफसीए न. 88, आर वी. रोड, बैप्रावनागुडी, बैंगलोर-560004	01/10/2002				

32. 020965 श्री मोहन राज के एस, 01/10/2002
एफसीए
मैनेजिंग डायरेक्टर
आल्फा फाईनैसियल कंसल्टेंसी,
सर्विसिज प्राईवेट लि. साबरी काम्पलेक्स,
24, रेसिडेंसी रोड, बँगलोर-560025
33. 021183 श्री कृष्णन ए जी, एसीए 01/10/1998
फ्लैट न. 2-डी, विष्णु विलास अपार्ट्स.,
11, 3RD क्रास, के आर ले आउट,
जे पी नगर, सिक्स फेस,
बँगलोर-560078
34. 021253 श्री हेमाचन्द्रन एम एम 01/10/2002
एसीए
डी एन 31-12-1/3
नियर टेलिफोन ऐक्सचेंज,
गायत्री स्कूल रोड, कुरमानापलेम,
विशाखापट्टनम-530046
35. 021259 श्री बाबू थियागराजन, एसीए 01/10/1996
न. 14, 4TH क्रास स्ट्रीट,
कारपागम गार्डन्स, अदयार
चेन्नई-600020
36. 021375 श्री कृष्णन आर, एफसीए 01/10/2002
2ए, अनुगृह आपर्टमेन्ट्स
5, फोर्थ सेवार्ड रोड, वाल्मीकि नगर,
तिरुवनमियूर, चेन्नई-600041
37. 021387 श्री गुरूराज राव ए, एफसीए 01/10/2002
16-7-813/9/1 विनायक स्ट्रीट,
अपो. मालकापेट रेलवे स्टेशन,
सहीफा पोस्ट, हैदराबाद-500024
38. 021413 श्री बालासुब्रमण्यम एस पी 01/10/2002
एफसीए
ओप. टीओ टी आर वी काम्पलेक्स
1212-ए, रंगायी गोदेर स्ट्रीट,
कोयम्बटूर-641001
39. 021419 श्री विजयाकुमार एन एस 01/10/2002
एफसीए
253/डी 5TH मैन मिल्क कॉलोनी
मालेश्वरम वेस्ट, बँगलोर-560055
40. 021545 श्री बंगारू राजू ओ, एसीए 01/10/2001
मैनेजिंग डायरेक्टर
जीएमआर तमबाराम तिंडीवानाम
एक्सप्रेसवेस् प्रा. लि., 25/1 स्किप हाउस,
म्यूजियम रोड, बँगलोर-560025
41. 021615 श्री राजेन्द्रन एस, एफसीए 01/10/2002
39 भारथी कालोनी, पिलामेडू,
कोयम्बटूर-641004
42. 021636 श्री नरेन्द्रन, पी, एसीए 08/12/2000
4 सेंडी लेन, पिटरशम,
रिचमॉड अपोन थाग्स,
सूर्य टी डब्ल्यू 10 7 ईएन
यूनाइटेड किंगडम
43. 021656 श्री रेड्डी बी एम, एफसीए 01/10/2002
न. 47 'डी' सितारामा बिल्डिंग
जे सी रोड, बँगलोर-560002
44. 022033 मिस अनुराधा जे, एसीए 01/10/2002
इंदिरा नगर सैकेण्ड स्टेज,
4ए मैन पहली मंजिल, बँगलोर-560038
45. 022105 श्री श्रीरामन के, एफसीए 01/10/2002
न. 36/5 फोर्थ मेन रोड, गांधी नगर,
अदयार, चेन्नई-600020
46. 022598 मिस राधा वैकटाकृष्णन 01/10/2002
एसीए
जी-2 अयेस्टर ओपेरा 35 एण्ड
36 गंगाई स्ट्रीट, ऑफ टाईगर वर्दचारी रोड,
कलाकक्षेत्र कालोनी,
बसंत नगर, चेन्नई-600090
47. 022869 श्री वैकटासुब्रमण्यम 01/10/2002
एन एन, एफसीए
डिप्टी जनरल मैनेजर फाईनैस,
जी टी एन टैक्सटाईलस लिमिटेड,
पालल टावर्स, रविपूरम, एम जी रोड,
कोच्चि-682016
48. 022919 मिस रागिनी, संतानाम 01/10/2002
एफसीए
2, वलगागा एसटी, कूमा एनसीएन 2630
आस्ट्रेलिया
49. 022988 श्री रमेश एन, एसीए 08/12/2000
5 सीडी, 5TH ब्लॉक, केनसिस इन्कलेव
1 रामाकृष्णन स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नई-600017

- | | | | | | |
|-----|--------|--|-----|--------|--|
| 50. | 023080 | श्री कुचीभोटला स्याम सुन्दर 01/10/2002
एफसीए
1-2-412/15/ए, गगनमहल कालोनी
हैदराबाद-500029 | 59. | 024490 | श्री सुब्रामोनिया पिल्ले ए 01/10/2002
एसीए
मैनेजिंग डायरेक्टर, फाईनैस बैंक,
पी ओ बाक्स 421, बलेनटायर, मालवी
सैंट्रल अफ्रीका |
| 51. | 023179 | श्री पोकुरु सुब्बा राव 01/10/2002
एफसीए
न. 18-1-502/ ए 3, चेंजी प्लाजा,
के टी रोड, तिरुपति-517507 | 60. | 024816 | श्री मोहम्मद नियामतउल्ला 01/10/2002
एम, एसीए
2/2 हाउसर रोड, विल्सन गार्डन,
बैंगलोर-560027 |
| 52. | 023287 | श्री अशोक जयाराम, एसीए 01/10/2001
'सासी-विलास', न. 28 दीवान रामा रोड,
फ्लावर्स रोड, चेन्नई-600084 | 61. | 024820 | श्री आनंदन ई, एफसीए 08/12/2000
भारती निलायम 1, बाजानाई कोइन स्ट्रीट
कान्नाम्मापेट, टी नगर
चेन्नई-600017 |
| 53. | 023334 | श्री नवनीता, कृष्णन एस 01/10/2002
एफसीए
मैनेजिंग डायरेक्टर,
ब्रिजवे टेक्सटाईल्स प्रा. लि.,
न. 18 मुरुंगापालायम, 1 ST स्ट्रीट,
तिरुपुर-641603 | 62. | 024824 | मिस मल्लिका आर 01/10/1996
एफसीए
11 लामबेथ एवेन्यू, आफ बावा रोड,
अलवरपेट, चेन्नई-600018 |
| 54. | 023586 | श्री कृष्णामूर्ति एम, एसीए 01/10/2002
एसबी-2 सेलफिन अपार्टमेंट्स,
पी वी राजामान्नर सलाई, के के नगर,
चेन्नई-600078 | 63. | 024869 | श्री मोहम्मद तलहा रहमान एच 01/10/2002
एफसीए
रिजैन्सी हाउस, दूसरी मंजिल,
341 अन्ना सलाई, तियानामपेट
चेन्नई-600006 |
| 55. | 024069 | श्री नसीर मोहम्मद एम एच 01/10/2001
एसीए
8, 44 TH स्ट्रीट, अशोक नगर,
चेन्नई-600083 | 64. | 024958 | श्री सत्यानारायना प्रसाद आर के 01/10/2002
एसीए
प्लाट न. 15 डा. सुब्बा राव कालोनी
नियर केरला आयुर्वेदिक, मेडिकल सेन्टर,
पीकेट, सिकन्दराबाद-500009 |
| 56. | 024157 | श्री अचूता रमय्या 01/10/2002
के वी एन आर के, एसीए
9-19-23 सनकरावारी स्ट्रीट,
अलंकापल्ली-531001 | 65. | 025472 | श्री गजेन्द्रन के एन, एफसीए 01/10/2002
न्यू न. 273, (ओल्ड न. 130),
तीसरी मंजिल, थामबू चेटी स्ट्रीट
चेन्नई-600001 |
| 57. | 024160 | श्री रंगन एन कान्नन 01/10/2002
एफसीए
12-सी, न्यू न. 6 विरापंडी नगर,
सैकेण्ड स्ट्रीट, चूलाईमेडु, चेन्नई-600094 | 66. | 025561 | श्री करुमांची वीराशेखरा राव 01/10/2002
एसीए
602 पल्लवी एस्टेट्स, 8-3-830/1/2/3
येल्लारेड्डीगुडा, हैदराबाद-500073 |
| 58. | 024371 | श्री सुरेश एम के, एसीए 01/10/2002
जेआई दागू पिरामल न. 9
लिप्पो सिकारंग, बेकासी-17550
जावा बरात, इंडोनेशिया | 67. | 025724 | श्री फ्रेडरिक पी सी, एसीए 01/10/2002
पी ओ बाक्स 14415
दुबई, यू ए ई |

68. 025746 श्री महेन्द्र ए, एफसीए 01/10/2002
एच न. 3-4-5121/3
बारकाथपुरा, हैदराबाद-500027
69. 025880 श्री वैकेंटरामणन ए आर, 01/10/2002
एफसीए
बी-5 राजाराम कालोनी, कोदमबक्कम,
चेन्नई-600024
70. 025998 श्री सुगावानाम के, एसीए 01/10/2002
न. 5, सामबासीवम स्ट्रीट
टी नगर, चेन्नई-600017
71. 026003 श्री रविन्द्रा कुमार एम, एसीए 01/10/2002
ए 2 कृष्णा तेजा,
20 बी बालाकृष्णा रोड, वाल्मीकि नगर,
तिरुवनमियूर, चेन्नई-600041
72. 026045 मिस लक्ष्मी टी ए, एफसीए 01/10/2002
बीआईके 749, # 04-128,
यीशान स्ट्रीट 72, सिंगापुर-760749
73. 026106 श्री उल्लास कामत के 01/10/2002
एन-118, मनिपाल सेंटर, डिकेन्सन रोड
बैंगलोर-560042
74. 026456 श्री स्वामीनाथन एस, एफसीए 01/10/2002
बीएलके 309, कनबेरा रोड,
08 -121, सिंगापुर
75. 026463 श्री बदरी एल, एसीए 01/10/2002
न. 8/12 (ओल्ड न. 16/12)
केशवा पेरूमल सन्नाधी स्ट्रीट,
माईलापोर, चेन्नई-600004
76. 026507 श्री बीराराघावलू सीएच 01/10/2002
एसीए
फाइनैसियल कन्ट्रोलर
नजिरुडियो कंपनी, पी ओ बाक्स 200,
बलेनटायर, मालवी, सेंट्रल अफ्रीका
77. 026551 श्री महेश्वरी आर सी 01/10/2002
एफसीए
2-2-46 एण्ड 47 फ्लोर,
मार्चआला काम्पलेक्स, पान बाजार,
सिकन्दराबाद-500003
78. 026592 श्री आनंद टी पी, एफसीए 01/10/2002
सीनियर मैनेजर-स्ट्रेटेजिक प्लानिंग
कृषिजी ग्रुप, पी ओ बाक्स 51304,
दुबई, यू ए ई
79. 026609 श्री अनंतकृष्णन ए एस 01/10/2002
एफसीए
न. 21 (ओल्ड न. 19), राजागोपालन स्ट्रीट,
(आफ जुबली रोड), वेस्ट ममबालम,
चेन्नई-600033
80. 026803 श्री श्रीनिवासन जी, एफसीए 01/10/2002
के/ओ गल्फ मार्किटस, पी ओ बाक्स 405,
दोहा, कतार
81. 026838 श्री कृष्णन आर, एफसीए 01/10/2002
7/39 बारकेर स्ट्रीट, किंगसफोर्ड,
एनएसडब्ल्यू, सिडनी, आस्ट्रेलिया
82. 027163 श्री अनंतरामाकृष्णन के 01/10/2002
एसीए
434-ए, बालासुन्दरम लेआउट, विवेकानन्द
रोड रामनगर, कोयम्बटूर-641009
83. 027548 श्री कृष्णा कुमार टी 01/10/2002
एफसीए
पहली मंजिल, 18/1 बी जी गोपल बिल्डिंग,
लालबाग फोर्ट रोड
बैंगलोर-560004
84. 027634 श्री पद्मनाभन के, एसीए 01/10/2002
4618, 230TH तीर से
सम्मामीश, डब्ल्यू ए 98075
यू एस ए
85. 027640 श्री नरेन्द्र कुमार लोधा 01/10/2002
एफसीए
38/18 मुखातल स्ट्रीट, पुरासाईवक्कम
चेन्नई-600007
86. 027690 श्री हर्षावारदन राजन 01/10/2001
एफसीए
मैनेजिंग डायरेक्टर
सनकाया लर्निंग (प्राई.) लि.,
न. 1, एल बी रोड, 2ND फ्लोर, अडय्यर,
चेन्नई-600020
87. 027798 श्री धनंजयन टी आर 08/12/1997
एफसीए
फाइनैस एण्ड एडमन. मैनेजर
इक्विपमेन्ट सेल्स एण्ड सर्विस (प्रा.) लि.
पी ओ बाक्स 1242, गाबोरवन, बोत्सवाना

88. 027847	श्री प्रसाद बाबू एस एस एसीए न्यू न. 41 (ओल्ड न. सी-733) 12 TH एवेन्यू, अशोक नगर चेन्नई-600083	01/10/2002	98. 028655	श्री चम्पकलाथ टी वी, एसीए 0 1/10/2002 38; आनी स्ट्रीट, चीनमयानगर स्टेज सैकेण्ड, चीनमयानगर, चेन्नई-600092	
89. 027867	श्री उदय शंकरा राव एम एसीए एच न. 854 धर्म कर्ण रोड, अमेरपेट, हैदराबाद-500016	01/10/1996	99. 028751	श्री स्वामीनाथन के, एफसीए 08/12/2000 'मार्वल जस' फ्लैट न 4, 2 ND फ्लोर, न्यू न. 10 (ओल्ड न. 15) जस्टीस सुन्दरम रोड, माईलापोर, चेन्नई-600004	
90. 027875	श्री श्रीनिवास एम, एफसीए 01/10/2002 प्लॉट न. 16, एच न. 13-6-433/16 नेताजी नगर, रिंग रोड, मेहदीपटनम, कुलसमपुरा पोस्ट, हैदराबाद-500067		100. 028781	श्री गोपाल आर, एफसीए 01/10/2002 जनरल मैनेजर पेट्रोलियम सर्विस (मालवी) लि० पी ओ बाक्स 1900, बलेनटायर, मालवी, अफ्रीका	
91. 027889	श्री तिलक राम ए, एफसीए 01/10/2002 83, रेलवे स्टेशन रोड, वेल्लोर डिस्ट, तिरुपट्टूर-635601		101. 029000	श्री कृष्णा मूर्ति एस, एसीए 01/10/2002 167 एम एम रोड, कोक्स टाउन, बैंगलोर-560005	
92. 028161	श्री मैथ्यू चार्गिश, एसीए 01/10/2002 डायरेक्टर प्रिमा कम्पोनेट्स (पी) लि. नेटूर पीओ माराडू, कोच्चि-682304		102. 029011	श्री सुरेश आर, एसीए 08/12/1997 फाइनैसियल कन्ट्रोलर माईक्रोसॉफ्ट अरोबीया, पी ओ बाक्स 17100, ओलाया, रियाद 11454, किंगडम ओस सउदी अराबीया	
93. 028162	श्री मैथ्यू जॉन, एसीए 01/10/1998 फाइनैसियल कन्ट्रोलर हेर्गी ऑयल पाल्मस लि., पी ओ बाक्स 21 बिल्ला, वेस्ट न्यू ब्रिटेन प्रोविंस, पपूआ न्यू ग्यूनिया		103. 029168	श्री कृष्णा रागवन, एसीए 01/10/2002 विल्ला, 3 'अपूर्वा' 6-3-862/3 सादत मंजिल, बेगमपेट, हैदराबाद-500016	
94. 028215	श्री श्रीकांत ए, एसीए 01/10/2002 फ्लैट न. 6, डोर न. 12, वाल्लियामल स्ट्रीट, किलपोक, चेन्नई-600010		104. 029214	श्री पार्थासारथी के, एफसीए 01/10/2001 फ्लैट आईसी, के जी ट्रेडिशन न 1, नार्थ गोपालापुरम फर्स्ट एसटी गोपालापुरम, चेन्नई-600086	
95. 028297	श्री श्रीकरण आर, एसीए 01/10/2002 न. 44/बी ब्लॉक एच, अन्ना नगर (ईस्ट) चेन्नई-600102		105. 029298	श्री रिंगाराजन आर, एसीए 01/10/2002 मैनेजर फाईनेस सनमार एलाय कास्टीगंस लि. 87/1 वदूगापट्टी विलेज विरालीमलाई-621316	
96. 028323	मिस. गिरिजा पी, एफसीए 01/10/2002 503 ए गुलमोहर अपार्टमेन्ट्स. सिजर रोड अम्बोली, अंधेरी वेस्ट, मुम्बई-400058		106. 029392	श्री कृष्णन एस आर, एसीए 01/10/2002 मैनेजर-इन्वेस्टमेन्ट बैंकिंग बैंक मस्कट, पी ओ बाक्स 134, पोस्टल कोड 112, रूबी, सल्तनत आफ ओमान	
97. 028344	श्री राजेन्द्रन के, एफसीए 01/10/2001 फाइनैसियल कन्ट्रोलर ए-जेड कार्पोरेशन, पी ओ बाक्स 795, मोनरोविया, लिबेरिया				

107. 029457 श्री जयेन्द्र एन एफसीए 01/10/2002
जनरल मैनेजर
काउन्टरकोर्प इन्टल. प्रा० लि०
न. 1, शैंटन वे, 11-06, रॉबिना हाउस
सिंगापुर-068803
108. 029458 श्री गणेश के, एसीए 01/10/2002
फ्लैट न. 302, केटी अपार्टमेंट्स-14
491, 46TH क्रास, जयनगर वी ब्लॉक
बैंगलोर-560041
109. 029527 श्री वेन्नीमलाई आर, एसीए 01/10/2002
एफ2, ब्लॉक 1, सिंदूर सी प्रिन्सीस,
3, कोस्टल रोड, बसंत नगर,
चेन्नई-600090
110. 029554 श्री वैकेटा चन्द्रा गुप्ता ए 08/12/2000
एसीए
फाईनेंस मैनेजर
जीवीके अमेरीका आईएनसी,
157 जी वी के ड्राइव, बिसकोई,
नार्थ कारोलिना 27209, यू एस ए
111. 029640 श्री सुरेश कुमार के एसीए 01/10/1996
ब्लॉक 765, यीशून स्ट्रीट 72, 10-370
सिंगापुर-760765
112. 029663 श्री सतीश कुमार पी एम 01/10/2002
एफसीए
कंपनी एक्जीक्यूटिव,
ओमान इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी कम्पनी,
एलएलसी, 204 हाट्ट हाउस वाडी अदायी,
पीओ बॉक्स 1203 पोस्टल कोड 112,
मस्कट, सल्तनत आफ ओमान
113. 029698 श्री मडीरेड्डी राधा कृष्णा 01/10/2002
एफसीए
1-9-252/6/ए/जी-7, रामनगर,
हैदराबाद-500020
114. 029719 मिश्र. राधिका सुधीर, एसीए 01/10/2002
4एफ-421, अल्पाइन पार्क,
1/1ए, बेगूर मेन रोड, बोम्बेनहल्ली,
बैंगलोर-560068
115. 029892- श्री रवि टी वी, एफसीए 01/10/2002
बृंदावन, न. 40 फस्ट ए क्रास
आर एम वी 2ND स्टेज, एमएसआरआईटी
पोस्ट, बैंगलोर-560054
116. 031671 श्री रामामूर्ति विजय, एसीए 01/10/2002
2ए, रमनचाला अपार्टमेंट,
15/1 बानसवाडी रोड, बैंगलोर-560005
117. 033477 श्री कैचाप्पानवारा नागाराजा 01/10/2002
आर, एफसीए
न. 29 सैकेण्ड फ्लोर, मारुति काम्पलेक्स,
लाईन बाजार, धारवाड-580001
118. 034136 श्री भंडारी सुरेन्द्रा कुमार 01/10/2002
एफसीए
47 जवाहर नगर कालोनी,
1-8-64 पी जी रोड,
सिकन्दराबाद-500003
119. 036508 श्री मनी जी सी एस, एसीए 01/10/2002
1631/4, पहली मंजिल, पहला क्रास,
बिहार्ड देवाहीया पार्क,
अपो. वागदेवी सेशप्पा हाल,
राममोहनपुरम, बैंगलोर-560021
120. 037114 श्री अरूण कोहली, एसीए 01/10/2002
प्लॉट न. 403, मिलफोर्ड टेरेस
फ्लैट 204, 8TH मेन 2ए क्रास, 3RD ब्लॉक,
कोरामंगला, बैंगलोर-560034
121. 038929 श्री रामसामी एस, एसीए 01/10/1995
7 जीवन कुंज, एन जी अचार्या मार्ग,
चैम्बर, मुम्बई-400071
122. 039497 श्री अनुप टी कुरुविल्ला 01/10/2002
एसीए
ग्रुप वाईस प्रेजिडेंट
एबीएन एमरो बैंक एन वी,
फाईनेंसियल मार्किट्स,
63 चूलीया स्ट्रीट, लेवल 10,
सिंगापुर-049514
123. 040788 श्री गोगिनेनी गिरधर 01/10/2002
एफसीए
203 स्वायुहा कल्याण अपार्टमेंट्स,
प्लॉट न. 112 एण्ड 113 कल्याण नगर 3RD
फेस, यूसूफगुडा, हैदराबाद-500018

124. 042250	श्री सुरेश कुमार पी एम 01/10/2002 एफसीए, कारपोरेट मैनेजर के/ओ एचएमआर कंसलटेन्ट्स, पी ओ बाक्स 1295 सीपीओ सीब, पोस्टल कोड III, सल्लानत आफ ओमान, यू ए ई	132. 054567	श्री सतीश शिनीय, एसीए 01/10/2002 न.2 अरविन्दो स्ट्रीट, सैकेण्ड फ्लोर पांडिचेरी-605001
125. 042584	श्री अनिल प्रभूदास जीवन 01/10/2002 एसीए सैंचूरी सेंटर, 75 टी टी के रोड, चेन्नई-600018	133. 056289	श्री मुखर्जी अभिजीत, एसीए 01/10/2002 के/ओ. ए भट्टचार्या, मोन रिपोस, 1020ए 17सी क्रास, इंदिरा नगर स्टेज सैकेण्ड, बेंगलोर-560038
126. 042701	श्री नेयर प्रकाश गोविंदकुट्टी 01/10/2001 एसीए भारत एस राउत एण्ड कम्पनी, 20/2 विठ्ठल मल्लया रोड, बेंगलोर-560001	134. 056393	श्री गणेश नेल्लीअम्पन, एसीए 01/10/2002 डिप्टी मैनेजर (एफ एण्ड ए), बोलानी ओरस माईन्स, स्टील ऑथरिटी आफ इंडिया लिमिटेड- आरएमडी, कियोनझर डिस्ट. उडीसा बोलानी-758037
127. 043870	श्री रामा सुब्रामण्यम ए 01/10/2002 एसीए कंसलटेन्ट, बीडीओ बर्गन इन्टरनेशनल एकान्टेन्टस, पी ओ बाक्स 22351, साफत 13084, कुवैत	135. 072435	श्री जैन सुरेश चंद, एफसीए 01/10/2002 ब्लाक न. 1 हाउस न. 007 हैरीटेज अपार्टमेन्ट्स, डोडाबल्लापुर रोड, येलाहंका, बेंगलोर-560064
128. 045648	श्री कोतवाल अतुल अरविंद 01/10/2002 एफसीए, सिटी बैंक एन.ए. सिटी बैंक सेंटर पहली मंजिल, सी-61 बांद्रा कूरला काम्पलेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई-400051	136. 074413	श्री जैन सुनील, एफसीए 01/10/2001 55 शेटलेण्ड कोर्ट, एडीसन, एन जे 08817 यू एस ए
129. 046403	मिस. उरगीता पुनडरीक शेड्टी 01/10/2002 एसीए जी 107 प्राइड अपार्टमेन्ट्स, बनेरगटा रोड, बिलेकाहल्ली, बेंगलोर-560076	137. 078571	श्री खण्डेलवाल अनुराग 01/10/2002 एसीए मैस्स प्राईस वाटरहाउस, पी डब्ल्यू सेंटर, सैय्यदुल्लाजब अपो. 'डी' ब्लाक, साकेत, न्यू दिल्ली-110030
130. 050839	श्री रामाचन्द्रन के एस 01/10/2002 एफसीए अमृता-दूसरी मंजिल, ई 58-ए.21 TH क्रास स्ट्रीट, बसंत नगर, चेन्नई-600090	138. 081027	श्री मेहरा विवेक, एफसीए 01/10/2002 के/ओ प्राईस वाटर हाउस कॉर्पस (प्रा.) लि. सुचेता भवन, दूसरी मंजिल, 11 ए-विष्णु दिगम्बर मार्ग, न्यू दिल्ली-110002
131. 053630	श्री अनिन्द्या सेन गुप्ता, 08/12/2000 एसीए फाईनैस मैनेजर, ब्रिटैनिया इंडस्ट्रीस लि., 33 लॉरेस रोड ईन्ड. एरिया, न्यू दिल्ली-110035	139. 081613	श्री नागाराजन एस, एसीए 01/10/2002 एफ-36 साईट सैकेण्ड, आई ओ सी नगर, सेक्टर 55, नोएडा-201301
		140. 082355	श्री रामजी सी बी, एसीए 08/12/1997 1595 कुमारास्वामी ले आउट, फस्ट स्टेज बिहाईड एसबीआई, बेंगलोर-560078
		141. 085582	श्री राजेन्द्र भट्ट, एसीए 01/10/1995 180 माईटन रोड, वारविक-सीवी 34 6पी एस, इंग्लैण्ड, यू के

142. 086983 श्री वैकेटा सुब्रामण्यम एस 01/10/2002
एसीए
मैनेजर-फाईनेस,
डोडसल पीटीई लि., पी ओ बाक्स 8034,
दुबई, यू ए ई
143. 090823 श्री राहुल साहनी, एसीए 08/12/2000
डायरेक्टर-फाईनेस, पार्क हयात गोआ
रिसोर्ट एण्ड एसपीए एरोसीम
बीच, कॅसउलीम, साठथ गोआ-403712
144. 091059 श्री सुनील गुप्ता, एसीए 01/10/2002
मैनेजिंग पार्टनर,
आर सी जी, दुबई इन्टरनेट सिटी
पी ओ बाक्स 500246, दुबई, यू ए ई
145. 094538 श्री जैन मनीष कुमार, एसीए 01/10/2002
मैनेजर-एकाउन्ट्स
जीई कैपिटल इन्टरनेशनल सर्विसिज,
3RD फ्लोर, क्यूदरंत फस्ट साईबर टावर्स,
हाईटेक सिटी, माधापुर, हैदराबाद
146. 095965 श्री राजेश पी, एसीए 01/10/2002
पारीयरथ, कंजीरामत्तम पी ओ,
एरनाकुलम-682315
147. 096113 मिस. मुक्ता कपूर, एसीए 01/10/2002
51/34 ओल्ड राजेन्द्र नगर,
न्यू दिल्ली-110060
148. 098151 मिस. हेमा मालकोटे, एसीए 01/10/2002
केन्द्रीय विहार, फ्लैट न. 289, ब्लाक बी-2,
येहालंका, बँगलोर-560064
149. 100220 मिस. नायर वन्दना, एसीए 01/10/2001
के/ओ मि. एम के नायर,
48 राज विहार कालोनी, पेपर मिल रोड,
सहारनपुर
150. 101887 श्री अव्यंगर बालाजी दुरई 01/10/2002
एसीए
478, 11TH मेन, एम सी लैआउट,
विजयनगर, बँगलोर-560040
151. 102233 श्री प्रदीप मांधना, एसीए 01/10/2002
सी-307 कासा ऐंसल अपार्टमेंट,
जे पी नगर थर्ड फेस, बनेरगट्टा रोड,
बँगलोर-560076
152. 200101 श्री श्रीकांत ई, एसीए 01/10/2002
एच-72 कुरुची कुडीरयेरूप,
टीएनएचबी फ्लैट्स, तिरुवेमयर,
चेन्नई-600041
153. 200164 श्री सेल्वागणेश आर 01/10/2002
एफसीए
एमआईजी ए-4, 18TH एवेन्यू
अशोक नगर, चेन्नई-600083
154. 200236 श्री धेन्नारासू जे, एसीए 01/10/2002
सलेक्शन जीआर. असिस्ट. मैनेजर (ऑडिट)
तमिल नाडू स्टेट ट्रांसपोर्ट कार्पो.
(मदूरई डिवी. फस्ट) लि., बाई पास रोड,
मदूरई-625010
155. 200240 श्री कृष्णा कुमार सी, एफसीए 01/10/2002
41/3324- सी 4 (पार्ट)
एल्फा टावर्स सैकेण्ड फ्लोर,
आई एस प्रैस रोड, कोच्चि-682018
156. 200249 श्री मुरुगेंडारप्पा के बी 01/10/2002
एफसीए
652/एल, फस्ट फ्लोर, डा. राजकुमार रोड,
राजाजीनगर सैकेण्ड स्टेज, बँगलोर-560010
157. 200310 श्री राधवा चारि डी, एसीए 01/10/2002
के/ओ गुरुराजा एण्ड कं.
म. न. 16-7-813/9/1, विनायका एसटी,
ओप. मलाकपेट रेलवे स्टेशन, शहिफा पोस्ट,
हैदराबाद-500024
158. 200328 श्री अंजनेयलू रेड्डी जोनेला 01/10/2002
एसीए
6844, ब्रिच लेक ड्राईव, मेमफीस,
टीएन 38119, यू एस ए
159. 200459 श्री हरिकुमार एन, एसीए 01/10/2002
डी सी टावर्स, न. 17, 3RD फ्लोर,
एफ ब्लाक 37 एण्ड 38 सैकेण्ड एवेन्यू,
अन्ना नगर ईस्ट, चेन्नई-600102
160. 200500 श्री जान के अब्राहम, एफसीए 01/10/2002
अपार्टमेंट्स 2205, 135 हिल क्रैस्ट एवेन्यू,
मिस्सिसोगा ऑटारियो, एल 5वी 4वी1,
कनाडा

161. 200505	श्री बाला मुकुन्दन एन एस 01/10/2002 एफसीए न. 1 राघवहीया रोड, टी नगर, चेन्नई-600017	171. 201171	श्री बालाचन्द्रा चडागा पी आर 01/10/2001 एसीए न. 125 मेन 7 TH बीडीए लेआउट, अवलाहल्ली, बीएसके थर्ड स्टेज, बैंगलोर-560085
162. 200604	श्री भूपति एनए, एसीए 01/10/2002 न्यू न. 32 (ओल्ड न. 95) चिन्ना स्ट्रीट, कुनराथूर, चेन्नई-600069	172. 201251	श्री मुकुण्ठ एन, एसीए 01/10/2002 'चुंदावन' बैंक रोड, अलुवा-683101
163. 200605	श्री अमृत कुमार के, एफसीए 01/10/2002 फ्लैट न. 302, श्री/43 मदुरा नगर, अमेरपेट, हैदराबाद-500038	173. 201359	श्री आनंदा बाबू पी, एसीए 01/10/2002 प्लॉट न. 404 मारुति सदन, 6-3-1117, बेगमपेट, हैदराबाद-500016
164. 200626	पिस. आनंदी राधाकृष्णन 01/10/2002 कूरुप, एसीए अस्सीटेन्ड मैनेजर, दी फेडरल बैंक लि., रिजनल आफिस, फेडरल टावर्स, एकसएल/2351 परंपरा रोड, मार्टिन ड्राईव, एरनाकुलम, कोच्चि-682018	174. 201374	श्री रमेश बाबू के, एफसीए 01/10/2002 मैनेजर फाइनेंस, डीफूड ट्रेडिंग, पी ओ बाक्स 11185, दुबई, यू ए ई
165. 200789	श्री सिद्धान्धन के, एसीए 01/10/2002 एफ5, 'शेरा स्क्वेयर', 156 चोलाईमेडु हाई रोड, चोलाईमेडु, चेन्नई-600094	175. 201490	श्री बैंकटेशन बी एफसीए 01/10/2002 नं. 6 भीमा नाइखेन स्ट्रीट (नियर ओल्ड बस स्टैण्ड) कुम्भाकोनम-612001
166. 200820	श्री जयारामन बी, एफसीए 01/10/2002 न. 20 बिल्डिंग फोर्थ स्ट्रीट, वडापलानी, चेन्नई-600026	176. 201628	श्री नरसी रेड्डी पी, एसीए 01/10/2001 140, कार्लटन स्ट्रीट, एपीटी 1617, टोरंटो, ऑंटारियो एम5ए 3डब्ल्यू 7, कनाडा
167. 200824	श्री गीताकृष्णन एन, एसीए 08/12/2000 ओडीटी डिपार्टमेंट, डायना ट्रेड, पी ओ बाक्स 22842, शारजाह, यू ए ई	177. 201634	श्री वेगासिना बैंकटरामा राजू 01/10/2002 एसीए 304 स्वर्णा निवास इन्कलेव, अपो. माधुरी हास्पिटल, श्रीनिवासनगर कालोनी ईस्ट, अमेरपेट, हैदराबाद-500038
168. 201024	श्री परानन एन, एसीए 05/12/1994 ब्लॉक 118ए जलान मेमबीना 07-137, सिंगापुर-161118	178. 201833	श्री जयराज टी एस, एसीए 08/12/2000 एसोसीएट फाइनेंस मैनेजर हिंदुस्तान कोका कोला, बेवेरेजिस प्रा. लि., 44/1, कोडीजेहल्ली गेट, बेल्लरी रोड, हिबबल, बैंगलोर-500038
169. 201037	श्री सुधीर के पी, एसीए 01/10/2002 4 एफ-421, अल्पाइन पार्क, 1/1ए, बैंगूर मेन रोड, बोम्मानाहल्ली, बैंगलोर-560068	179. 201863	श्री बैंकट्यागामी आर जे, 01/10/2002 एफसीए 14/340 अक्स्टेयर्स, कमला नगर, अनंतापुर-515001
170. 201061	श्री विजया बास्कर थल्लाम 01/10/2001 एसीए के/ओ थल्लाम मुरली, 11-14-11 मेकालवरी स्ट्रीट, नियर फिश मार्किट, विजयवाडा-520001	180. 201896	श्री धीनदेश एच बी, एसीए 01/10/2002 न. 70 फोर्थ क्रॉस, 5 TH मेन, जे बी कंवल, नंदनी ले-आउट पोस्ट, बैंगलोर-560096

181. 201913 श्री वैकटेश्वर रेड्डी पी 01/10/2002
एसीए,
म. न. 26/एएस आर नगर, हैदराबाद-500038
182. 202082 श्री चेलीवटी वैकटा रामन 8/12/2000
एसीए
कंट्रोलर, मेट्रो कंश एण्ड केरी इंडिया प्रा. लि.,
10TH फ्लोर, वायुदूत चैम्बर्स,
15/16, एम जी रोड, बेंगलूर-560001
183. 202104 श्री सुदीप बाबू सी, एसीए 01/10/2002
105, विल्ड फ्लावर हाल, रूस्तम बाग,
बेंगलूर-560017
184. 202190 मिस. रजनी राधाकृष्णन 01/10/2002
एसीए
फ्लैट ए-306, एडिमरेलडी
79 6TH फ्लोर आफ 13TH फ्लास,
इंदिरानगर सेकण्ड स्टेज, बेंगलूर-560038
185. 202304 श्री रूथरुसामी आर, एसीए 8/12/2000
प्रेसीडेन्ट, इन्डो अफ्रीका एम्प्रीम लि.,
सी-12/2, ऐडम्स ऐव्यू, कोडा, ऐडाबरका,
एसीसीआरए, बाना
186. 202306 श्री विश्वनाथन जी, एफसीए 01/10/2002
33 फोर्थ मेन रोड, कस्तूरी बा नगर,
अडयर, चेन्नई-600020
187. 202341 श्री श्रीराम एस, एफसीए 01/10/2002
कसनधा बिलोस, टी बी रोड,
कोट्टायम डिस्ट., पालई-686575
188. 202481 श्री राज कुमार जी एफसीए 01/10/2002
न्यू बाजार, अलापूझा-688001
189. 202494 श्री सेलवा मनी वी एफसीए 01/10/2002
72ए/6बी, अन्ना नगर फोर्थ क्रोस,
होसूर-635109
190. 202503 श्री जार्ज जोस्फ, एसीए 01/10/2002
अस्सीट. फाइनेंसियल कंट्रोलर
होटल इंटरकॉन्टिनेंटल, पी ओ बाक्स 32201
लूसाका, जामबीया
191. 202591 मिस. पूनगोथी आर, एफसीए 01/10/2002
94 कावेटी नायडू लेआउट 3,
सोवरी पलायम पोस्ट, कोयम्बटूर-641028
192. 202651 श्री श्रीनिवास एल आर 01/10/2002
एसीए
डायरेक्टर आफ प्वाइटर लि. फ्रांसीसी आफ
नित लि., 4TH फ्लोर शारून बिल्डिंग,
- 26 सर विलियम न्यूटन स्ट्रीट, पोर्ट ब्ल्यूस,
मोरीसस
192. 202653 श्री कामन ए, एसीए 01/10/2002
ओ-103, मंत्री पेराडाइस,
बम्बेरावा रोड, आराकैरे, बेंगलूर-560076
194. 202711 श्री श्रीनिवासलू बच्चू 01/10/2002
शापि ना 26, दूसरी मंजिल,
ओल्ड न. 384, मिंट स्ट्रीट,
(नियर रंजीथ होटल), चेन्नई-600079
195. 202745 श्री अजय कुमार खन्ना 01/10/2001
एफसीए
29 फेयरी ड्राइव, मारखम,
ऑटारिवो एल3एस 3ए6, कनाडा
196. 202782 मिस. वसुधा वैकटेश, एसीए 8/12/2000
7573 प्रीकपोर्ट रोड, एपीटी 2113,
डरल्लास टी एक्स 75252,
यू एस ए
197. 202798 श्री वैकटारामनन जे., एफसीए 1/10/2002
न्यू न. 26, फ्लैट-4, चारी स्ट्रीट,
टी नगर, चेन्नई-600017
198. 203108 श्री चौकीमठ गुरुकुमार 01/10/2002
गुरुलिंगया, एफसीए
72, फस्ट फेस, फस्ट मेन,
वेस्ट आफ चौई रोड, मंजुनाथ नगर,
बेंगलूर-560010
199. 203164 श्री जयशंकर आर एसीए 08/12/2000
प्लॉट न. 8, मिलेनियम स्ट्रीट, सुदर्शन एवेन्यू,
सरस्वती नगर, सिलाईयूर, चेन्नई-600073
200. 203209 मिस. श्रीविद्या सूर्यनारायणन 01/10/2002
एसीए
के/ओ श्री जी सूर्यनारायणन,
के/ओ आरएसएच (मिडिल ईस्ट) एलएलसी,
पी ओ बाक्स 20764, दुबई, यू ए ई,
201. 203257 श्री गणेश आर, एफसीए 01/10/2002
'ल' 391/6 ग्रीन गार्डन्स, अन्ना नगर,
चेन्नई-600102
202. 203272 श्री रवीन्द्रनाथ रेड्डी के 01/10/2002
एसीए
जी एच-फाइनेंस, हेटेरो लेबस लिमिटेड,
डी न. 8-3-166/7/1, एरागड्डा,
हैदराबाद-500018

203.	203290	श्री रामदास एन, एसीए के-4 'लक्ष्मी', अन्नानगर ईस्ट, चेन्नई-600102	01/10/1998	213.	203801	श्री मोहित काबरा, एसीए फ्लैट न. बी. 61 केन्द्रीय विहार, सैक्टर सुशांत लोक-सैकेण्ड, सैक्टर-56, गुडगांव	01/10/2002
204.	203311	श्री सिवाकुमार बाडीगिनेनी एसीए न. 2489, 2-ए क्रास, 4 TH फेन, हाल 3 RD स्टेज, बीडीए लेआउट, कोनेना अग्रहारा, बेंगलोर-560017	01/10/2002	214.	203842	श्री राघवन के वाई, एसीए 582 16 TH मेन, 10 TH क्रास, पद्मनाभ नगर, बेंगलोर-560070	01/10/2002
205.	203396	श्री शेफीउल्ला सिंगनामाला एसीए प्लॉट न. 2 एण्ड 2 ऐश्वर्या गार्डन, मधुसूदन नगर, मलकाजगिरी, हैदराबाद-500047	08/12/2000	215.	204011	श्री रमेश शानमुखम, एफसीए न्यू न. 54 (ओल्ड न. 41) सोलिअथ्या मुदाली स्ट्रीट, माईलापोर, चेन्नई-600004	01/10/2002
206.	203430	श्री हरिनाथ के, एफसीए 99 फोर्थ क्रास, कोक्स टाउन, जीवनहल्ली, बेंगलोर-560005	01/10/2002	216.	204013	श्री रमेश बाबू सी जी एफसीए न्यू न. 38, फ्लैट-1, गांधी नगर, फोर्थ मेन रोड, अद्वार, चेन्नई-600020	01/10/2002
207.	203488	श्री वर्गेश के कूरुविल्ला एसीए पी ओ बाक्स 55051, दुबई, यू ए ई	01/10/2002	217.	204093	श्री रघू कुमार चंडी, एफसीए 11-3-2, ई-5 प्रियारिविरा अपार्टस., वैट. होस्पिटल रोड, रामाराव पेट, काकीनाडा-533001	01/10/2002
208.	203511	श्री गणपति बी, एसीए पीएमसी XI/228 इल्लाम रोड, पीरूमबावूर-683542	01/10/2002	218.	204139	श्री कुमारबीएनवीएसआरआर एफसीए 7-1-78 फ्लैट न. 401, श्री साई चन्द्रा अपार्टमेन्ट्स, अमेरपेट, हैदराबाद-500016	01/10/2002
209.	203594	श्री बाला सुब्रामण्यन जे एफसीए न. 117/88-बी, एस पी कोइल स्ट्रीट, चिदम्बरम-608001	01/10/2002	219.	204271	श्री बैंकटेल एडीके एसीए न. 439 'इ' रोड फ़ैस सैकेण्ड आईडिबल होम्स बी-ओपरेटिव सोसाईटी, राजा रामेश्वरी नगर, बेंगलोर-560039	01/10/2002
210.	203631	श्री प्रसाद बी बी डी, एसीए 12-13-410 पहली मंजिल, स्ट्रीट न.1, लेन न. 3, टरनाका, हैदराबाद	01/10/2002	220.	204364	श्री जयशमन ए, एफसीए न्यू न. 9, ओल्ड न. 5, सरोजिनी स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नई-600017	01/10/2002
211.	203688	मिस. राजब लक्ष्मी बी एफसीए हाउस न. 24/10 (आईएफएल) ओल्ड राजेन्द्र नगर, न्यू दिल्ली-110060	01/10/2001	221.	204458	श्री चिन्ताप्पा गोडा बी एफसीए न. 19 काबेरीप्पा लेआउट, वर्सा नगर पोस्ट, बेंगलोर-560052	01/10/2002
212.	203731	श्री दक्षिणा मूर्ति गुडा, एसीए 4-47-11, लॉसनस वे कालोनी, विशाखापटनम-530017	01/10/2001				

222. 204466 मिस. जया नयर, एसीए 01/10/2002
101 लेविस मानोर, 14 लेविस रोड,
कोक टाउन, बैंगलोर-560005
223. 204534 श्री सुरेश एम, एसीए 08/12/2000
सीनियर बिजनेस ऑडिटर,
कै/ओ दुबई इंटरनेट सिटी,
पी ओ बाक्स 73000,
दुबई, यू.ए.ई
224. 204551 श्री रवीन्द्र रेड्डी बी 01/10/2002
एफसीए
290, पहली मंजिल,
11TH क्रॉस नियर जनथा होटल,
विल्सन गार्डन, बैंगलोर-560027
225. 204681 मिस. हेमा वेदयानाथन, एसीए 01/10/2001
फाइनैस एडमिनीस्ट्रेटर, इन्टरनेशनल
कस्टमर, लॉयलटी प्रोग्रामर (आईसीएलपी)
पी ओ बाक्स 30555
दुबई, यू.ए.ई
226. 204702 श्री सतीश आर एन, एसीए 01/10/2002
अस्सीट. मैनेजर (सीपीसी),
फाइनैस सेक्शन,
द केरला स्टेट सीविल सपलाईस कॉर्पोरेशन
लि., गौधी नगर, कोच्चि-682020
227. 204816 मिस. डमामाहेश्वरी एम 01/10/2002
एसीए
33 फोर्थ मैन रोड, कस्तूरीबा नगर,
अद्वार, चेन्नई-600020
228. 204848 श्री वसंत एम, एसीए 01/10/2002
सी.मि. मैनेजर-फाइनैस
सत्यम कम्प्यूटर सर्विसिज लि.,
11/2बी बूथे पार्क, सार्चक सेंटर शिवाजी नगर,
पूणे-411005
229. 205013 श्री राजा शैलर एस, एसीए 01/10/2002
3-6-258 पहली मंजिल अबोव फेमस टेलर्स
हिमायत नगर हैदराबाद-500029
230. 205088 मिस. संजू डालमिया 01/10/2002
एफसीए
नं. 777 टी दसाराहल्लि तमकर रोड पेनथा
बैंगलोर-560057
231. 205235 श्री गिरीश आर, एसीए 08/12/2000
इन्दिरा 14, 2ए क्रास 6TH मेन, केएचबी
कालोनी 1 स्टेज बसवेसवरा नगर
बैंगलोर-560079
232. 205583 श्री राम कुमार बी एसीए 01/10/2001
फाइनैस मैनेजर एलरगन सर्विस इन्टरनेशनल
लि० दुबई ब्रांच, एयरपोर्ट फ्री जोन पी.ओ.
बॉक्स 15793 दुबई, यू.ए.ई
233. 205679 मिस. बिंदू जोस, एसीए 01/10/2002
सी/ओ अन्नाहम एण्ड कम्पनी एम्बोरन्स
बिल्डिंग मनोरमा जंक्सन कोर्टेयम-686001
234. 205759 श्री रामा कृष्णा बी बी, एसीए 01/10/2002
नं. 32, 'सुमुखा' 1ST क्रास, 4TH मेन
वेंकाटम्मा रमईया लेआउट एचएमटी मेन रोड
मधिकेरी बैंगलोर-560054
235. 205766 श्री वेंकटेश बी, एसीए 01/10/2001
फाइनैस कंट्रोलर हाइपरमा पीएलसी
लेनटन इंडस्ट्रीयल एस्टेट नोटिंगम एनजी 7
2यूटी यूनाइटेड किंगडम
236. 205823 श्री अजय अग्रवाल, एसीए 01/10/2002
418, दूसरी मंजिल एवेन्यू रोड
बैंगलोर-560002
237. 205851 श्री नागेशवर राव आर.बी, 01/10/2002
एसीए
फाइनैस मैनेजर चैनल टैक्नालाजिस इन्क
(पीटीवाइ) लि० प्लॉट 56, जीआईसीपी,
कगेल पी.ओ. बाक्स 10077
गबोरन बोस्तवाना
238. 205886 मिस नथय्या एन, एसीए 01/10/2002
6/9ए थर्ड क्रास स्ट्रीट न्यू कालोनी
क्रोमपेट चेन्नई-600044
239. 206001 श्री वेंकटा साई प्रसाद कोप्पोलु,
एसीए 01/10/2002
फ्लैट नं. 407 साई निकेतन अपार्टमेंट अपो.
एमवीआर स्कूल एएस राजू नगर केपीएचबी
हैदराबाद-500072
240. 206332 मिस. गौगूतला गीथा, 08/12/2000
एसीए
ग्राउन्ड फ्लोर एमआरएल हाउस पंजागुट्टा
हैदराबाद-500082

241. 206414 श्री सूर्यनारायण शास्त्री के, 01/10/2002
एफसीए
सी/ओ श्री वाइ हनुमंता राव 1-8-1502,
चिक्कदपल्ली हैदराबाद-500020
242. 206573 मिस. अर्चना अय्यर सी, 01/10/2002
एसीए
82 आस्था लक्ष्मी अपार्टमेन्ट्स कोस्टल रोड
बसंत नगर चेन्नई-600090
243. 206596 श्री तिरुपति पी, एसीए 01/10/2002
ए/1 शान्ति फ्लैट्स 1, शिवाजी स्ट्रीट
टी नगर चेन्नई-600017
244. 206602 श्री वीरा राघवन एम, एसीए 01/10/2002
चीफ एकाउन्टेंट यूनीग्राफ इन्टरनेशनल
ट्रेडिंग एलएलसी. पी.ओ. 14051 दुबई
यूएई
245. 206619 श्री श्रीहरि एसपी, एसीए 01/10/2001
न्यू नं. 27, (ओल्ड नं. 26) विश्वनाथपुरम
मेन रोड शक्ति नगर कोडमबक्कम
चेन्नई-600024
246. 206653 श्री श्रीनिवासा शर्मा एवीआर, 01/10/2002
एसीए
म.नं. 1-1-336/69, पहली मंजिल विवेक
नगर चिक्काडा पल्लि हैदराबाद-500020
247. 206661 श्री रामाचन्द्रा के हेगडे, 08/12/2000
एसीए
आइटी आडिट मैनेजर कापोरेट आडिट एण्ड
सिक्वोरिटी डिपार्ट्मेंट पराक्स एअर इन्स.
39 ओल्ड रिजेबरी रोड डंबरी सीटी 06810
यू.एस.ए.
248. 206801 मिस. सरिता ए.यू., एसीए 01/10/2002
नं. 4, 14TH क्रॉस 12TH मेन विल्सन
गार्डन बेंगलूर-560030
249. 206897 श्री वेंकटा सत्यनारायणा अर्कोडी,
एसीए 01/10/2002
12-2-460/19 जीवन कल्याण नगर
मेहदीपट्टनम हैदराबाद
250. 206951 मिस. जयश्री पी.के., एसीए 01/10/2002
21 कैम्प्रीज एन्क्लेव नियर कैम्प्रीज लेआउट
सरस्वतीपुरम अलसूर बेंगलूर-560008
251. 206953 श्री बालाजी जे, एसीए 01/10/2002
चीफ फाइनेंसल आफिसर आसक रेमन्ड जेम्स
एण्ड एसोशिएट्स लि० 254-डी डीआर
ए.बी. रोड वर्ली मुम्बई-400025
252. 206975 श्री वेंकटेश रेड्डी टी, 01/10/2002
एसीए
392 ए, कृष्णा काम्पलेक्स तिलक रोड
तिरुपति-517501
253. 207140 श्री कल्पेश अग्रवाल एच, 08/12/2000
एसीए
46TH, 4TH, क्रॉस रोड ए.के.बी. नगर
वयासर पट्टी, चेन्नई-600039
254. 207187 श्री कन्नन आर बी, एसीए 01/10/2002
असिस्टेंट मैनेजर (एफ एण्ड ए) इन्टरनल
आडिट, विजय स्टील प्लांट, आर.आइ.एन.एल.
विशाखापट्टनम-530032
255. 207291 श्री शिवकुमार के.वी., एसीए 01/10/2002
नं. 610, पहली मंजिल 1ST क्रॉस 4TH मेन
मुथयल नगर, मधिकेरे पोस्ट बेंगलूर-560054
256. 207315 श्री शिवा कुमार ई, एसीए 01/10/2002
मं.नं. 4-1125-9 गायत्री नगर
चित्तूर-517002
257. 207350 श्री वेंकटेश राव ए, एसीए 01/10/2002
268, 6TH क्रॉस 1ST ब्लॉक जयनगर
बेंगलूर-560011
258. 207389 श्री कंचेरला बालाजी, 01/10/2002
एसीए
प्लाट नं. 116 फ्लैट नं. 101 महावीर टावर्स
मोतीनगर हैदराबाद-500018
259. 207450 श्री आनंद सी देशपांडे, 01/10/2001
एसीए
नं. 62, श्री दत्ता कृपा गृहलक्ष्मी कालोनी,
II स्टेज कमलानगर बेंगलूर-560079
260. 207479 मिस. गोसला विजया, 08/12/2000
एसीए
फ्लैट नं. 314, विला हाइट्स स्ट्रीट नं. 1
ब्राह्मण साडी बेगमपेट हैदराबाद
261. 207499 मिस. कल्पना बी, एसीए 01/10/2002
53, 11TH मेन रोड 27TH क्रॉस बीएसके
2ND स्टेज बेंगलूर-560070

262. 207545 श्री शिवारामा कृष्णन एमबी, 01/10/2002
एफसीए
फ्लैट नं. 3 नं. 1 वीरास्वामी स्ट्रीट वैस्ट
मम्बालम चेन्नई-600033
263. 207651 श्री मोहम्मद मोहनुद्दीन अहमद,
एसीए 01/10/2002
यूनिट 203, 263 फार्मसी एवेन्यू स्कारबोरफ
ओटारियो एमआइएल 3ई8 कनाडा
264. 207733 मिस. नीना रोज डेविस, 01/10/2002
मैनेजर फाइनेंस सामन्त सोमा वाइन्स लि०
3, मद्रुल्या सैन्टर 'ए' सेनापति बरात मार्ग,
लौअर पारल मुम्बई-400013
265. 207796 श्री श्रीकान्त आचार्य आर, 01/10/2002
एसीए, फाइनेंस सुपरवाइजर, डारैकटोरेट
आफ इलैक्ट्रोसिटी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग,
इलैक्ट्रोसिटी एण्ड वाटर, पी.ओ. बाक्स 105,
रवि पोस्टल कोड 112 मसकट,
सल्तनत ऑफ ओमान
266. 207873 श्री श्रीनिवासन जै, एसीए 01/10/2001
प्लॉट 42, न्यू एनजीजीओ कालोनी थर्ड
स्ट्रीट आदमबक्कम चेन्नई-600088
267. 207897 श्री रवि किरन कुमार रेड्डी पी
एसीए 01/10/2002
प्लॉट नं. 66, ब्लॉक-ए सेक्टर II अल्कापोर
टाउनशिप पुष्पालागुडा हैदराबाद-500075
268. 207928 श्री रविचन्द्रन एस एस, 01/10/2002
एसीए
रूम नं. 1, दूसरी मंजिल, आर. ए. टावर्स
160, पी.एन. रोड तिरुपुर-641602
269. 207982 श्री वेंकट मनोहर डी, एसीए 01/10/2002
7, 1st क्लास I मेन आर.एम.बी. एक्स. II स्टेज
बैंगलोर-560094
270. 208076 श्री कोप्पाडा सत्यनारायणन, 01/10/2002
एसीए, सीनियर एग्जीक्यूटिव - फाइनेंस एण्ड
अकाउण्ट्स, चैप पेरिफेरलस लि० 312,
हब्बल इन्डस्ट्रियल एरिया, मैसूर-7570016
271. 208108 श्री नवनीता कृष्णन जी, 01/10/2002
एसीए
असिसटेन्ट मैनेजर (फाइनेंस) अरविंद क्लोथिंग
लि०, नं. 12, 4TH क्लास बोनासान्द्रा इन्डस्ट्रि.
एरिया, होसर रोड बैंगलोर-562158
272. 208130 श्री गोरी वेंकटेश्वर राव कौटनी, 01/10/2002
एसीए
फ्लैट नं. 6, अमरुधा कोर्ट 30-8-29, भानू
स्ट्रीट डाबागार्डनस विशाखापट्टनम-530020
273. 208168 श्री मोहन कुमार डी, एसीए 01/10/2002
अकाउण्ट्स ऑफिसर, निको इन्टरनेशनल
पी.ओ. बाक्स नं. 12068 दुबई, यूएई
274. 208222 श्री सतीश कुरपड, एसीए 01/10/2002
नं. 568, 3RD क्लास बीएसके फर्स्ट स्टेज
II ब्लॉक, बैंगलोर-560050
275. 208406 श्री प्रकाश चन्द पी, एसीए 01/10/2001
सी/ओ बोहरा कुंज 269/9 आर जी स्ट्रीट
तीसरी मंजिल, कोयंबटूर-641001
276. 208467 श्री हेमन्त जोशी, एसीए 01/10/2002
सी/ओ एस एस बकरेसा ग्रुप ऑफ कम्पनीज,
पी.ओ. बाक्स नं. 2517, दर-ए-सलाम
तंजानिया
277. 208676 श्री गुरु प्रसाद एम, एसीए 01/10/2002
सी/ओ नेशनल बैंक ऑफ ओमान
पी.ओ. बाक्स 751 रुबि, मसकट
सल्तनत ऑफ ओमान यूएई
278. 208802 मिस. चित्रा वनामाली, एसीए, 1/10/2002
पी.ओ. बाक्स 999 दुबई, यूएई
279. 208831 श्री मिलिंद आर देशमुख, 01/10/2002
एसीए
ए-8, नंद धाम को-ओपी हाउसिंग सोसाइटी
रामचन्द्र नगर, डोमबीवली ईस्ट ठाणे, डिस्ट्रिक्ट
डोमबीवली-421204
280. 209045 श्री राकेश जोशी, एसीए 01/10/2002
683, 29TH मेन बी.टी.एम ले-आउट
बैंगलोर-560076
281. 209144 श्री राजकुमार पी, एसीए 01/10/2002
फ्लैट एस-2, 30 बुरकिट रोड, टी नगर,
चेन्नई-600017
282. 209216 श्री नाथिअप्पन एम, एसीए 01/10/2002
प्राइसवाटर हाउस कूपर्स, 02-05, एसटीओ
ट्रेड सैन्टर, ओरबिड मार्ग
रिपब्लिक ऑफ मालदीवस
283. 209228 श्री बालासुब्रमण्यन आर, 01/10/2002
एसीए
75 धनप्पा, मुडाली स्ट्रीट, मदुरई-625001

284. 209449	श्री श्रीनिवास पी, एसीए 01/10/2002 5/4 दोकनहल्लि गार्डनस अपो. प्लेग्राउण्ड, 13TH मेन इन्दिरा नगर, एच.ए.एल. II स्टेज बैंगलोर-560008	295. 210450	श्री सकारे लाम्बाडे इरेशी राव, 01/10/2002 एसीए 7-1-304/6/17 अदित्य नगर, उदय नगर, बी/एच इएसआई हॉस्पिटल हैदराबाद-500038
285. 209490	मिस. प्रतिभा के, एसीए 01/10/2002 फ्लैट 12, श्रीनिवास अपार्टमेन्ट्स, ओल्ड 40, न्यू 91, II मेन रोड, गांधी नगर, अडयर, चेन्नई-600020	296. 210596	श्री वीराइआह इडारा, एसीए 01/10/2002 प्लॉट नं. 48, दूसरी मंजिल, गायत्री नगर, अमीरपेट, हैदराबाद-500038
286. 209588	श्री गोसला अनंता वेकटा रविकान्त, एसीए 08/12/2000 फ्लैट 314, विला हाइट्स स्ट्रीट नं. 1 ब्राह्मण वाडी, बेगमपेट, हैदराबाद-500016	297. 210617	श्री रंजीत शिवराम, एसीए 01/10/2002 ऑडिटर, डिप्लॉइट एण्ड टच, पी.ओ. बाक्स 1222, दुबई, यूएई
287. 209653	श्री गिरीश पोद्दार, एसीए 01/10/2002 8-5-210/39, शिवा एन्कलेव, हसमतपेट, सिकंदराबाद-500009	298. 210971	श्री कृष्णा किशोर एन, 01/10/2002 एसीए क्रेडिट मैनेजर - कार लोनस आइसीआईसीआई बैंक लि० - आरएपीजी पहली मंजिल, सिप्ला आरकेड, अपो. स्टेला कालेज, गायत्री नगर, विजयवाडा-520008
288. 209669	श्री मनु पाल एचके, एसीए 01/10/2002 फाइनेन्सल अनालेसिस जीई पेसिफिक पीटीई, 240, तंजंग पागर रोड 1000 जीई टावर्स, सिंगापुर-088540	299. 211031	श्री सुनदरेशन के, एसीए 01/10/2002 असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट मैसर्स रेडिंगटन इंडिया लि० 1/11 नुक अपार्टमेन्ट्स, 8 गुरुसादेव रोड, कोलकाता-700019
289. 209721	श्री लक्ष्मी नारायण चडा, 01/10/2002 सी/ओ श्री एम.वी.जे. सोमायाजूलू, डी नं. 9-35-1 पितापुराम कालोनी, विशाखपट्टनम-530003	300. 211097	श्री अंजीरेड्डी के, एसीए 01/10/2002 11-4-650/6/9 एण्ड 10, दूसरी मंजिल, मेहदी बिल्डिंग, लकडीकापुल हैदराबाद-500004
290. 209986	मिस. सत्य गुप्ता कुसुमान्ची, एसीए 01/10/2002 3503, साडुवुड पार्कवे अटलांटा जीए 30339 यू.एस.ए.	301. 211115	श्री रमेश बी, एसीए 01/10/2002 33 आरती अपार्टमेन्ट्स 21 बलराम रोड अडयर चेन्नई-600020
291. 210016	श्री चन्द्रा शेखर रेड्डी जी, 01/10/2002 एसीए फ्लैट नं. 307 सत्य साई अपार्ट्स. मं.नं. 7-1-621/ए/1 श्रीनिवास नगर, (ईस्ट) अमीरपेट, हैदराबाद-500038	302. 211176	श्री जनार्दन गुप्ता एस, 01/10/2002 एसीए रोज पार्क, एफ 3, रानी ब्लॉक 10, 1 क्रास स्ट्रीट, शान्ति नगर, अडमबक्कम, चेन्नई-600088
292. 210080	श्री साजन बाबू सी, एसीए 01/10/2002 1-लाइन मैनेजर, इन्डियन ओवरसिज बैंक, चंगानाचेरी ब्रांच, चंगानाचेरी-686101	303. 211402	मिस. विद्या बैंकट, एसीए 01/10/2002 रूम नं. 314, हॉस्टल ब्लॉकस 11 एमबी बन्नेरघट्टा रोड बैंगलोर-560076
293. 210372	श्री एजाज अहमद एम, 01/10/2002 एसीए न्यू नं. 118 (ओल्ड नं. 50) बंगारू नाइकन स्ट्रीट, माडण्ट रोड, चेन्नई-600002	304. 211415	श्री अय्यप्पन एस यू, एसीए 01/10/2002 पीजी-8 डबल टैंक कालोनी, के के नगर, चेन्नई-600078
294. 210374	श्री सुनील डी सुराना, एसीए 01/10/2002 नं. 8, 4TH क्रास ए.एम. लेन, चिकपेट क्रास, बैंगलोर-560053		

अशोक हल्लिया
(सचिव)

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

3एससीए (4)/3/2003-2004 :- चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 की उपधारा (1) के खण्ड (अ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्था परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों के नाम उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया गया है।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	000523	श्री राघवन नायर कुन्नाथ श्रीसाईलाम कृष्णास्वामी क्रास रोड, कोच्चि-682035	03/10/2002
2.	002379	श्री कृष्णन् मादाबुसी थोदुर 16, 54th स्ट्रीट, ऑफ. नाइनथ एवेन्यू, अशोक नगर, चेन्नई-600083	11/11/2002
3.	002476	श्री वानचिनाथन एस टी कारपाका 97, रॉयापेत्ताह हाई रोड, मायलापोर, चेन्नई-600004	09/09/2002
4.	002727	श्री वैद्ययानाथन आर 421/21 पहली मंजिल, सैकेण्ड मैन 7th क्रास अमरज्योधि नगर, बैंगलोर-560040	03/08/2003
5.	002856	श्री कुनजीकोरा एम वी XL/4604 पहली मंजिल, लक्की स्टार बिल्डिंग, मार्केट रोड, कोच्चि-682035	12/07/2003
6.	003630	श्री गौरीकान्धान जानकीरामा फ्लैट 5सी रामानियाम टॉवर्स, 12 ग्रीनवेयस् रोड, आर ए पुरम, चेन्नई-600028	08/04/2003
7.	003864	श्री धिम्मीचेट्टी एम 38, भाराथी स्ट्रीट, के के नगर, मदुराई-625020	14/02/2003

8.	005061	श्री जॉर्ज पानामपुनाईल जोहन दूसरी मंजिल, सी एस आई कार्मिशियल सेंटर, बार्कर जंक्शन, कोट्टायाम-686001	28/07/2002
9.	005309	श्री दामोदराम नामबुदरी के एस काथिललाई माना, कालेडी-683574	23/06/2003
10.	008422	श्री राघुवीरा राव पी देवी कृपा नियर ब्राह्मस्थान, कर्नाटक, पादुबिदरी-574111	19/04/2003
11.	012790	श्री वेनूगोपाल पी श्री कृष्णा गार्डनस्, सीसीएनबी रोड, अल्मपुझा-688010	19/05/2003
12.	018485	श्री प्रभाकर के श्री रंगाप्पा काम्लेक्स, 13/1 आर वी रोड, नियर मिनर्वा सर्किल, बैंगलोर-560004	31/03/2003
13.	019800	श्री रामास्वामी आर रूम नं. 11, तिसरी मंजिल, 'पारसान ट्रेड प्लाजा' 156 डॉ. नानजाप्पा रोड, कोयम्बटूर-641018	26/05/2003
14.	022422	श्री शांतिलाल सुखाराज कोठारी विनय चैम्बर्स, विनोबा रोड, सुभाष नगर, मंडया-571401	07/07/2003
15.	023040	श्री किशोर कुमार के ए सी सी नं. XVI/1337, कोचुपाल्ली रोड, थोप्पुमपाडे, कोच्चि-682005	13/06/2003
16.	023648	श्री निलाजगी अशोक बाबूराव 1887, बुरुड गाल्ली, बेलगांव-590002	18/04/2003
17.	027652	श्री श्रीनिवासन के पहली मंजिल, न्यू नं. 5, जीवारातनाम नगर, अदयार, चेन्नई-600020	11/06/2003
18.	027717	श्री अनंथा सुब्रामण्यम जी रागाश्री, 692, 5th मैन, 6th क्रास, हनुमथनगर, बैंगलोर-560019	18/06/2003

अशोक हस्त्रिया
(सचिव)

(चार्टर्ड एकाईजिड्स)


3एससीए (8)/1/2003-2004 :- चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10(1) खण्ड (सीई) के अनुसार में एरोड द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्थाओं को जारी किये गये प्रविटस प्रमाण-पत्र उनके आगे दी गई तिथिओं से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रविटस प्रमाण पत्र की रखने के इच्छुक नहीं हैं।

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	004808	श्री कुलायू बी, एसीए 12 राजा स्ट्रीट, सुब्रामण्यपुरम, मदुराई-625011	01/04/2003
2.	004861	श्री बालासुब्रह्मण्यम मेक्क अम्बादी एफसीए 'अम्बादी', नं. 16, फर्स्ट क्लास स्ट्रीट, रामलिंगम नगर, के के पुदुर, कोयम्बटूर-641038	01/04/2003
3.	005160	श्री गुरुराजन सी बी, एफसीए 624, 22nd मैन, IV 'T' ब्लॉक, जयानगर बैंगलोर-560011	01/04/2003
4.	005468	श्री देशमुख शिवराम बिरबनाथ एफसीए बी-1, ब्रह्मा अपार्टमेंट्स, बेलब रोड, बेलगांव-590001	31/03/2003
5.	005937	श्री बालारामन एस, एफसीए नं. 30, 4th मैन, 5th क्लास, गिरीनगर I फेज, बैंगलोर-560085	01/04/2003
6.	006315	श्री रामदास बी, एसीए भारानी, 969, 22nd मैन IV T ब्लॉक, जयानगर, बैंगलोर-560041	31/03/2003
7.	023921	श्री जोहन जोसफ निरेयेथ, एफसीए 2-ए, हेडन मानोर, 12 ईंगल स्ट्रीट, लेनफोर्ड टाऊन, बैंगलोर-560025	31/03/2003
8.	024936	श्री सुन्दराराजन आर, एफसीए न्यू नं. 6, (ओल्ड नं. 15), तिलक स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नई-600017	01/04/2003
9.	027708	मिस शशीकला श्रीकांत, एसीए 'पारबाथी', 12 राजा स्ट्रीट, बीजीपी गौलडन बीच साऊथ पार्ड-1 शोशिनगामाल्लूर, चेन्नई-600119	31/03/2003

10.	027821	श्री रामाकुम्मा यू, एसीए को/ऑफ एंस एण्ड : इनफोटेक लिमिटेड पहली मंजिल, काइबर टॉवर्स, माधापुर, हैदराबाद-500081	31/03/2003
11.	028982	श्री नरेन्द्र कुमार एस, एफसीए नं. 2, 4th क्लास, बालिमथा नगर, बैंगलोर-560052	12/06/2003
12.	029821	श्री कुमार के, एफसीए फ्लैट नं. 203 हर्मा अपार्टमेंट्स, प्लॉट नं. 38.39, स्नेह कालोनी, चिक्कालासांद्रा, बैंगलोर-560061	01/04/2003
13.	029697	श्री जगन्नाथन के, एफसीए अनरल मैनेजर (एफ एण्ड ए) कुर्वैलेधरा (एमआईजी) लि., कोएम 16 पी/एच, अन्ना एक्सप्रेसवे, पी/एच नाइजीरिया	31/03/2003
14.	039860	श्री संजय चैत्रा शैलरा राव, एसीए फ्लैट नं. 205 सुम्बीनी रॉक कौंसल, 8.2.411, रोड नं. 6, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034	01/03/2003
15.	045322	मिस सीथालक्ष्मी जगन्नाथन, एसीए बी/4, चम्पाका, 14 लायड फर्स्ट लेन रोयापेटाह, चेन्नई-600014	31/03/2003
16.	055707	श्री संतोष कुमार सराफ, एफसीए को/ऑफ श्री महादेव रेड्डी ए, 22/12 7th मैन पहली मंजिल, 46th क्लास 4th ब्लॉक राजाजीनगर, बैंगलोर-560010	31/03/2003
17.	091096	मिस बृन्दा बी, एसीए फ्लैट नं. एच-10, अलाक्रिटी अशियाना अपार्ट्स, बीनस कालोनी 2nd स्ट्रीट, अलवरपेट, चेन्नई-600018	31/03/2003
18.	091806	श्री रामानाथन एस बी, एसीए एम एफ 21/11, 'यू' ब्लॉक, नादिनी लैआऊट, बैंगलोर-560096	01/04/2003
19.	094680	श्री कृष्णाकुमार एस, एसीए हाऊस 13 फेज III बुड क्रीक काऊंटी, गानापथयपुरम (एक्स.), नानन्दाम्बाक्काम, चेन्नई-600016	01/04/2003
20.	101704	श्री उत्तम कुमार सी, एसीए 20 मीनाक्षी कोइल स्ट्रीट, मदुराई-625001	01/04/2003
21.	200555	श्री विवेक एस, एफसीए फाइनैस मैनेजर-इंडिया ऑपरेशनल् फ्लेमिंगो (बीएफएस) प्रा. लि., टीसी 34/143, ऑपोजिट त्रिवेनदरम, इंटरनेशनल एअरपोर्ट, पित्ताह विलेज शानगु मुघोम, थिरुवानाथापुरम-695008	31/03/2003

22. 202473 श्री साई सुब्रह्मण्यम एस वी 01/04/2003
एफसी
प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, प्लॉट नं. 50371,
फेयरफाउन्ड ऑफिस पार्क, पी वी नं. 294, गाबरीगे,
बोतसवाना
23. 202641 श्री रामेशा, एसीए 31/03/2003
नं. 11, पहली मंजिल, IV मैन, रत्नकरनगर
मैन रोड, श्रीकान्देशकरनगर, बेंगलूर-560004
24. 202884 श्री सधयान एल, एसीए 01/04/2003
मैनेजर, फार्मैस एण्ड ड्रग्स डिपार्टमेंट,
बाहरीन कोमबेनशन एण्ड एक्जिजिशन ब्यूरो,
पी ओ बॉक्स 11844, मॉन्मा, बहरीन
25. 203519 श्री श्रीकृष्ण सायबानन एस 31/03/2003
एसीए
पैरीयक्तामुपालायाम, कन्नडकुल्लिपुर बाय पानरुती
तालुक, बालसालार डिस्ट्रि.,
केरळ, पी ओ-607103
26. 204734 श्री नारायण एल, एसीए 01/04/2003
अस्सिस्टेंट मैनेजर-अडिटर,
साउथ भवन ऑटोमोटिव एलएलसी,
पी ओ बॉक्स 3168, कबी पोस्टल कोड 112,
सल्लनत ऑफ ओमान
27. 205067 मिस वासुंधरी आर, एसीए 31/03/2003
न्यू नं. 9, (ओल्ड नं. 4),
मुनीराधनम स्ट्रीट, अण्णाबु नायडू कालोनी,
अमीनजाकाराय, चेन्नई-600029
28. 205137 श्री जगदीश के, एसीए 31/03/2003
16/2, (ओल्ड नं. 65/1), टीचर्स कालोनी, अदवार,
चेन्नई-600020
29. 205716 श्री राजेश के पी, एसीपी 01/04/2003
अस्सिस्टेंट मैनेजर-फार्मैस-मालाबार, सिमेंट लि.,
वालापार पी ओ, पालाक्काड-678624
30. 206389 श्री विजय कीनी के, एसीए 01/04/2003
प्लॉट नं. 2सी, मेक्लावर्स लक्ष्मी अफार्टमेंट्स,
63, सुलतानपालया मैन रोड, आर टी नगर,
बेंगलूर-560032
31. 207621 श्री उत्तम धीरज पी, एसीए 01/04/2003
प्रोवाइजर मैनेजर, द साऊथ इंडियन बैंक लि.
कोरला, श्रीस्वर
32. 208576 श्री सुब्रह्मण्यम के, एसीए 31/03/2003
न्यू नं. 76, (ओल्ड नं. 64-ए), स्टेट बैंक कालोनी
एक्स, नाभगमाल्लूर, चेन्नई-600061
33. 208967 श्री काकेशा साई के एस वी 01/04/2003
एसीए
एकाकंट ऑफिसर, जिवल थरमल पावर कम्पनी
लि., पोस्ट बॉक्स नं. 9, विलेज एण्ड पी ओ
तारामाल्लू कीटी, बेरसारी, तारामाल्लू
34. 208974 श्री सूर्यानारायण जी, एसीए 31/03/2003
न्यू नं. 27 (ओल्ड नं. 12), काल्लुकाराम स्ट्रीट,
माहलापोर, चेन्नई-600004
35. 209391 श्री प्रवीण कानुमुरी, एसीए 01/04/2003
न्यू नं. 29 सुज चर्च रोड, (ओल्ड नं. 13/2),
माहलापोर, चेन्नई-600004
36. 209586 श्री रामाकृष्ण जी, एसीए 31/03/2003
बी-10, दूसरी मंजिल, 10th स्ट्रीट पैरियार नगर,
चेन्नई-600082
37. 209673 श्री स्वामीनाथन जी, एसीए 31/03/2003
59, वृंदावन स्ट्रीट एक्सटेंशन, वेस्ट मम्बालाम,
चेन्नई-600033
38. 210364 श्री नागाराजन एस, एसीए 01/04/2003
3/366, देवनाई इस्लाम, सुबाशिनी नगर, सुरवेयार
कालोनी, के पुदुर, मदुराई-625007
39. 210467 श्री जायारामन एस, एसीए 01/04/2003
ए2, सत्य साई अपार्ट्स, प्लॉट 309/310,
थर्ड फेज कामालापुरी कालोनी,
सिकन्दराबाद-500073
40. 210796 मिस आशा डी, एसीए 17/03/2003
के/ऑफ मैसर्स एस वी बिलामोरिया,
डेलीवर्ड हाऊस, 70/3, मिल्लेर रोड,
बेंगलूर-560050
41. 211429 श्री सतीश सुकुमार बिप्पलाकाट्टी 31/03/2003
एसीए
के/ऑफ ओराक्ल इंडिया लि.,
150 इनफैंटरी रोड, बेंगलूर-560001
42. 211550 श्री दीपक नाइकबाडी एस, एसीए 01/04/2003
के/ऑफ के एन शंकर नारायण,
नं. जी 15/5 कौमपान्ना स्ट्रीट, सुशीला रोड,
खोदा माबाल्ली, बेंगलूर-560004
43. 211717 श्री प्रसाद गानजी, एसीए 01/04/2003
8-5-1, कारयामपुदीवारी स्ट्रीट,
प्राकाशम डिस्ट्रिक्ट बिराला माधवलाम,
पेराला-523157
44. 211737 श्री नागार्जुन पीतलुरी, एसीए 31/03/2003
सीनियर सोफ्टवेयर इंजिनियर,
आईटी सोल्यूशन (इंडिया) प्रा. लि., तीसरी मंजिल,
विलिंगटन क्रोसेन्ड, 6 पाइक्लापट्स गार्डन रोड,
चेन्नई-600006
45. 211902 श्री सिवाजी सासीधरान, एसीए 31/03/2003
सीभाग्या, स्टर्लिंग एस्टेट, कुमारामासान रोड,
कोच्चि-682017
46. 211907 श्री श्रीनिवासन के सी, एसीए 05/03/2003
न्यू नं. 4/12, सेक्रेण्ड स्ट्रीट, तानसी नगर,
वेल्लोरी, चेन्नई-600042

47. 211953	श्री उदय भास्कार एन, एसीए ऑफ़ो. एसबीएच श्री गणेश नर्सिंग होम, खम्माम डिस्ट्रि., पालोनचा-5Q7115	31/03/2003	50. 212040	मिस रमया एस, एसीए 18/डी श्री अपार्टमेंट्स, 7th मैन रोड, आन ए पुरम, चेन्नई-600028	01/04/2003
48. 211985	श्री मोहम्मद उमर एम, एसीए नं. 1-सी, विशालक्षीपुरम, गोकुल नगर, मदुराई-625014	01/04/2003	51. 212226	श्री संजया कुमार पारिदा, एसीए न्यू नं. 170 (ओल्ड नं. 64-डी), सिवान कोइल साऊथ स्ट्रीट, कोदाम्बाक्काम, चेन्नई-600024	31/03/2003
49. 212013	श्री वासुकी एच एस, एसीए नं. 21, थर्ड क्रास, सेंट्रल एक्साइज लेआउट, विजयानगर, बैंगलोर-560040	31/03/2003	52. 212247	श्री वामशिधर जी, एसीए 8वीं मंजिल, डीबीएस वेस्टमिनिस्टर बिल्डिंग, 108 आर के सलाई, चेन्नई-600004	14/01/2003
			53. 212637	श्री प्रसाद चाई बी एस, एसीए 202 किंगस् रेजीडेंसी, ऑफो. सत्या साई निगमा गामास, प्लॉट नं. 9, श्रीनगर कालोनी, हैदराबाद-500073	31/03/2003


अशोक हन्दिआ
(सचिव)

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

3एससीए (8)/2/2003-2004 :- चार्टर्ड प्राप्ति लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10(1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये गये प्रविटस प्रमाण-पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रविटस प्रमाण पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं।

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	002076	श्री सुब्रामणियम एन एस, एफसीए 1ए, श्रेयास उच्चतमा, 32, चिक्वेनगादाम स्ट्रीट, आर ए पुरम, चेन्नई-600028	01/04/2003
2.	002659	श्री कोचुन्नी मेनन ए, एफसीए अभिलाष अम्बाडे, पुनिथुरा पोस्ट, त्रिपुनिथुरा, कोच्चि-682317	01/04/2003
3.	005946	श्री बाकुलचंद्रा हीराचन्द शाह एफसीए एफ/2, प्रीमियर अपार्टमेंट्स, पहली मंजिल, चर्च रोड, नियर तिप्पासांद्रा मार्केट, बेंगलोर-560075	01/04/2003
4.	009235	श्री गोविन्द राघवन, एसीए न्यू नं. 40, (ओल्ड नं. 60), हाल्स रोड, किलपाक, चेन्नई-600010	01/04/2003
5.	017110	मिस रूबी आर कामादिन, एसीए 72, कुन्नीघाम अपार्टमेंट्स, 5 एडवर्ड रोड, बेंगलोर-560052	11/06/2003
6.	018557	श्री बारी शेख अब्दुल, एफसीए खालिद बिल्डिंग, अबुधा कालोनी, बीडीसीसी बैंक लेआउट, मृत्युञ्जयनगर, होसपेट-583202	01/04/2003
7.	018996	श्री पालोज बी जे, एफसीए 5054, पोन्नी कालोनी, अन्ना नगर, चेन्नई-600040	05/08/2003
8.	019762	श्री वेंकटेशन एन, एसीए फ्लैट नं. 302, ए-2, संकर कालोनी, पी एल लोखण्डे मार्ग, शिवाजी नगर, मुम्बई-400043	31/07/2003
9.	024190	श्री प्रकाश के एस, एफसीए 'सूर्या किरन' 36/2317, कालूर कादाबानथारा रोड, कालूर, कोच्चि-682017	01/07/2003

10.	025206	श्री वेंकटा सिवाकुमार एन, एफसीए 897, 9th ए क्रास, वेस्ट ऑफ चोरड रोड, II स्टेज, बेंगलोर-560086	05/06/2003
11.	025691	श्री कृष्ण एन, एफसीए 14, मुरोयज गेट रोड, अलवरपेट, चेन्नई-600018	18/06/2003
12.	027231	श्री जायाराम एस, एफसीए 31/16, थर्ड मैन रोड, व्यालिकावाल, बेंगलोर-560003	01/04/2003
13.	027645	श्री बाबूबाय्य राव, एफसीए डिप्टी जनरल मैनेजर, इंटरनल ऑडिट, मैसर्स जुझारी सिमेंट लिमिटेड, #1, 10th मैन हाल थर्ड स्टेज, बेंगलोर	01/04/2003
14.	028384	श्री प्रभाकर बी, एफसीए 8ए, काताबोम्मान क्रास स्ट्रीट, राधानगर, कोयंबटूर, चेन्नई-600044	14/06/2003
15.	029017	श्री रविन्द्रा नाथ आर, एसीए न्यू नं. 22 (ओल्ड नं. 59), मेयर बिट्टी बाबू स्ट्रीट, ट्रीपलिकेन, चेन्नई-600005	01/05/2003
16.	029832	श्री माम्मेन सेम्युअल, एफसीए फाइनेंसियल कंट्रोलर, नेफिया (मिडिल ईस्ट), पी ओ बाक्स 61034, दुबई, यू ए ई	18/05/2003
17.	032280	श्री कालयानासुंदरराम आर, एसीए ए-1/फ्लैट 203, लोक गौरव, एल बी एस मार्ग, विखारोली वेस्ट, मुम्बई-400083	23/06/2003
18.	053958	श्री सिन्हा सुभानकर, एफसीए प्राइस वाटरहाऊस एण्ड कं., मिताल टावर, चौदहवीं मंजिल, 'बी विंग', 47/6, एम जी रोड, बेंगलोर-560001	18/06/2003
19.	055195	श्री राय चौधरी इंद्रानील, एफसीए 18/40, दोब्ले लेन, पहली मंजिल, कोलकाता-700029	20/06/2003
20.	060717	श्री जोष दास्तीदार सुभाषराता एसीए पी ओ बाक्स 3075, रूबी, पी सी 112, सुईट्स 205-210, मस्केट, सल्लनेत ऑफ ओमान	16/07/2003
21.	081027	श्री मेहरा विवेक, एफसीए के/ऑफ प्राइसवाटरहाऊस कोपर्स प्रा. लि., सुचेता भवन, दूसरी मंजिल, 11-ए, विष्णु दिगम्बर मार्ग, न्यू दिल्ली-110002	05/06/2003
22.	086929	श्री सुब्रामणियमन आर, एफसीए फ्लैट # 9, लक्ष्मी अपार्टमेंट्स, न्यू # 86 वारैन रोड, माइलापोर, चेन्नई-600004	05/08/2003

23.	097696	मिस गायत्री ए. एसीए 01/04/2003 6-1-132/135, स्वामिदागिरी, पद्मा राव नगर, सिकन्दाराबाद-500061	37.	205963	श्री मैथ्यूस् वारुगीस, एसीए 10/05/2003 थेक्केपाराम्माईल, तिरुवाल्ला, कोरला, वाल्लामकुलाम पी ओ-689541
24.	105294	मिसेव वीरु खर्च मनोहार, एसीए 31/03/2003 के/ऑफ जायाम बी वानिकेर, जय बिहार, हॉस्पिटल रोड, कोच्ची-682011	38.	207257	श्री प्रवीण कुमार टी, एसीए 30/06/2003 712, आनन्द नगर, न्यू मालाक्केट, आंध्रप्रदेश, हैदराबाद-500036
25.	107358	मिस अर्चना लक्ष्मी बी ए, एसीए 31/03/2003 फाइनल ऑफिसर, एयर क्राफ्ट डिवाजन, विंस्टोन एरोनोटिक्स लि., विमानपुरा फ्लैट पी ओ बॉक्स नं. 1788, बैंगलूर-560017	39.	207622	श्री वाराह कुमार डी एस, एसीए 01/04/2003 33, बाराधी नगर, II स्ट्रीट, मादुरावोडल, चेन्नई-600095
26.	200551	श्री जयकुमार एस, एसीए 30/05/2003 #50, एनएच1, बालसाल ग्रामजीआर सलाई, कानचीपुरम, डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, माराईमलार्नगर-603209	40.	207772	श्री पाताभी श्रीनिवासन्, एसीए 23/07/2003 282/4, संगम अपार्टमेंट्स, वेल्ली एरिया, अन्ना नगर (वेस्ट), चेन्नई-600040
27.	201597	श्री श्रीधर एस, एसीए 01/04/2003 26/2, अजीब नगर, मेन रोड, कोड्यम्बाक्कल, चेन्नई-600024	41.	207901	मिस शिल्पा लाखानी, एसीए 01/04/2003 जवा काम्लेक्स, 12 बालाजी नगर, फर्स्ट स्ट्रीट रोयापेट्टाह, चेन्नई-600014
28.	201700	मिस मैथिली पी, एसीए 16/07/2003 नं. ए-104, वेरीयार नगर, 70 फीट रोड, चेन्नई-600082	42.	207902	मिस ममता सेनियु, एसीए 01/04/2003 पी बी नं. 710, मातामा, बहरीन
29.	201992	श्री रामाकृष्णानन्दम टी, एसीए 22/07/2003 प्लॉट 77, 5610, मेट्रोविडिपी रोड, मिस्सीसाडगा, ओन्डारियो, कानाडा-एल5एन 2एन9	43.	208270	श्री सुरेश नायक यू, एसीए 01/04/2003 'पद्मा निवास', गियर ओल्ड बस स्टैंड, दाक्षिणा कान्नाडा, उप्पीनामगाडे-574241
30.	202036	श्री उमा चन्द्रा सेखर बी, एसीए 31/12/2002 फ्लैट नं. 3, रचना, प्लॉट नं. 31, सेक्टर 12, बारी, नवी मुम्बई-400703	44.	208603	श्री वेंकटाचेलाम एन, एसीए 02/05/2002 (नं.8), न्यू नं. 5, महालक्ष्मी ऐक्क्यू, धिरुवानमियूर, चेन्नई-600041
31.	202777	श्री सिबाकुमार एस, एसीए 01/04/2003 फ्लैट 14, कापालेस्वार अपार्टमेंट्स, 10 गांधी नगर, III मैम रोड, अद्वार चेन्नई-600020	45.	208628	श्री सोमाभाषण के, एसीए 01/03/2003 कुलवाथ हाऊस, नानदीपुलाम, पीओ, कोरला, धरिस्सूर-680319
32.	202973	मिस कलाधानी आर, एसीए 01/04/2003 फ्लैट 14, कापालेस्वार अपार्टमेंट्स, 10 गांधी नगर थर्ड मैम रोड, अद्वार, चेन्नई-600020	46.	208756	श्री साजान अलेक्स मैथ्यू, एसीए 01/04/2003 टी सी 48/45, कार्लूवेल्लामकुर्गिल, अस्वाधी गार्डन्स, अम्बालाथारा, धिरुवानामथापुरम-695026
33.	204324	श्री आनन्द एस, एसीए 01/04/2003 6, सैकेण्ड स्ट्रीट, जगदम्बाल कालोनी, रोयापेट्टाह, चेन्नई-600014	47.	209503	श्री संदीप पाई बी एच बी, एसीए 30/08/2003 तिलक पार्क रोड, बिजयापुरा, चिकमंगलूर-577101
34.	204410	श्री अनिरु कुमार सिंघाल, एसीए 16/08/2003 नं. 10, (ओल्ड नं. 144), पहली मंजिल, साऊथ पार्क रोड, ऑपोजिट सेशाश्रीपुरम कालेज, नेहरूनगर, बैंगलूर-560020	48.	209773	मिस अलजीनसा धीमस, एसीए 01/04/2003 चेथिमालीम हाऊस, कोट्टायाम डिस्ट्रि., थोलाकाड, पी ओ-686539
35.	204533	श्री श्रीनिवासन जी, एसीए 04/07/2003 न्यू नं. 8, ओल्ड नं. 13, जगदम्बाल कालोनी, I स्ट्रीट, रोयापेट्टाह, चेन्नई-600014	49.	209943	मिस पारुलबी कामाडे, एसीए 31/03/2003 मोबाल मिलेनियम अपार्टमेंट्स, 3-4-835/1, बारकटपुरा, हैदराबाद-500027
36.	205072	श्री कृष्णन् एस, एसीए 01/04/2003 ब्लॉक 'डी', 8 के बिबल पाम गार्डन्स, न्यू नं. 383, (ओल्ड नं. 37 ई) वेल्लाचेरी ताम्बाराम रोड, वेल्लाचेरी, चेन्नई-600042	50.	210195	श्री श्रीपाल सेतिया, एसीए 01/04/2003 पी बी नं. 710, मातामा, बहरीन
			51.	210355	श्री सूर्यानारायणन् मूर्ध्नि मुला, एसीए 01/04/2003 एफ-103, श्री शिवा साई, जगन्नाथ अपार्टमेंट्स, विष्णुपुरी एक्सटेंशन कालोनी, मालाकागिरी, हैदराबाद-500047

52.	210574	श्री प्रशांत एम, एसीए पी बी नं. 23291, हुबई, यू.ए.ई.	01/04/2003	59.	211977	श्री कुशी लक्ष्मी चेंकटा सुधीर एसीए सीनियर एक्जिक्यूटिव (इंटरनल ऑडिट), के/ऑफ ए एक एल प्रा. लि., नं. 1 जी एस टी रोड अलानपुर, चेन्नई-600016	02/06/2003
53.	210735	मिस लताबाया जी, एसीए डी-76, मैजिस्टीक पार्क, 48, ओफ अरकोट रोड, सालाईग्राम, चेन्नई-600093	01/04/2003	60.	212052	श्री हरीश जी, एसीए 52/1677-ए, बक्रील न्यू स्ट्रीट, मडुराई-625001	01/04/2003
54.	210765	श्री स्टालिन के, एसीए 1139, सेक्रेण्ड मैन रोड, पोम्पुगार नगर, कोलाथूर, चेन्नई-600099	05/03/2003	61.	212246	श्री प्रवीण जी, एसीए फ्लैट नं. 4, श्रीही अपार्टमेंट्स, 40/48, सोलाईअप्पा स्ट्रीट, माइलापोर, चेन्नई-600004	01/07/2003
55.	211543	मिस वसुधा एस, एसीए 22-ए, फर्स्ट साऊथ स्ट्रीट, कौन्डी स्क्वायर, सेमथियम, चेन्नई-600011	31/03/2003	62.	212686	श्री निवेश कुमार शाह, एसीए बी-24, बी बी सी पूर्णिमा अपार्टमेंट्स, 962, पुनामलाई हाई रोड, चेन्नई-600084	07/07/2003
56.	211710	श्री हरी कृष्णा पी, एसीए ए-59, रेल्वे क्वार्टर, कचेरुडा, हैदराबाद-500027	01/06/2003	63.	212755	श्री अनिरुद्ध अनिल, फाउन्डेशन एसीए प्लॉट नं. 54, प्रसान्ना कालोनी, बासावेशवर नगर, गोकुल रोड, हुबली-580030	10/08/2003
57.	211918	श्री रेनिश के आर, एसीए "निर्मलायम", ओबादुम्मा, ओलावान्ना पी ओ, कोजीकोडे-673025	11/05/2003	64.	212972	मिस विनया नायक के, एसीए नं. 29, 'श्री', फर्स्ट क्रास रोड, माल्लैस्वाराम, बैंगलोर-560003	01/04/2003
58.	211959	मिस नन्दनी आर, एसीए नं. 12/44, अलागाप्पा नगर, मानजाकुप्पाम, कुड्डालूर-607001	01/04/2003				

अशोक हस्तिना
(सचिव)

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF GOVERNMENT & BANK ACCOUNTS
CENTRAL DEBT DIVISION
Mumbai, the 10th July 2004

In pursuance of Rule 18 of the Public Debt Rules, 1946 made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April 1946 [as amended under the Notification No. F(8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in Extra Ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990], the following list of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended May 2004 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai-400008.

The list has been divided into two parts, List "A" being securities now advertised for the first time and List "B" being the list of securities previously advertised.

List "A"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
NEW DELHI CIRCLE 10% Relief Bond 1995					
DH-001740 GP (C)	Rs. 4,50,000/-	Sanjay Khurana and Mesta Khurana	GP being Cumulative no interest due	Anuj Khurana	PDO/DT/LN. 1/2004 dated 5th May 2004
KOLKATA CIRCLE 5 1/2% Bank (Acquisition & Transfer Compensation Bond 1999)					
CA-005093 (GP.NC)	Rs. 5,000/-	UCO Bank	Half yearly interest paid upto 18.01.96. (53rd instalment)	UCO Bank	File No. I-2552 General Manager's Order dated 10.6.2004 (LCO. No. 182/03-04 dated 11.06.2004)
Byculla, Mumbai Circle 10% Relief Bond 1995					
BC-3210 (GPM)	Rs. 2,50,000/-	Jagdish Dwarkadas Lalwani Neetu Jagdish Lalwani (either or survivor)	26.5.1998	Jagdish Dwarkadas Lalwani Neetu Jagdish Lalwani (either or survivor)	06.25.72 20/5/03
List "B"					
Byculla Mumbai Circle 9% Relief Bond 1999 (D)					
BCN 007664 (GPH)	Rs. 25,000/-	Kali Burjorji Mahla Freny Kali Mehta (Deceased)	07.09.1999	Kali Burjorji Mehta Freny Kali Mehta (Deceased)	06.25.63 30.7.2002
BCN 007667 (GPH)	Rs. 25,000/-	Freny Kali Mehta (Deceased) Kali Burjorji Mehta	07.09.1999	Freny Kali Mehta (Deceased) Kali Burjorji Mehta	-do-
Kolkata Circle 10% Relief Bond 1995(NC)					
CA 13037	Rs. 2,08,000/-	1. Chanchal Kumar Choudhury 2. Dipali Choudhury 3. Binoy Choudhury	Non-cumulative	1. Chanchal Kumar Choudhury 2. Dipali Choudhury 3. Binoy Choudhury	File No. I-2554 General Manager's Order dated 03.03.2004 (Dy. No. LCO-126/03-04 dt. 03.03.2004)

9% Relief Bond 1999

CAN 001006	Rs. 42,000/-	1. Chanchal Kumar Choudhury 2. Dipali Chudhury	Non-cumulative	1. Chanchal Kumar Choudhury 2. Dipali Chudhury	File No. I-2554 General Manager's Order dated 03.03.2004 (Dy. No. LCO-126/03-04 dated 03.03.2004)
CAN. 003590	Rs. 40,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-

Kolkata Circle
10% Relief Bond 1995 (NC)

CA 13032	Rs. 62,000/-	1. Dipali Choudhury 2. Chanchal Kumar Choudhury 3. Binoy Choudhury	Non-cumulative	1. Dipali Choudhury 2. Chanchal Kumar Choudhury 3. Binoy Choudhury	File No. I-2553 General Manager's Order dated 03.03.2004 (Dy. No. LCO-127/03-04 dt. 03.03.2004)
----------	--------------	--	----------------	--	--

9 % Relief Bond 1999

CAN 005751	Rs. 50,000/-	1. Dipali Choudhury 2. Chanchal Kumar Choudhury 3. Binoy Choudhury	Non-cumulative	1. Dipali Choudhury 2. Chanchal Kumar Choudhury 3. Binoy Choudhury	File No. I-2553 General Manager's Order dated 03.03.2004 (Dy. No. LCO-127/03-04 dt. 03.03.2004)
CAN. 005527	Rs. 1,40,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-

Kanpur Circle
10% Relief Bonds 1993 (GP. Cum)

KN-000071	Rs. 1,00,000/-	Ramesh Chander Bhatia and Saroj Bhatia	-	Ramesh Chander Bhatia and Saroj Bhatia	DGM's Order dated 30.4.2004 (Dy. No. IR- 2450/80 dated 1st May 2004)
-----------	----------------	--	---	--	---

10% Relief Bonds 1993 (GP. Cum)

KN-0001065	Rs. 10,00,000/-	Neelam Misra	-	Neelam Misra	GM's Order dated 10th May 2004 (Dy. No. IR-2488/80 dated 10.5.2004)
KN-0001066	Rs. 10,00,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-

Kanpur Circle
10% Relief Bonds 1995 (GP. Cum)

KN-0001137	Rs. 10,00,000/-	Neelam Misra and Sanjeev Misra	-	Neelam Misra and Sanjeev Misra	GM's Order dated 10th May 2004 (Dy. No. IR-2488/80 dated 10.5.2004)
KN-0001384	Rs. 9,00,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-
KN-0001067	Rs. 10,00,000/-	-Malti Misra	-	Malti Misra	-do-
KN-0001068	Rs. 10,00,000/-	--do-	-	-da-	-da-
KN-0001136	Rs. 20,00,000/-	Malti Misra and Sanjeev Misra	-	Malti Misra and Sanjeev Misra	-do-
KN-0001244	Rs. 6,00,000/-	--do-	-	-do-	-do-

A.S. MOHINANI
Asstt. Manager

BANK OF MAHARASHTRA
CENTRAL OFFICE, PUNE-5

Chairman and Managing Director

Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations 2004

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Bank of Maharashtra after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby adopts the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations 2004

CHAPTER – I

INTRODUCTORY

1. **Short title and commencement -**
 - (i) These regulations may be called the **Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations 2004**.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions – In these regulations, unless there is anything repugnant to the subject or context or meaning thereof -**
 - (a) “**Act**” means the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
 - (b) “**Bank**” means Bank of Maharashtra constituted under Section 3 of the Act’
 - (c) “**Board**” means the Board of Directors constituted under Section 9 of the Act;
 - (d) “**Chairman**” means the Chairman of the Board’
 - (e) “**Committee**” means a Committee constituted under regulation “2A”
 - (f) “**Executive Director**” means the whole time Director, not being the Managing Director;
 - (g) “**General Manager**” means General Manager of the Bank;
 - (h) “**Management Committee**” means a Committee constituted under Clause 13 of the Scheme;
 - (i) “**Managing Director**” means Managing Director of the Bank;
 - (j) “**Register**” means the register of Shareholders kept in one or more books of the Bank and includes the register of Shareholders kept in computer floppies or diskettes under sub-section (2G) of Section 3 of the Act; and register of beneficial owners maintained by and depository under section 11 of the Depository Act 1996 (22 of 1996);
 - (k) “**Registrar**” means the person appointed by the Bank for –
 - (i) Collecting applications from investors in respect of an issue,
 - (ii) Keeping a proper record of applications and monies received from investors or paid to the seller of the securities,
 - (iii) Assisting the Bank in –

- (a) Determining the basis of allotment of securities in consultation with the stock exchange,
 - (b) Finalising the list of persons entitled to allotment of securities,
 - (c) Processing and despatching allotment letters, refund orders or certificates and other related documents in respect of the issue, and
 - (iv) Such other function as assigned from time to time by the Bank,
- (l) "Scheme" means the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.
- (m) "Share" means share in the Share Capital of the Bank'
- (n) "Share transfer agent" includes –
- (i) any person, who on behalf of the Bank maintains the records of holders of securities issued by the Bank and deals with all matters connected with the transfer and redemption of its securities, or
 - (ii) a department or division (by whatever name called) of the Bank performing the activities referred in sub-clause (i)
- (o) Words and expressions used in Chapter III and not defined in these Regulations but defined in the Depositories Act, 1996 (Act 22 of 1996), shall have the meaning respectively assigned to them in the Act or the scheme.
- 2A. (i) " Except as provided in Clause (ii) of regulation 59, the Board may constitute, as and when necessary, a Committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence Executive Director and two other directors as it may deem fit, for the purposes of these regulations;
- (ii) The Committee constituted under this regulation shall observe such rules of procedure as may be specified by the Board".

CHAPTER II

SHARES AND SHARE REGISTER

3. Nature of shares

The shares of Bank of Maharashtra shall be movable property, transferable in the manner provided under these regulations.

4. Kinds of Share Capital

- (i) Preference Share Capital means that part of share capital of Bank of Maharashtra which fulfils both the following conditions: -
- (A) as respects dividends, it carries a preferential right to be paid a fixed amount or an amount calculated at fixed rate, which may be either free of or subject to income tax and
 - (B) as respect capital, it carries or will carry, on winding up to repayment of capital, a preferential right to be repaid the amount of the capital paid-up or deemed to have been paid-up, whether or not

there is preferential right to the payment of either or both of the following amounts, namely:-

- (a) any money remaining unpaid, in respect of the amounts specified in clause (A) upto the date of winding up or repayment of capital, and
 - (b) any fixed premium or premium on any fixed scale, specified by the Board with the previous consent of the Central Government.
- (ii) **"Equity Share Capital"** means all share capital, which is not preference share capital.
- (iii) The expressions **"Preference Share"** and **"Equity Share"** shall be construed accordingly.

5. Particulars to be entered in the Register:

- (i) A share register shall be kept, maintained and updated in accordance with sub section 2(F) of Section 3 of the Act.
- (ii) In addition to the particulars specified in sub-section 2(F) of Section 3 of the Act, such other particulars as the Board may specify shall be entered in the register.
- (iii) In the case of joint holders of any share, their names and other particulars required by sub-regulation (i) shall be grouped under the name of the first of such joint holders.
- (iv) Subject to the proviso of sub-section 2(D) of Section 3 of the Act, a shareholder resident outside India may furnish to the Bank an address in India, and any such address shall be entered in the register and be deemed to be his registered address for the purposes of the Act and these regulations.

- 5A.**
- (i) The Bank shall, unless the register is in such form as in itself to constitute an index, keep an index, which may be in form of a card index of the names of shareholders and shall, within fourteen days after the date on which any alteration is made in the register of shareholders, make the necessary alteration in the index.
 - (ii) The index shall be kept with the register of shareholders.

6. Control over shares and registers -

Subject to the provisions of the Act and these regulations, and such directions as the Board may issue from time to time, the register shall be kept and maintained at the Head Office of Bank of Maharashtra and be under the control of the Board and the decision of the Board as to whether or not a person is entitled to be registered as a shareholder in respect of any share shall be final.

7. Parties who may not be registered as shareholders: -

- (i) Except as otherwise provided by these regulations, all persons who are not competent to contract shall not be entitled to be registered as a shareholder and the decision of the Board in this regard shall be conclusive and final.

- (ii) In case of partnership firms, shares may be registered in the names of the individual partners and no firm, as such, shall be entitled to be registered as a shareholder.

8. Maintenance of share register in computer system, etc. -

- (i) The particulars required to be entered in the share register under sub-section, 2(F) of Section 3 of the Act, read with those mentioned in Regulation 5, shall be maintained under sub-section 2(G) of Section 3 of the Act, in the form of data stored in magnetic / optical / magneto-optical media by way of diskettes, floppies, cartridges or otherwise (hereinafter referred to as the "Media") in computers to be maintained at the Head Office and the back up at such location as may be decided from time to time by the Chairman and Managing Director or any other official not below the rank of a General Manager designated in this behalf by the Chairman and Managing Director (hereinafter referred to as the "designated official").
- (ii) Particulars required to be entered in the share register under Section 3(B) of the Act read with Section 11 of the Depositories Act, 1996 shall be maintained in the electronic form in the manner and in the form as prescribed therein.
- (iii) The register in electronic form shall be maintained subject to such safeguards as stipulated for securing electronic records under the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

9. Safeguards for protection of computer system:

- (i) The access to the system set out in Regulation 8(1) in which data is stored shall be restricted to such persons including Registrars to an issue and / or share transfer agents as may be authorized in this behalf by the Chairman and Managing Director or the designated official and the passwords if any, and the electronic security control systems shall be kept confidential under the custody of the said persons.
- (ii) The access by the authorized persons shall be recorded in logs by the computer system and such logs shall be preserved with the officials/persons designated in this behalf by the Chairman and Managing Director or the designated official.
- (iii) Copies of the back-ups shall be taken on removable media at intervals as may be specified from time to time by the Chairman and Managing Director or the designated official, incorporating the changes made in the register of shareholders. At least one of these copies shall be stored in a location other than the premises in which processing is being done. This copy shall be stored in a fireproof environment with locking arrangement and at the requisite temperature. The access to the back-ups in both the locations shall be restricted to persons authorized in this behalf by the Chairman and Managing Director or the designated official. The persons so authorized shall record the access in a manual register kept at the location.

- (iv) It shall be the duty of the authorized persons to compare the data on the back-ups with that on the computer system by using appropriate software to ensure correctness of the back-up. The result of this operation shall be recorded in the register maintained for the purpose.
- (v) It shall be competent for the Chairman and Managing Director by special or general order, to add or modify the instructions, stipulations in regard to the safeguards to be observed in maintaining the register of the shareholders in the computer system with due regard to the advancement of technology, and / or in the exigencies of situation or for any other relevant consideration.

10. Exercise of rights of joint holders

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with "Bank of Maharashtra" except the transfers of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

11. Inspection of register

- (i) The register shall, except when closed under Regulation 12, be open to inspection of any shareholder, free of charge, at the place where it is maintained during business hours subject to such reasonable restrictions as the Board may impose, but so that not less than two hours in each working day shall be allowed for inspection.
- (ii) Any shareholder may make extracts of any entry or computer prints free of charge or if he requires a copy of any part thereof, the same will be supplied to him on pre-payments at the rate of Rs.5/- or at such rate as the Board may decide for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied.
- (iii) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (ii), any duly authorized officer of the Government shall have the right to make a copy of any entry in the register or be furnished a copy of the register or any part thereof.

12. Closing of the register

The Bank may, after ensuring compliance of the applicable guidelines and the listing agreement with the Stock Exchanges, and after giving not less than seven days previous notice by advertisement in at least two newspapers circulating in India, close the register of shareholders for any period or periods not exceeding in the aggregate forty-five days in each year, but not exceeding thirty days at any one time as shall in its opinion be necessary.

13. Share Certificates

- (i) Each share certificate shall bear share certificate number, a distinctive number, the number of shares in respect of which it is issued and the name

of the shareholder to whom it is issued and it shall be in such form as may be specified by the Board.

- (ii) Every share certificate shall be under the common seal of the Bank in pursuance of a resolution of the Board and be signed by two directors and some other officer not below the rank of scale II or the Company Secretary.

Provided that the signature of the directors may be printed, engraved lithographed or impressed by such other mechanical process as the Board may direct.

- (iii) A signature so printed, engraved, lithographed or otherwise impressed shall be as valid as a signature in the proper handwriting of the signatory himself.
- (iv) No share certificate shall be valid unless and until it is so signed. Share Certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon may have ceased to be a person authorized to sign share certificates on behalf of the Bank.

14. Issue of share certificates

- (i) While issuing share certificates to any shareholder, it shall be competent for the Board to issue the certificates on the basis of one certificate for every hundred shares or multiples thereof registered in his name on any one occasion and one additional share certificate for the number of shares in excess thereof but which are less than hundred.
- (ii) If the number of shares to be registered is less than hundred, one certificate shall be issued for all the holders.
- (iii) In respect of any share or shares held jointly by several persons, the Bank shall not be bound to issue more than one certificate and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders.

15. Issue of new or duplicate share certificate

- (i) If any share certificate is worn out or defaced, the Board or the Committee designated by it on production of such certificate may order the same to be cancelled and have a new certificate issued in lieu thereof.
- (ii) If any share certificate is alleged to be lost or destroyed, the Board or the committee designated by it on such indemnity with or without surety as the Board or the committee thinks fit and on publication in two newspapers and on payment to Bank of Maharashtra, of its costs, charges and expenses, a duplicate certificate in lieu thereof may be given to the person entitled to such lost or destroyed certificate.

16. Consolidation and sub-division of shares

On a written application made by the shareholder(s), the Board or the Committee designated by it may consolidate or sub-divide the shares submitted to it for

consolidation / sub-division as the case may be and issue a new certificate(s) in lieu thereof without levying any charges.

17. Transfer of shares

- (i) Every transfer of the shares of the Bank shall be by an instrument of transfer in Form A annexed hereto or in such other form as may be prescribed by the Bank from time to time and shall be duly stamped, dated and executed by or on behalf of the transferor and the transferee along with the relative share certificate.
- (ii) The instrument of transfer along with the share certificate shall be submitted to the Bank at its Head Office or to the Registrar and Share Transfer Agents appointed by the Bank from time to time and the transferor shall be deemed to remain the holder of such shares until the name of the transferee is entered in the share register in respect thereof.
- (iii) Upon receipt by the Bank of an instrument of transfer along with a share certificate with a request to register the transfer, the Board or the Committee designated by the Board shall forward the said instrument of transfer along with share certificate to the Registrar or Share Transfer Agent for the purposes of verification that the technical requirements are complied with in their entirety. The Registrar or Share Transfer Agent shall return the instrument of transfer along with the share certificate, if any, to the transferee for resubmission unless the instrument of transfer is presented to the Bank, duly stamped and properly executed for registration and is accompanied by the certificate of the shares to which it relates and such other evidence as the Board may require to show the title of the transferor to make such transfer.

Explanation: - "Illustrations of Technical requirements" means

- (a) Transfer deed shall be duly stamped;
- (b) Certificate number or distinctive number mentioned in the transfer deed shall tally with the share certificate;
- (c) Transferor's signature shall tally;
- (d) Transfer deed shall be witnessed.
- (iv) The Board or the Committee designated by the Board shall, unless it refuses to register the transfer under regulation 19 hereinafter, cause the transfer to be registered.
- (v) Unless the transfer of shares is refused under regulation 19, the share certificate duly transferred shall be delivered to the transferee within sixty days from the date of lodging of the instrument of transfer.

18. Power to suspend transfers

The Board or the Committee designated by the Board shall not register any transfer during any period in which the register is closed.

19. Board's right to refuse registration of transfer of shares

- (i) The Board or Committee may refuse transfer of any shares in the name of the transferee on any one or more of the following grounds, and on no other grounds:-
 - (a) the transfer of shares is in contravention of the provisions of the Act or regulations made there under or any other law or that any other requirement under the law relating to registration of such transfer has not been complied with;
 - (b) the transfer of shares, in the opinion of the Board, is prejudicial to the interests of the Bank or to public interest;
 - (c) the transfer of shares is prohibited by an order of court, Tribunal or any other authority under any law for the time being in force.
 - (d) An individual or company resident outside India or any company incorporated under any law not in force in India or any branch of such company whether resident outside India or not will on the transfer being allowed hold or acquire as a result thereof, shares of the Bank and such investment in the aggregate will exceed the percentage being more than 20% (twenty) of the paid up capital or as may be specified by the Central Government by notification in the Official Gazette.
- (ii) The Board or Committee shall, after the instrument of transfer of shares of the Bank is lodged with it for the purpose of registration of such transfer, form its opinion as to whether such registration ought or ought not to be refused on any of the grounds referred to in sub-regulation (i)-
 - (a) If it has formed the opinion that such registration ought not to be so refused, effect such registration; and
 - (b) If it has formed the opinion that such registration ought to be refused on any of the grounds mentioned in sub-regulation (i) intimate the same to the Transferor and the Transferee by notice in writing giving reasons for such refusal within 60 days from the receipt of transfer form or within such period as may be laid down in the Listing Agreement with the concerned Stock Exchange.

20. Transmission of shares in the event of death, insolvency, etc.

- (i) The executors or administrators of a deceased shareholder in respect of a share, or the holder of letter of probate or letters of administration with or without the will annexed or a succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act, 1925, or the holder of any legal representation or a person in whose favour a valid, instrument of transfer was executed by the deceased sole holder during the latter's lifetime be the only person who may be recognized by Bank of Maharashtra as having any title to such share.
- (ii) In the case of shares registered in the name of two or more shareholders, the survivor or survivors and on the death of the last survivor, his executors or administrators or any person who is the holder of letters of probate or letters of administration with or without will annexed or a succession certificate or any other legal representation in respect of such

survivors' interest in the share or a person in whose favour a valid instrument of transfer of share was executed by such person and such last survivor during the latter's lifetime, shall be the only person who may be recognized by Bank of Maharashtra as having any title to such share.

- (iii) Bank of Maharashtra shall not be bound to recognise such executors or administrators unless they shall have obtained probate or letters of administration or succession certificate, as the case may be, from a court of competent jurisdiction.

Provided, however, that in a case where the Board in its discretion thinks fit, it shall be lawful for the Board to dispense with the production of letters of probate or letters of administration or succession certificate or such other legal representation, upon such terms as to indemnity or otherwise as it may think fit.

- (iv) Any such person becoming entitled to a share in consequence of death of a shareholder and any person becoming entitled to a share in consequence of the insolvency, bankruptcy or liquidation of a shareholder shall upon production of such evidence, as the Board may require, have the right –

- (a) To be registered as a shareholder in respect of such share.
- (b) To make such transfer of such share as the person from whom he derives title could have made.

21. **Shareholder ceasing to be qualified for registration.**

It shall be the duty of any person registered as a shareholder, whether solely or jointly with another or others forthwith upon ceasing to be qualified to be so registered in respect of any share to give intimation thereof to the Board of Directors in this regard.

Explanation – For the purposes of this regulation, a shareholder may cease to be qualified for registration.

- (a) If he is a guardian of minor, on the minor attaining the majority;
- (b) If he is holding shares as a Karta, on his ceasing to be a Karta.

22. **Calls on shares**

The Board may, from time to time, make such calls as it thinks fit upon the shareholders in respect of all monies remaining unpaid on the shares held by them, which are by the conditions of allotment not made payable at fixed times and each shareholder shall pay the amount of every call so made on him to the person and at the time and place appointed by the Board. A call may be payable by instalments.

23. **Calls to date from resolution**

A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Board authorizing such call was passed and may be made payable by the

shareholders on the register on such date or at the discretion of the Board on such subsequent date as may be fixed by the Board.

24. Notice of call

A notice of not less than thirty days of every call shall be given specifying the time of payment provided that before the time for payment of such call the Board may by notice in writing to the shareholders revoke the same.

25. Extension of time for payment of call

The Board may, from time to time and at its discretion, extend the time fixed for the payment of any call to all or any of the shareholders having regard to distance of their residence or some other sufficient cause, but no shareholder shall be entitled to such extension as a matter of right.

26. Liabilities of joint holders

The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.

27. Amount payable at fixed time or by instalments as calls

If by the terms of issue of any share or otherwise any amount is payable at any fixed time or by instalments at fixed times, every such amount or instalment shall be payable as if it were a call duly made by the Board and of which due notice had been given and all the provisions herein contained in respect of the calls shall relate to such amount or instalment accordingly.

28. When interest on call or instalment payable

If the sum payable in respect of any call or instalment is not paid on or before the day appointed for payment thereof, the holder for the time being or allottee of the share in respect of which a call shall have been made, or the instalment shall be due, shall pay interest on such sum at such rate as the Board may fix from time to time, from the day appointed for the payment thereof to the time of actual payment, but the Board may at its discretion waive payment of such interest wholly or in part.

29. Non-payment of calls by shareholder

No shareholder shall be entitled to receive any dividend or to exercise any right of a shareholder until he shall have paid all calls for the time being due and payable on every share held by him, whether singly or jointly with any person, together with interest and expenses, as may be levied or charged.

30. Notice on non-payment of call or instalment

If any shareholder fails to pay the whole or any part of any call or instalment or any money due in respect of any shares either by way of principal or interest on or

before the day appointed for the payment of the same, Bank of Maharashtra may at any time thereafter during such time as the call or instalment or any part thereof or other monies remain unpaid or a judgement or decree in respect thereof remains unsatisfied in whole or in part, serve a notice on such shareholder or on the person (if any) entitled to the share by transmission, requiring him to pay such call or instalment or such part thereof or other monies as remain unpaid together with any interest that may have accrued and all expenses (legal or otherwise) that may have been paid or incurred by Bank of Maharashtra by reason of such non-payment.

31. Notice of Forfeiture

The notice of forfeiture shall name a day not being less than fourteen days from the date of notice and the place or places on and at which such call or instalment or such part or other monies and such interest and expenses as aforesaid are to be paid. The notice shall also state that in the event of non-payment on or before the time and at the place appointed, the share in respect of which the call was made or instalment is payable will be liable to be forfeited.

32. Shares to be forfeited on default

If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any of the shares in respect of which such notice has been given may at any time thereafter for non-payment of all calls or instalments, interest and expenses or the money due in respect thereof, be forfeited by a resolution of the Board to that effect at its next meeting to be held after the expiry of the notice of forfeiture under Regulation 31. Such forfeiture shall include all dividends declared in respect of the forfeited shares and not actually paid before the forfeiture.

33. Entry of forfeiture in the register

When any share has been forfeited under Regulation 32, an entry of the forfeiture with the date thereof shall be made in the register.

34. Forfeited shares to be property of the Bank of Maharashtra and may be sold

Any share so forfeited shall be deemed to be the property of Bank of Maharashtra and may be sold, reallocated or otherwise disposed of to any person upon such terms and in such manner as the Board may decide.

35. Power to annul forfeiture

The Board may, at any time, before any share so forfeited under regulation 32 shall have been sold, reallocated or otherwise disposed of, annul the forfeiture thereof upon such conditions, as it may think fit.

36. Shareholder liable to pay money owing at the time of forfeiture and interest

Any shareholder whose shares have been forfeited shall, notwithstanding the forfeiture, be liable to pay and shall forthwith pay to Bank of Maharashtra all calls, instalments, interest, expenses and other monies owing upon or in respect of such shares at the time of forfeiture with interest thereon from the time of forfeiture until payment at such rate as may be specified by the Board and the Board may enforce the payment of the whole or a portion thereof.

37. Partial payment not to preclude forfeiture

Neither a judgement nor a decree in favour of Bank of Maharashtra for calls or other monies due in respect of any shares nor any payment or satisfaction there under nor the receipt by Bank of Maharashtra of a portion of any money which shall be due from any shareholder from time to time in respect of any shares either by way of principal or interest or any indulgence granted by Bank of Maharashtra in respect of payment of any money shall preclude the forfeiture of such shares under these regulations.

38. Forfeiture of share extinguishes all claims against Bank

The forfeiture of a share shall involve extinction, at the time of the forfeiture, of all interest in and all claims and demands against the Bank, in respect of the share and all other rights incidental to the share, except only such of those rights as by these presents expressly waived.

39. Original shares null and void on sale, re-issue, re-allotment or disposal on being forfeited

Upon any sale, re-issue, re-allotment or other disposal under the provisions of the preceding regulations, the certificate(s) originally issued in respect of the relative shares shall (unless the same shall on demand by the Bank have been previously surrendered to it by the defaulting member) stand cancelled and become null and void and of no effect, the Board shall be entitled to issue a new certificate or certificates in respect of the said shares to the person or persons entitled thereto.

40. Application of forfeiture provisions

The provisions of these regulations as to the forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which by terms of issue of a share become payable at a fixed time, whether on account of nominal value of the shares or by way of premium as if the same had been payable by virtue of a call duly made.

41. Lien on shares

- (i) The Bank shall have a first and paramount lien

- (a) on every share (not being a fully-paid share), for all monies (whether presently payable or not) called, or payable at a fixed time, in respect of that share;
- (b) on all shares (not being fully-paid shares) standing registered in the name of a single person, for all monies presently payable by him or his estate to the Bank.
- (c) Upon all the shares registered in the name of each person (whether solely or jointly with others) and upon the proceeds of sale thereof for his debts, liabilities, and engagements, solely or jointly with any other person to or with the Bank, whether the period for the payment, fulfillment, or discharge thereof shall have actually arrived or not and no equitable interest in any share shall be recognized by the Bank over its lien.
Provided that the Board of Directors may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this clause.
- (ii) The Bank's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable thereon.

42. **Enforcing Lien by Sale of Shares**

- (i) The Bank may sell, in such manner as the Board thinks fit, any shares on which the Bank has a lien:
 - (a) if the sum in respect of which the lien exists is presently payable, and
 - (b) after the expiration of fourteen days after a notice in writing stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, has been given to the registered holder for the time being of the share or the person entitled thereto by reason of his death or insolvency.
- (iii) to give effect to any such sale, the Board may authorize some officer to transfer the shares sold to the purchaser thereof.

43. **Application of proceeds of sale of shares**

The net proceeds of any sale of shares under regulation 42 after deduction of costs of such sale, shall be applied in or towards the satisfaction of the debt or liability in respect whereof the lien exists so far as the same is presently payable and the residue, if any, be paid to the shareholders or the person, if any, entitled by transmission to the shares so sold.

44. **Certificate of forfeiture**

A certificate in writing under the hands of any director, or Company Secretary or any other Officer of the Bank not below the rank of Scale II, duly authorized in this behalf, that the call in respect of a share was made and that the forfeiture of the share was made by a resolution of the Board to that effect, shall be conclusive evidence of the fact stated therein as against all persons entitled to such shares.

45. Title of purchaser and allottee of forfeited share

Bank of Maharashtra may receive the consideration, if any, given for the share on any sale, reallocation or other disposition thereof and the person to whom such share is sold, reallocated or disposed of may be registered as the holder of the share and shall not be bound to see to the application of the consideration, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale, reallocation or other disposal of the share and the remedy of any person aggrieved by the sale shall be in damages only and against Bank of Maharashtra exclusively.

46. Service of a notice or document to shareholders

- (i) The Bank may serve a notice or a document on any shareholder either personally, or by ordinary post at his registered address or if he has no registered address in India, at the address, if any, within India supplied by him to the Bank for giving of notice to him.
- (ii) Where a document or a notice is sent by post, the service of such document or notice shall be deemed to be effected by properly addressing, prepaying and posting a letter containing the document or notice:
Provided that where a shareholder has intimated to the Bank in advance that documents should be sent to him under a certificate of posting or by registered post, with or without acknowledgement due or by courier service or in an electronic mode and has deposited with the Bank a sum sufficient to defray the expenses of doing so, service of the document or notice shall not be deemed to be effected unless it is sent in the manner intimated by the shareholder. And such service shall be deemed to have been effected in the case of a notice of a meeting at the expiration of forty eight hours after the letter containing the same is posted, and in any other case, at the time at which the letter would have been delivered in the ordinary course of post or electronic media, as the case may be.
- (iii) A notice or a document advertised in a newspaper widely circulated in India shall be deemed to be duly served on the day, on which the advertisement appears, on every shareholder of the bank who has no registered address in India and has not supplied to Bank of Maharashtra the Bank an address within India for giving of notice to him.
- (iv) A notice or document may be served by the Bank on the joint holder of a share by effecting service on the joint holder named first in the register in respect of the share and notice so given shall be sufficient notice to all the holders of the said shares.
- (v) A notice or a document may be served by the Bank on the persons entitled to a share upon death or in consequence of the insolvency of a shareholder by sending it through post in a prepaid letter addressed to them by name, or by the title of representatives of the deceased, or assignees of the insolvent or by any like description, at the address, if any, in India supplied for the purpose by the persons, claiming to be so entitled, or until such an address has been so supplied, by serving the document in any manner in which it might have been served if the death or insolvency had not occurred.
- (vi) The signature to any notice to be given by Bank of Maharashtra may be written or printed.

CHAPTER III

SECURITIES OF THE BANK HELD IN A DEPOSITORY

47. Agreement between a depository and the Bank

The Bank may enter into an agreement with one or more depository as defined in section 2(e) of the Depositories Act, 1996 to avail of its services in respect of securities issued by the Bank.

CHAPTER IV

MEETINGS OF SHAREHOLDERS

56. Notice convening an Annual General Meeting

- (i) A notice convening an annual general meeting of the shareholders signed by the Chairman and Managing Director or Executive Director or any officer of Bank of Maharashtra not below the rank of Scale VII or Company Secretary and it shall be published at least twenty one clear days before the meeting in not less than two daily newspapers having wide circulation in India.
- (ii) Every such notice shall state the time, date and place of such meeting, and also the business that shall be transacted at that meeting.
- (iii) The time and date of such meeting shall be as specified by the Board. The meeting shall be held at the place of Head Office of Bank of Maharashtra.

57. Extraordinary General Meeting

- (i) The Chairman and Managing Director or in his absence the Executive Director of the Bank or in his absence any one of the Directors of the Bank may convene an Extra Ordinary General Meeting of shareholders if so directed by the Board, or on a requisition for such a meeting having been received either from the Central government or from other shareholders holding shares, carrying, in the aggregate, not less than ten percent of the total voting rights of all the shareholders.
- (ii) The requisition referred in sub-regulation (i) shall state the purpose for which the Extra Ordinary General Meeting is required to be convened, but may consist of several documents like form each signed by one or more of the requisitionists.
- (iii) Where two or more persons hold any shares jointly, the requisition or a notice calling a meeting, signed by one or some of them shall, for the purpose of this regulation have the same force and effect as if it had been signed by all of them.
- (iv) The time, date and place of the Extra Ordinary General Meeting shall be decided by the Board.

Provided that the Extra Ordinary General Meeting convened on the requisition by the Central Government or other shareholder shall be convened not later than 45 days of the receipt of the requisition.

- (v) If the Chairman and Managing Director or in his absence the Executive Director, as the case may be, does not convene a meeting as required by sub-regulation (i) within the period stipulated in the proviso to sub-regulation (iv), the meeting may be called by the requisitionists themselves within three months from the date of the requisition:

Provided that nothing in this sub-regulation shall be deemed to prevent a meeting duly convened before the expiry of the period of three months aforesaid, from being adjourned to some day after the expiry of that period.

- (vi) A meeting called under sub-regulation (v) by the requisitionist shall be called in the same manner, as nearly as possible as that in which the other general meetings are called by the Board.

58. Quorum of General Meeting

- (i) No business shall be transacted at any meeting of the shareholders unless quorum of at least five shareholders entitled to vote at such meeting in person are present at the commencement of such business.
- (ii) If within half an hour after the time appointed for the holding of a meeting, a quorum is not present, in the case of a meeting called by a requisition of shareholders other than the Central Government, the meeting shall stand dissolved.
- (iii) In any other case if within half an hour after the time appointed for the holding of a meeting, a quorum is not present, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week, at the same time and place or to such other day and such other time and place as the Chairman may determine. If at the adjourned meeting a quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting, the shareholders who are present in person or by proxy or by duly authorized representative at such adjourned meeting shall be quorum and may transact the business for which the meeting was called.

Provided that no annual general meeting shall be adjourned to a date later than the date within which such annual general meeting shall be held in terms of section 10A (1) of the Act and if adjournment of the meeting to the same day in the following week would have this effect, the annual general meeting shall not be adjourned but the business of the meeting shall be commenced within one hour from the time appointed for the meeting if the quorum is present or immediately after the expiry of one hour from that time and those shareholders who are present in person or by proxy or by duly authorized representative at such time shall form the quorum.

59. Chairman at General Meeting:

- (i) The Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director or in his absence such one of the directors as may be generally or in relation to a particular meeting be authorized by the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director in this behalf, shall be the chairman of the meeting and if the Chairman and Managing Director or the Executive Director or any other director authorized in this behalf is not present, the meeting may elect any other Director present to be the Chairman of the meeting.
- (ii) The Chairman of the General Meeting shall regulate the procedure at general meetings and in particular shall have power to decide the order in which the shareholders may address the meeting to fix a time limit for speeches, to apply the closure, when in his opinion, any matter has been sufficiently discussed and to adjourn the meeting.

60. Persons entitled to attend General Meetings:

- (i) All directors and all shareholders of Bank of Maharashtra shall, subject to the provisions of sub-regulation (ii), be entitled to attend a General Meeting.
- (ii) A shareholder (not being the Central Government) or a Director, attending a general meeting shall for the purpose of identification and to determine his voting rights, be required to sign and deliver to the Bank a form to be specified by the chairman containing particulars relating to –
 - (a) His full name and registered address;
 - (b) The distinctive numbers of his shares;
 - (c) Whether he is entitled to vote and the number of votes to which he is entitled in person or by proxy or as a duly authorized representative.

61. Voting at General Meetings

- (i) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded be decided on a show of hands.
- (ii) Save as otherwise provided in the Act every matter submitted to a general meeting shall be decided by a majority of votes.
- (iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings shall be conclusive evidence of the result of the voting on such resolution.
- (iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution (a) a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in Bank of Maharashtra, which

confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.

- (v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.
- (vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of chairman of the meeting shall be taken forthwith.
- (vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty-eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.
- (viii) The decision of the chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

61A Scrutineers at Poll

- (i) Where a poll is to be taken, the Chairman of the meeting shall appoint two scrutineers to scrutinize the votes given on the poll and to report thereon to him.
- (ii) The Chairman of the meeting shall have the power, at any time before the result of the poll is declared, to remove a scrutineer from the office and to fill the vacancy in the office of the scrutineers arising from such removal or from any other cause.
- (iii) Of the two scrutineers appointed under this regulation one shall always be a shareholder (not being an Officer or employee of the Bank) present at the meeting: provided that such a shareholder is available and willing to be appointed.

61B Manner of taking poll and result thereof

- (i) The Chairman of the meeting shall have power to regulate the manner in which a poll shall be taken.
- (ii) The result of the poll shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken.

62. Minutes of General Meetings

- (i) Bank of Maharashtra shall cause the minutes of all proceedings to be maintained in the books kept for the purpose.
- (ii) Any such minutes, if purporting to be signed by the chairman of the meeting at which the proceedings were held, or by the chairman of the next succeeding meeting, shall be evidence of the proceedings.
- (iii) Until the contrary is proved, every general meeting in respect of the proceedings hereof minutes have been so made shall be deemed to have been duly called and held, and all proceedings held thereat to have been duly held.
- (iv) On written request made by a shareholder for inspection of the minute book or for a copy of the minute of a specified meeting, the Bank shall allow the inspection or furnish the copy of the minute, as the case may be, to the shareholder.

CHAPTER V

ELECTION OF DIRECTORS

63. Directors to be elected at General Meeting

- (i) A director under clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the general meeting of Bank of Maharashtra.
- (ii) Where an election of a director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

64. List of shareholders

- (i) For the purpose of election of a director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the director is to be elected.
- (ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board of the Management Committee, on application at the Head Office.

65. Nomination of candidates for election

- (i) No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless,
 - (a) He is a shareholder holding not less than 100 (one hundred) shares in Bank of Maharashtra.
 - (b) He is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a director under the Act or under the scheme;
 - (c) He has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
 - (d) The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it is was passed shall be despatched to the Head

Office of Bank of Maharashtra and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company;

- (e) The nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a director.
- (ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of Bank of Maharashtra on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

66. Scrutiny of nominations

- (i) Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason therefore. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated, shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election, it shall stand cancelled.
- (ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- (iii) A director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.

67. Election Disputes

- (i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of Bank of Maharashtra and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- (ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of Bank of Maharashtra shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the directors nominated under clauses (b) and (c) of sub section 3 of Section 9 of the Act.

- (iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- (iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

CHAPTER VI

VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

68. Determination of voting rights

- (i) Subject to the provisions contained in section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- (ii) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i).

Explanation – For this Chapter, ‘Company’ means any body corporate.

- (iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself, but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

69. Voting by duly authorized representative

- (i) A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officials or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a ‘duly authorized representative’ in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or Company which he represents, as if he were an individual shareholder of Bank of Maharashtra. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorized representative of the Central Government / Company.

- (ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of Bank of Maharashtra as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the Meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of Bank of Maharashtra not less than four days before the date fixed for the meeting.

70. Proxies

- (i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorized in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his attorney duly authorized in writing or in the case of the body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Maharashtra.

- (ii) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of Bank of Maharashtra not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with Bank of Maharashtra.
- (iii) No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form 'B'.
- (iv) An instrument of proxy deposited with Bank of Maharashtra shall be irrevocable and final.
- (v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- (vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- (vii) No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Maharashtra.

General Manager,
Law & Corporate Services

Date 22nd June 2004

BANK OF MAHARASHTRA**FORM 'A'****SHARE TRANSFER FORM**

(See sub-regulation (i) of regulation 17)

FOR THE CONSIDERATION stated below the "Transferor(s)" named do hereby transfer to the "Transferee(s)" named the shares specified below subject to the conditions on which the said shares are now held by the Transferor(s) and the Transferee(s) do hereby agree to accept and hold the said shares subject to the condition aforesaid.

Full Name of Company				Name of the recognized Stock Exchange, where dealt in, if any	
Description of Equity Shares				Consideration in figures Rs.	Consideration (Rs. in words)
No. of shares in figures		No. of shares in words			
Distinctive numbers	From				
	To				
Corresponding certificate numbers					

Transferor(s)/ Seller(s) particulars		Registered Folio No.	Signature(s)
Name(s) in full	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
Attestation		Signature of witness	
I, hereby attest the signature of the Transferor(s) herein mentioned			
Signature		Name and address of witness	
Name			
Address / Seal			
Please see overleaf for instructions			

Transferee(s)/ Buyer(s) particulars			Signatures
Name(s) In full	1		1
	2		2
	3		3

	Occupation	Address	Father/ Husband's name
1			
2			
3			

Transferee(s) existing folio No. if any in names		Value of stamps affixed	Rs.
---	--	-------------------------	-----

Dated this	day of	Two thousand	Place	
------------	--------	--------------	-------	--

For office use only	Folio No.	Company code
Checked by	Specimen signature transferee(s)	1.
Signature tallied by		2.
Entered in register of transfer No.		3.
Approval date		

Instructions for attestation:

Attestation where required (thumb impressions, marks, signature differences etc.) should be done by a Magistrate, Notary public or Special Executive Magistrate or a similar authority holding a public office and authorized to use the Seal of his office or a member of a recognized stock exchange through whom the shares are introduced or a manager of the transferor's bank.

Note: Names must be rubber stamped preferably in a straight line chronological order should be maintained. Broker's clearing number should be stated when delivery is given by a clearing Member Bank.

Name of delivering broker and clearing number	Date	Power of attorney, probate, death certificate, letter of administration
		Registered with the Company
		No. Date
		Signature(not initials) of broker, Bank, Company or Stock exchange clearing house
		# Lodged by
		Full address
		Share certificates to be returned to (Fill in the name and address to which the certificates are required to be returned)

			Share transfer stamp
# To be filled only if the documents are lodged by a person other than the Transferee			

Bank of Maharashtra**Form B****Form of Proxy**

(See sub-regulation (iii) of the regulation 70)

Folio No. _____

(To be filled in by the Shareholder)

I/We, resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder / shareholders of the Bank of Maharashtra hereby appoint Shri/ Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ or failing him / her, Shri. / Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the meeting of the shareholders of the Bank of Maharashtra to be held on the _____ day of _____ 20__ and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 20__

Name:

Address:



Affix required
Revenue stamp
Signature

**BANK OF BARODA
HEAD OFFICE
BARODA**

Ref. No. BCC/LEGAL/MTU/95/1538

Dated : 17th October 2003

In exercise of the powers conferred by sub-section(2) of section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Bank of Baroda, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendments further to amend Bank of Baroda General Regulations 1998 namely,

1. (i) These regulations may be called the Bank of Baroda General (Amendment) Regulations, 2003.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. "Bank of Baroda General Regulations 1998" shall be renamed as "Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations 1998.
3. In Regulation 2 of Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations 1998, the Regulations so renamed.
 - (i) for clause (e), the following shall be substituted, namely :-
(e) 'Committee' means a Committee constituted under regulation 2A";
 - (ii) in clause (j), the following words and figures shall be inserted at the end namely :-
"and register of beneficial owners maintained by any depository under section 11 of the Depository Act, 1996 (22 of 1996)".

4. after regulation 2, the following new regulation shall be inserted, namely :—
- "2A(i) Except as provided in Clause (ii) regulation 67, the Board may constitute, as and when necessary, a Committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence Executive Director and two other directors as it may deem fit, for the purposes of these regulations;
- (ii) The Committee constituted under this regulation shall observe such rules of procedure as may be specified by the Board".
5. In regulation 5, Clause (v) shall be omitted.
6. After regulation 5, the following regulation shall be inserted, namely :—
- "5A(i) The Bank shall, unless the register is in such form as in itself to constitute an index, keep an index, which may be in form of a card index of the names of shareholders and shall, within fourteen days after the date on which any alteration is made in the register of shareholders, make the necessary alteration in the index.
- (ii) The index shall be kept with the register of shareholders".
7. In regulation 7, in clause (ii) for the words "in case of firms", the words "in case of partnership firms" shall be substituted.
8. In regulation 8, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely :—
- (iii) The register in electronic form shall be maintained subject to such safeguards as stipulated for securing electronic records under the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).
9. In regulation 11, in clause (ii) for the words "at the rate of Rs. 5/- for every 100 words", the words "at the rate of Rs. 5/- or at such rate as the Board may decide for every 1000 words" shall be substituted.
10. For regulation 12, the following shall be substituted, namely :—
- "12. Closing of the register—The Bank may, after ensuring compliance of the applicable guidelines and the listing agreement with the Stock Exchanges, and after giving not less than seven days previous notice by advertisement in at least two newspapers circulating in India, close the register of shareholders for any period or periods not exceeding in the aggregate forty-five days in each year, but not exceeding thirty days at any one time as may in its opinion, be necessary".
11. In regulation 13,
- (i) In clause (ii) for the words "some other officer appointed by the Board", the words "some other officer not below the rank of Scale II or the Company Secretary" shall be substituted;
- (ii) Clause (v) shall be omitted.
12. In regulation 15, for the heading "Renewal of share certificate" the following shall be substituted, namely :—
- "Issue of new or duplicate share certificate".
13. In regulation 17, for the clauses (iii) and (iv), the following clauses shall be substituted, namely :—
- (iii) Upon receipt by the Bank of an instrument of transfer along with a share certificate with a request to register the transfer, the Board or the Committee designated by the Board shall forward the said instrument of transfer along with share certificate to the Registrar or Share Transfer Agent for the purposes of verification that the technical requirements are complied with in their entirety. The Registrar or Share Transfer Agent shall return the instrument of transfer along with the share certificate, if any, to the transferee for resubmission unless the instrument of transfer is presented to the bank, duly stamped and properly executed for registration and is accompanied by the certificate of the shares to which it relates and such other evidence as the Board may require to show the title of the transferor to make such transfer.
- Explanation :—Illustrations of technical requirements" means
- (a) Transfer deed shall be duly stamped;
- (b) Certificate number or distinctive number mentioned in the transfer deed shall tally with the share certificate;

- (c) Transferor's signature shall tally;
 - (d) Transfer deed shall be witnessed."
 - (iv) The Board or the Committee designated by the Board shall, unless it refuses to register the transfer under regulation 19 hereinafter, cause the transfer to be registered.
 - (v) Unless the transfer of shares is refused under regulation 19, the share certificate duly transferred shall be delivered to the transferee within sixty days from the date of lodging of the instrument of transfer.
14. In regulation 19 :—
- (i) In clause (i) for the words "The Board may refuse", the words "The Board or Committee may refuse" shall be substituted;
 - (ii) the proviso to clause (i) shall be omitted;
 - (iii) in clause (ii)—
 - (a) In the opening portion for the words "The Board shall", the words "the Board or Committee shall" shall be substituted;
 - (b) for sub-clause (b), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"If it has formed the opinion that such registration ought to be refused on any of the grounds mentioned in sub regulation (i) intimate the same to the Transferor and the Transferee by notice in writing giving reasons for such refusal within 60 days from the receipt of transfer form or within such period as may be laid down in the Listing Agreement with the concerned Stock Exchange"
15. The following Explanation shall be inserted in regulation 21, namely :—
- "Explanation—For the purposes of this regulation, a shareholder may cease to be qualified for registration—
- (a) If he is a guardian of minor, on the minor attaining the majority;
 - (b) If he is holding shares as a Karta, on his ceasing to be a Karta".
16. In regulation 32, for the words "by a resolution of the Board to that effect" the words "by a resolution of the Board to that effect of its next meeting to be held after the expiry of the notice of forfeiture under regulation 31" shall be substituted.
17. In regulation 44, for the words "any other Officer of the Bank", the words "Company Secretary or any other Officer of the Bank not below the rank of Scale II" shall be substituted.
18. In Regulation 46, in proviso to the clause (ii)—
- (i) for the words "by registered post, with or without acknowledgement due, the words "by registered post with or without acknowledgement due or by courier service or in an electronic mode" shall be substituted;
 - (ii) The words "or electronic media, as the case may be" shall be inserted after the words "ordinary course of post".
19. In Chapter III—
- (i) in regulation 47, for the words "one or more depository", the words one or more depository as defined in section 2(e) of the Depositories Act, 1996" shall be substituted;
 - (ii) regulations 48 to 55 shall be omitted.
20. In regulation 56, in clause (i) for the words "any authorised official" the words "any officer not below the rank of Scale VII or Company Secretary" shall be substituted.
21. After regulation 61, the following regulations shall be inserted, namely:—

“61A. Scrutineers at Poll

- (i) Where a poll is to be taken, the Chairman of the meeting shall appoint two scrutineers to scrutinize the votes given on the poll and to report thereon to him.
- (ii) The Chairman of the meeting shall have the power, at any time before the result of the poll is declared, to remove a scrutineer from the office and to fill the vacancy in the office of the scrutineers arising from such removal or from any other cause.
- (iii) Of the two scrutineers appointed under this regulation one shall always be a shareholder (not being an Officer or employee of the Bank) present at the meeting: provided that such a shareholder is available and willing to be appointed.


61B. Manner of taking poll and result thereof.

- (i) The chairman of the meeting shall have power to regulate the manner in which a poll shall be taken.
- (ii) The result of the poll shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken”.

22. In regulation 62, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely;

- “(iv) On written request made by a shareholder for inspection of the minute book or for a copy of the minute of a specified meeting, the Bank shall allow the inspection or furnish the copy of the minute, as the case may be, to the shareholder”

23. In regulation 65, in Clause (i), in sub-clause (a), for the words “holding 100 (one hundred) shares”, the words “holding not less than 100 (one hundred) shares” shall be substituted.


(M.T. UDESHI)
DY. GENERAL MANAGER(LEGAL)

**UNITED BANK OF INDIA
HEAD OFFICE, KOLKATA**

KOLKATA, DATED THE

28.07. 2004

No. 1/2004 -- In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of United Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the United Bank of India (Employees') Pension Regulation, 1995 namely : -

1. (1) These Regulations may be called United Bank of India (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2004.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the United Bank of India (Employees') Pension Regulations, 1995,
 - (a) In clause (b) sub-regulations (s) of regulation 2, after sub clause (iii) the following sub clause shall be inserted namely : -

“(iv) dearness allowance calculated upto index number 1148 points in the All India Average Consumer Price Index for industrial workers in the series 1960=100,”
 - (b) In regulation 41, for sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be substituted, namely :-


“(6) An applicant who is authorized a superannuation pension or voluntary retirement pension or premature retirement pension or compulsory retirement pension or invalid pension or compassionate allowance shall be eligible to commute a fraction of his pension under these regulations ;

Provided that on and from 1.7.2003, in case of an applicant in whose case, the commuted value of pension becomes payable on the day following the date of retirement or from the date from which the commutation becomes absolute, the reduction in the amount of pension on account of commutation shall become operative from its inception. Where, however, payment of commuted value of pension could not be made within the first month after the date of retirement or within the first month after the date when the commutation becomes absolute as the case may be, the difference between the monthly pension and the commuted pension shall be paid for the period between the date following the date of retirement or the date when the commutation becomes absolute, as the case may be, and the date preceding the date on which commuted value of pension is deemed to have been paid”.

Foot Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India on 29.9.1995 (extraordinary) and subsequent amendments were published in the Gazette as under : --

<u>Notification No.</u>	<u>Date</u>
1. 1/99	01.10.99
2. 1/2002	09.02.02
3. 2/2002	07.12.02

Signature _____



Name : ANUP SANKAR BHATTACHARYA

Designation : General Manager
(Resources Management)

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Mumbai-400051, the 29th July 2004

No. GSR.—In pursuance of Section 48(5) of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981), the balance sheet for the National Bank for Agriculture and Rural Development as at 31st March 2004, the profit and loss account of the Bank for the year ended 31 March 2004 (April 2003—March 2004) and the report of the auditors for the year are published herewith.

G. S. MENON
CGM & Secy.

GUPTA SHARMA & ASSOCIATES

Chartered Accountants

Jammu-180012

REPORT OF THE AUDITORS

We have audited the attached Balance Sheet of the National Bank for Agriculture and Rural Development as at 31st March 2004 and also the Profit and Loss Account for the year ended on that date annexed thereto in which are incorporated the returns of 10 Regional Offices and NBSC Lucknow audited by us. These offices have been selected by us in consultation with the Bank in terms of notification No. 1/4/2003-BOA dated 27 January 2004 issued by Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division). Also incorporated in the Balance Sheet and Profit and Loss Account are the returns from 19 Regional Offices and 2 Training Centres which have not been subjected to audit. These unaudited offices account for 20.55 per cent of advances and 18.88 per cent of interest income. These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Subject to the limitation mentioned at para 1 above we report that:

- a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory;
- b. The Balance Sheet and Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Schedule 'A' and Schedule 'B' of Chapter IV of the National Bank for Agriculture and Rural Development (Additional) General Regulations, 1984;
- c. The returns received from the Head Office, Regional Offices, Sub-Office and Training Centres have been found adequate for the purpose of our audit;
- d. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - (i) the Balance Sheet read with the Significant Accounting Policies and the Notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and is properly drawn up in conformity with the generally accepted accounting principles in India so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31 March 2004; and
 - (ii) the Profit and Loss Account read with the Significant Accounting Policies and the Notes thereon shows a true balance of the profit for the year ended 31 March 2004 in conformity with the generally accepted accounting principles in India.

New Delhi, 12 June 2004

For Gupta Sharma & Associates
Chartered Accountants

Ashok Gupta
(Partner)
Membership No. 17244

**NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
BALANCE SHEET AS ON 31 MARCH 2004**

(Rupees)

Sr.No.	FUNDS AND LIABILITIES	SCHEDULE	AS DN 31.03.2004	AS DN 31.3.2003
1.	Capital			
	Under Section 4 of the NABARD Act, 1981		2000,00,00,000	2000,00,00,000
2.	Reserve Fund and other Reserves	1	5290,89,85,487	4319,43,95,813
3.	National Rural Credit (Long Term Operations) Fund	2	13070,00,00,000	12945,00,00,000
4.	National Rural Credit (Stabilisation) Fund	2	1500,00,00,000	1474,00,00,000
5.	Funds out of grants received from International Agencies	3	184,59,22,256	189,44,58,346
6.	Gifts, Grants, Donations and Benefactions	4	103,54,80,564	127,24,27,948
7.	Other Funds	5	510,56,67,247	414,18,20,565
8.	Deposits	6	12151,00,42,530	12248,55,98,599
9.	Bonds and Debentures	7	11883,32,21,000	8702,18,61,000
10.	Borrowings	8	7553,66,11,462	6682,76,00,305
11.	Current Liabilities and Provisions	9	1641,01,22,536	968,07,57,495
	Total		55888,60,53,082	50070,89,20,071
	Forward Foreign Exchange Contracts (Hedging) as per contra		335,37,16,410	0
	Commitments and Contingent Liabilities	17		
	Notes forming part of the Accounts	18		

Sr.No.	PROPERTY AND ASSETS	SCHEDULE	AS ON 31.03.2004	AS ON 31.03.2003
1.	Cash and Bank Balances	10	2899,86,40,761	1784,99,67,373
2.	Investments (at cost)	11	2411,87,47,561	1354,99,11,020
3.	Advances	12	48790,26,44,248	45361,40,90,216
4.	Fixed Assets	13	244,81,50,358	243,78,15,518
5.	Other Assets	14	1541,78,70,154	1325,71,35,944
	Total		55888,60,53,082	50070,89,20,071
	Forward Foreign Exchange Contracts (Hedging) as per contra		335,37,18,410	0

As per our report of even date attached
For Gupta Sharma & Associates
Chartered Accountants

P.S.S.R. Sarma
Chief General Manager
Finance & Accounts Department
New Delhi, 12 June 2004

Ashok Gupta
Partner
Membership No. 17244
New Delhi, 12 June 2004

Ranjana Kumar
Chairperson
New Delhi, 12 June 2004

Y.S.P. Thorat
Managing Director

N.S. Sisodia
Director

K.J. Udeshi
Director

**NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2004**

(Rupees)

Sr.No.	INCOME	SCHEDULE	AS ON 31.03.2004	AS ON 31.3.2003
1.	Interest received on Loans and Advances		3937,97,40,230	3717,41,23,081
2.	Income from Investment Operations		309,39,91,020	311,00,78,076
3.	Discount Received		0	2,54,98,287
4.	Other Receipts (Refer Note B-13 Schedule 18)		19,90,35,313	15,43,01,829
	Total 'A'		4267,27,66,563	4046,40,01,273

Sr.No.	EXPENDITURE	SCHEDULE	AS ON 31.03.2004	AS ON 31.3.2003
1.	Interest and Financial Charges	15	2369,59,90,720	2170,88,58,846
2.	Establishment and Other Expenses	16	354,81,32,615	276,74,55,642
3.	Depreciation (Refer Note B-13 Schedule 18)		30,15,16,049	28,55,70,695
4.	Provisions for			
	a) Bad and Doubtful Debts		51,63,45,574	45,95,59,318
	b) Depreciation in Investment Value		65,00,000	0
	(Refer Note B-13-II (9) Schedule 18)			
	Total 'B'		2806,84,84,958	2522,14,44,501
5.	Profit before Income Tax (A - B)		1460,42,81,605	1524,25,56,772
6.	a) Add Deferred Tax - Asset (Adjustment)		36,40,00,000	13,00,00,000
	b) Less Provision for Income Tax		375,00,00,000	390,00,00,000
7.	Profit after Income Tax for the year carried down		1121,82,81,605	1147,25,56,772

PROFIT AND LOSS APPROPRIATION ACCOUNT

(Rupees)

Sr.No.	APPROPRIATIONS/WITHDRAWALS	AS ON 31.03.2004	AS ON 31.3.2003
1.	Profit for the year brought down	1121,82,81,605	1147,25,56,772
	Add: Withdrawals from funds against expenditure debited to Profit & Loss A/c		
	Co-operative Development Fund (Refer Schedule 1)	4,75,95,441	6,01,73,998
	Research and Development Fund (Refer Schedule 1)	6,70,45,830	6,94,52,019
	Watershed Development Fund (Refer Schedule 5)	2,55,04,226	2,28,16,952
	Micro Finance Development Fund (Refer Schedule 5)	3,13,15,379	1,58,79,663
	Profit available for Appropriation	1138,97,42,481	1164,08,79,404
2.	Less: Transferred to:		
i.	Special Reserves u/s 38(i) (viii)	600,00,00,000	570,00,00,000
ii.	NRC (LTO) Fund	124,00,00,000	221,00,00,000
iii.	NRC (Stab) Fund	25,00,00,000	221,00,00,000
iv.	Co-operative Development Fund	4,75,95,442	12,67,81,129
v.	Research and Development Fund	6,70,45,830	12,56,61,588
vi.	Micro Finance Development Fund	7,05,11,537	1,93,64,478
vii.	Foreign Currency Risk Fund	13,62,29,603	13,62,29,603
viii.	Tribal Development Fund	50,00,00,000	0
ix.	Investment Fluctuation Reserve	9,87,71,000	0
x.	Reserve Fund	297,95,89,069	111,28,42,606
	Total	1138,97,42,481	1184,08,79,404

As per our report of even date attached
For Gupta Sharma & Associates
Chartered Accountants

P.S.R. Sarma
Chief General Manager
Finance & Accounts Department
New Delhi, 12 June 2004

Ashok Gupta
Partner
Membership No. 17244
New Delhi, 12 June 2004

Ranjana Kumar
Chairperson
New Delhi, 12 June 2004

Y.S.P. Thorat
Managing Director

N.S. Sisodia
Director

K.J. Udeshi
Director

SCHEDULES TO BALANCE SHEET

Schedule 1

(Rupees)

Sr. No.	Reserve Fund and other Reserves	Opening Balance as on 01.04.2003	Additions/ adjustments during the year	Transferred from P&L Appropriation	Transferred to P&L Appropriation	Balance as on 31.03.2004
1.	Reserve Fund	2868,39,28,081	2	297,95,89,069	0	3166,35,17,152
2.	Research and Development Fund	50,00,00,000	0	6,70,45,830	6,70,45,830	50,00,00,000
3.	Capital Reserve	74,80,53,208	0	0	0	74,80,53,208
4.	Investment Fluctuation Reserve	103,67,29,000	0	9,87,71,000	0	113,55,00,000
5.	Co-operative Development Fund	75,00,00,000	0	4,75,95,442	4,75,95,442	75,00,00,000
6.	Soft Loan Assistance Fund for Margin Money	10,00,00,000	0	0	0	10,00,00,000
7.	Agriculture & Rural Enterprise Incubation Fund	5,00,00,000	0	0	0	5,00,00,000
8.	Foreign Currency Risk Fund	92,58,85,524	0	13,62,29,603	0	106,19,15,127
9.	Special Reserves Created & Maintained u/s 36(ii), (viii) of Income Tax Act 1961	1040,00,00,000	0	600,00,00,000	0	1640,00,00,000
10.	Tribal Development Fund	0	0	50,00,00,000	0	50,00,00,000
	Total	4319,43,95,813	2	982,92,30,944	11,46,41,272	5290,89,85,487
	Previous year	3626,20,05,996	13,94,99,092	720,15,14,926	12,96,26,017	4319,43,95,813

Schedule 2

(Rupees)

Sr. No.	National Rural Credit Funds	Opening Balance as on 01.04.2003	Contribution by RBI	Transferred from P&L Appropriation	Balance as on 31.03.2004
1.	NRC (Long Term Operations) Fund	12945,00,00,000	1,00,00,000	124,00,00,000	13070,00,00,000
2.	NRC (Stabilisation) Fund	1474,00,00,000	1,00,00,000	25,00,00,000	1500,00,00,000
	Total	14419,00,00,000	2,00,00,000	149,00,00,000	14570,00,00,000
	Previous year	13975,00,00,000	2,00,00,000	442,00,00,000	14419,00,00,000

Schedule 3

(Rupees)

Sr. No.	Funds out of Grants received from International Agencies	Opening Balance as on 01.04.2003	Grants received during the year	Interest credited to the fund	Expr./Disb./adj. during the year	Balance as on 31.03.2004
1.	National Bank - Swiss Development Coop. Project	34,09,48,974	0	0	0	34,09,48,974
2.	Rural Promotion Corpus Fund	61,80,70,668	0	0	0	61,80,70,668
3.	Interest on RPCF (Refer Note B-2 Schedule 18)	23,46,36,508	0	3,73,41,764	10,20,45,475	16,99,32,797
4.	Credit and Financial Services Fund (Refer Note B-2 Schedule 18)	64,80,05,727	0	3,87,62,342	16,33,367	68,51,54,702
5.	KfW Fund for Watershed Development (Refer Note B-2 Schedule 18)	2,62,02,337	5,95,34,070	9,77,969	6,27,94,103	2,39,20,273
6.	KfW - NABARD V Fund for Adivasi Programme*	2,64,94,353	2,99,81,212	0	4,87,16,780	77,58,785
7.	CEC-BAIF Project Fund (Refer Note B-2 Schedule 18)	99,779	12,76,52,905	69,112	12,76,86,739	1,35,057
	Total	189,44,58,346	21,71,88,187	7,71,71,167	34,26,75,464	184,59,22,256
	Previous year	177,08,25,421	31,81,49,619	7,43,16,226	26,88,32,920	189,44,58,346

* Grants received include Rs. 1,85,34,547 transferred to NABARD V Adivasi Special Programme - Gujarat

Schedule 4

(Rupees)

Sr. Gifts, Grants, Donations and No. Benefactions	Opening Balance as on 01.04.2003	Grant received during the year	Interest credited	Adjusted against the expenditure	Closing Balance as on 31.03.2004
A.					
1. GTZ Banking Linkage Project	0	1,08,72,170	0	67,75,649	40,96,521
2. Capital Investment Subsidy for Cold Storage Projects	59,45,04,810	11,00,00,000	0	49,02,42,300	21,42,62,210
3. KfW - NABARD - IX Adivasi Development Programme (Refer Note B-2 Schedule 18)	52,83,890	5,68,50,382	5,03,662	3,83,77,150	2,42,60,794
4. NABARD - SDC: HID Partnership in Rural Finance Project	76,67,624	5,14,12,526	0	4,86,01,924	1,04,78,226
5. Credit Linked Cap Subsidy for Tech Upgradation of SSIs	0	3,00,00,000	0	0	3,00,00,000
6. Capital Investment Subsidy for Rural Godowns	7,73,44,800	80,86,00,000	0	86,76,22,549	1,83,22,251
7. Onfarm Water Management for Crop Production	50,42,21,800	0	0	36,84,75,940	14,57,45,660
8. Million Shallow Tubewell Programme	4,00,55,265	154,57,00,000	0	111,35,64,180	47,21,91,085
9. NABARD V Adivasi Special Dev. Prog.* Gujarat (Refer Note B-2 Schedule 18)	3,81,00,737	0	17,63,188	3,86,34,547	10,29,378
10. Cattle Development Programme- U.P.	0	5,44,40,000	0	0	5,44,40,000
11. Cattle Development Programme- Bihar	0	5,44,40,000	0	0	5,44,40,000
12. IGWDP - Andhra Pradesh	0	57,55,993	97,360	28,69,292	31,84,061
Sub-Total	126,71,76,726	272,80,71,081	23,84,210	296,51,63,831	103,24,50,186
B.					
8. Grant for Fixed Asset under NABARD SDC HID Project	52,49,222	5,87,475	0	28,06,319	30,30,378
Total (A + B)	127,24,27,948	272,86,58,556	23,84,210	296,79,70,150	103,54,80,564
Previous year	84,89,87,781	264,41,97,709	3,04,405	222,10,61,947	127,24,27,948

	As on 31.03.2004	As on 31.03.2003
C. Grants to RRBs/SCBs/SLDBs under ARDR Scheme, 1990	2695,94,72,596	2696,22,05,549
Less: Grants Released to RRBs/SCBs/ SLDBs under ARDR Scheme, 1990	2695,94,72,596	2696,22,05,549
	0	0

Adjusted against the expenditure which includes a sum of Rs. 1,85,34,547/- being the amount transferred to KfW - NABARD-V Fund for Adivasi Development (Schedule 3) and 'Interest credited' includes a sum of Rs. 7,33,810 being amount of interest for the year 2002-03 transferred from Sundry Creditors - Sundry Deposits.

Schedule 5

(Rupees)

Sr. Other Funds No.	Opening Balance as on 01.04.2003	Additions / Adjustments during the year	Transferred from P & L Appropriation	Expenditure/ Disb. during the year	Interest credited	Transferred to P&L Appropriation	Balance as on 31.03.2004
1. Watershed Development Fund	264,64,57,011	67,98,07,955	0	2,55,04,226	15,57,27,301	2,55,04,225	343,09,83,816
2. Micro Finance Development Fund	100,00,00,000	0	7,05,11,537	3,91,96,158	0	3,13,15,379	100,00,00,000
3. Interest Differential Fund - (Forex Risk)	43,54,61,388	17,13,92,224	0	0	0	0	60,68,53,612
4. Interest Differential Fund - (TAWA) (Refer Note B-1 Schedule 18)	5,21,01,501	2,38,56,405	0	2,38,62,385	0	0	5,20,95,521
5. Medical Assistance Fund	78,00,665	39,16,362	0	82,03,530	6,41,469	0	41,54,966
6. Adivasi Development Fund	0	1,15,79,332	0	0	0	0	1,15,79,332
Total	414,18,20,565	89,05,52,278	7,05,11,537	9,67,66,299	15,63,68,770	5,68,19,604	510,56,67,247
Previous year	402,15,72,696	19,03,05,230	1,93,64,478	5,07,25,224	0	3,86,96,615	414,18,20,565

Schedule 6

(Rupees)

Sr. Deposits No.	Balance as on 31.03.2004	Balance as on 31.03.2003
1. Central Government	2,13,17,000	2,13,17,000
2. State Governments	1,55,65,900	2,95,65,900
3. Tea Companies	58,73,59,630	84,24,65,699
4. Commercial Banks (Deposits under RIDF)	12088,58,00,000	12159,22,50,000
Total	12151,00,42,530	12248,55,98,599

Schedule 7

(Rupees)

Sr. Bonds and Debentures No.	Balance as on 31.03.2004	Balance as on 31.03.2003
1. SLR Bonds	882,30,11,000	960,30,11,000
2. Tax Free Bonds	1150,00,00,000	1014,85,00,000
3. Priority Sector Taxable Bonds	3696,80,00,000	2198,80,00,000
4. Non Priority Sector Bonds	1803,50,00,000	53,50,00,000
5. Capital Gains Bonds	4350,72,10,000	4474,73,50,000
Total	11883,32,21,000	3702,18,61,000

Schedule 8

(Rupees)

Sr. Borrowings No.	Balance as on 31.03.2004	Balance as on 31.03.2003
1. From Central Government	563,05,52,547	589,14,72,067
2. From RBI under General Line of Credit	4193,59,54,000	5792,07,79,000
3. Corporate Borrowing	2500,00,00,000	0
4. From International Agencies - Outside India (Refer Note B-6 (a) Schedule 18)	297,01,04,915	301,53,49,238
Total	7553,66,11,462	6682,76,00,305

Schedule 9

(Rupees)

Sr. No.	Current Liabilities and Provisions	Balance as on 31.03.2004	Balance as on 31.03.2003
1.	Interest Accrued but not due on		
a)	Loans from Central Government	20,97,37,761	21,34,66,673
b)	Bonds	428,01,49,564	269,43,96,281
c)	Tea Deposits	4,18,63,220	8,77,77,189
d)	Deposits from Central and State Governments (SLA)	6,43,682	8,78,253
e)	Borrowings from International Agencies	58,54,132	56,53,780
f)	Deposits under RIDF	290,13,60,554	264,15,64,095
g)	Commercial Bank Borrowings	36,28,767	0
	Sub-Total	744,32,37,680	564,37,36,271
2.	Sundry Creditors (Refer Note B-7 Schedule 18)	127,08,41,835	29,71,93,646
3.	Provision for Gratuity	120,10,37,000	100,97,43,109
4.	Provision for Pension (Refer Note 8-4 Schedule 18)	178,98,28,821	91,72,65,283
5.	Provision for Encashment of Ordinary Leave	45,13,66,000	38,26,09,000
6.	Application Money - Capital Gain Bonds	0	40,00,000
7.	Unclaimed Interest on Bonds with RBI (Refer Note 8-5 Schedule 18)	14,95,839	2,58,08,942
8.	Unclaimed Interest on Bonds - Others	3,76,72,210	97,13,984
9.	Bonds matured but not claimed (Refer Note B-5 Schedule 18)	185,87,76,000	26,33,30,000
10.	Provisions and Contingencies		
(a)	For Bad and Doubtful Debts	200,00,00,000	148,63,57,260
(b)	Against Depreciation in Value of Investments	65,00,000	0
11.	Provision for Income Tax (Net of Taxes paid)	34,93,67,151	-36,00,00,000
	Total	1641,01,22,536	968,07,57,495

Schedule 10

(Rupees)

Sr. No.	Cash and Bank Balances	Balance as on 31.03.2004	Balance as on 31.03.2003
1.	Cash on hand	54,845	64,862
2.	Balance with Reserve Bank of India	602,35,64,053	215,08,48,016
3.	Balances with other Banks in India		
a)	On Current Account	317,23,52,026	107,25,15,095
b)	On Deposit Account	1720,00,00,000	1416,00,00,000
4.	Remittances in transit	260,26,69,837	46,65,39,400
	Total	2899,86,40,761	1764,99,67,373

Schedule 11

(Rupees)

Sr. No.	INVESTMENTS (at cost)	Balance as on 31.03.2004	Balance as on 31.03.2003
1.	Securities of Central Government *	2270,86,60,565	1248,39,11,020
	Face Value Rs.20,47,32,60,000		
	(Previous year - Rs.12,26,00,10,000)		
	Market Value Rs.25,97,67,02,734		
	(Previous year - Rs.14,27,55,19,406)		
	(Refer Note B-7 (b) Schedule 18)		
2.	ADFC - Equity	15,60,00,000	15,60,00,000
	Face Value Rs.15,60,00,000		
	(Previous year - Rs.15,60,00,000)		
	(Refer Note B-7 (a) Schedule 18)		
3.	AFC - Equity	1,00,00,000	1,00,00,000
	Face Value Rs.1,00,00,000		
	(Previous year - Rs.1,00,00,000)		
4.	SIDBI-Equity	30,00,00,000	30,00,00,000
	Face Value Rs.10,00,00,000		
	(Previous year - Rs.10,00,00,000)		
5.	AICI LTD.	60,00,00,000	60,00,00,000
	Face Value Rs.60,00,00,000		
	(Previous year - Rs.60,00,00,000)		
6.	Nabcons Pvt. Ltd.	5,00,00,000	0
	Face Value Rs.5,00,00,000		
7.	NCDEX Ltd.	4,38,90,000	0
	Face Value Rs.4,38,90,000		
8.	Mutual Funds	25,01,96,996	0
	Face Value Rs.23,74,03,330		
Total		2411,87,47,561	1354,99,11,020
* Balance as on 31-03-2004 includes securities for Rs. 10 crore (Book Value Rs. 13,02,52,050/-) pledged with CCIL			

Schedule 12

(Rupees)

Sr. No.	Advances	Balance as on 31.03.2004	Balance as on 31.03.2003
1.	Refinance Loans:		
	i. Production & Marketing Credit	5597,96,03,835	6053,20,48,440
	ii. Conversion Loans for Production Credit	633,42,87,054	370,17,83,187
	iii. Medium Term Investment Credit- Non-Project loans	5,21,63,760	9,40,90,320
	iv. Other Investment Credit:		
	a) Medium Term and Long Term Project Loans	28075,69,04,921	25400,85,84,282
	(Refer Note B-9 Schedule 18)		
	b) Long Term Non-Project Loans	459,65,31,994	441,44,55,702
	c) Interim Finance	3,46,98,400	14,54,90,600
2.	Direct Loans:		
	i. Loans under Rural Infrastructure Development Fund	14003,59,38,359	13061,89,29,063
	ii. Other Loans	10,61,62,181	9,87,08,622
	iii. Co-Finance Loan	63,53,744	0
Total		48790,26,44,248	45361,40,90,216

Schedule 13

(Rupees)

Sr. No.	Fixed Assets	Balance as on 31.03.2004	Balance as on 31.03.2003
1.	LAND : Freehold & Leasehold (at cost) (Refer Note B-10 & 10(a) Schedule 18) As per Last Account Additions/adjustments during the year Less: Amortisation of lease premia	117,98,98,101 -29,64,961 117,69,33,140 19,72,81,744 97,96,51,396	108,13,82,238 9,85,15,863 117,98,98,101 16,75,19,999 101,23,78,102
2.	PREMISES : (at cost) (Refer Note B-10 & 10(a) Schedule 18) As per Last Account Additions/adjustments during the year Less: Depreciation to date	192,76,13,953 22,71,41,432 215,47,55,385 86,90,94,489 128,56,60,896	190,40,88,189 2,35,25,764 192,76,13,953 75,12,40,799 117,63,73,154
3.	FURNITURE & FIXTURES (at cost) As per Last Account Additions/adjustments during the year Less: Cost of asset sold/written off Less: Depreciation to date	47,79,92,423 3,06,75,659 50,86,68,082 50,78,113 50,35,89,969 41,58,40,234 8,77,49,735	46,75,89,329 1,49,44,002 48,25,33,331 45,40,908 47,79,92,423 34,84,18,395 12,95,74,028
4.	COMPUTER INSTALLATIONS & OFFICE EQUIPMENTS (at cost) As per Last Account Additions/adjustments during the year Less: Cost of asset sold/written off Less: Depreciation to date	50,05,38,046 5,45,70,956 55,51,09,002 2,31,65,961 53,19,43,041 44,43,61,151 8,75,81,890	44,69,61,030 6,24,80,393 50,94,41,423 89,03,377 50,05,38,046 38,75,62,800 11,29,75,246
5.	VEHICLES (at cost) As per Last Account Additions/adjustments during the year Less: Cost of asset sold/written off Less: Depreciation to date	2,34,60,085 82,58,474 2,97,18,559 34,66,880 2,62,31,679 1,87,25,238 75,06,441	2,29,65,420 10,65,740 2,40,31,160 5,71,075 2,34,60,085 1,69,45,097 65,14,988
	Total	244,81,50,358	243,78,15,518

Schedule 14

(Rupees)

Sr. No.	Other Assets	Balance as on 31.03.2004	Balance as on 31.03.2003
1.	Accrued Interest	1141,35,01,335	1016,78,27,201
2.	Deposit with Landlords	1,03,16,776	95,06,950
3.	Deposit with Government Departments and other institutions	2,02,28,909	1,98,47,457
4.	Housing loan and other loans to staff	135,76,07,276	130,80,40,153
5.	Advances to Landlords	15,63,374	0
6.	Advances for Construction/Purchase of Staff Quarters & Office Premises	15,86,08,497	27,43,23,897
7.	Sundry Advances	25,48,45,489	28,68,90,919
8.	Deferred Tax Assets (Refer Note B-8 Schedule 18)	153,40,00,000	117,00,00,000
		1475,06,71,856	1323,64,36,577
9.	Cheque in transit (I T Refund)	84,97,36,338	0
10.	Expenditure recoverable from Government of India/ International Agencies	1,74,62,160	2,06,99,367
	Total	1541,78,70,154	1325,71,35,944

Schedule 15

(Rupees)

Sr. No.	Interest and Financial Charges Paid	Balance as on 31.03.2004	Balance as on 31.03.2003
1.	Interest Paid on		
i.	Loans from Central Government	41,43,69,894	58,48,82,805
ii.	Borrowings from Reserve Bank of India	148,30,61,664	317,85,56,198
iii.	Bonds	802,84,71,234	644,47,47,491
iv.	Special Loan Deposits from Central and State Governments	33,75,945	35,61,802
v.	Tea Deposits	4,35,41,792	8,84,07,205
vi.	Deposits under Priority Sector Shortfall	0	0
vii.	Gratuity & Medical Fund	8,88,22,753	8,66,85,005
viii.	Borrowings from International Agencies	18,27,93,792	18,27,93,788
ix.	Deposits under RIDF	1278,91,78,324	1088,59,71,039
x.	Rural Promotion Corpus Fund	3,73,41,764	3,86,29,417
xi.	Credit and Financial Services Fund	3,87,82,342	3,49,30,154
xii.	Failed Well Scheme	0	21,950
xiii.	KfW - NABARD - IX Adivasi Development Programme	5,03,662	3,04,405
xiv.	Watershed Development Fund	15,57,27,301	13,85,77,781
xv.	CEC-BAIF Project Fund	69,112	41,783
xvi.	Indo-German Watershed Development Programme (A.P.)	97,360	7,14,872
xvii.	KfW - NABARD - V Adivasi Development Programme	0	7,33,810
xviii.	NABARD - V Adivasi Special Development Prog. - Gujarat	10,29,378	0
xix.	KfW fund for Watershed Development	9,77,969	0
xx.	Corporate Borrowings from Banks and FIs in India	36,71,89,042	0
2.	Swap Charges	2,07,79,170	0
3.	Discount, Brokerage, Commission & issue exp. on Bonds	3,98,78,222	3,92,99,341
	Total	2369,59,90,720	2170,88,58,846

Schedule 16

(Rupees)

Sr. No.	Establishment and other Expenses	Balance as on 31.03.2004	Balance as on 31.03.2003
1.	Salaries and Allowances	148,70,86,060	139,76,27,900
2.	Contribution to Staff Superannuation Funds (Refer Note 8-4 Schedule 18)	113,62,36,966	44,60,01,968
3.	Travelling & other allowances in connection with Directors' & Committee members' Meetings	20,29,021	11,68,781
4.	Directors' & Committee Member's Fees	23,500	30,000
5.	Rent, Rates, Insurance, Lighting, etc.	16,20,65,559	15,84,08,005
6.	Travelling Expenses	14,68,47,326	13,54,89,151
7.	Printing & Stationery	2,32,41,261	2,28,16,745
8.	Postage, Telegrams & Telephones	3,98,50,063	4,30,60,004
9.	Repairs	3,09,10,233	3,66,93,575
10.	Audit Fees	6,19,580	3,02,400
11.	Legal Charges	30,72,165	12,21,927
12.	Miscellaneous Expenses	24,45,95,427	25,39,09,875
13.	Expenditure on Study & Training (Refer Note B-11 Schedule 18)	16,61,52,300	17,07,79,029
14.	Expenditure on promotional activities under		
	(i) Co-operative Development Fund	4,75,95,442	6,01,73,999
	(ii) Micro Finance Development Fund	3,13,15,379	1,58,79,663
	(iii) Watershed Development Fund	2,55,04,226	2,28,16,952
15.	Wealth Tax	9,88,107	10,75,668
	Total	354,81,32,615	276,74,55,642

Schedule 17

(Rupees)

Sr. No.	Commitments and Contingent Liabilities	As on 31.03.2004	As on 31.03.2003
1.	Commitments on account of contracts remaining to be executed	12,44,18,800	11,98,52,216
2.	Contingent Liabilities		
	Disputed claims for additional payment towards construction of premises	65,48,45,000	65,87,61,697

Schedule 18

A. Significant Accounting Policies

1. General

1.1 The accounts are prepared on the historical cost convention.

2. Income and Expenditure

2.1. Income and expenditure are accounted on accrual basis except the following, which are accounted on cash basis:

- (i) Interest on non-performing assets is identified as per RBI guidelines and interest in the case of Government guaranteed advances that are in arrears for more than 180 days.
- (ii) Income by way of penal interest charged due to delayed receipt of loan dues or non-compliance with terms of loan.
- (iii) Service charges on loans given out of Rural Promotion Corpus Fund (RPCF), Credit and Financial Services Fund (CFSF), Agriculture and Rural Enterprises Incubation Fund (AREIF) and KfW-NABARD V Fund for Adivasi Programme.
- (iv) Expenses not exceeding Rs. 10,000/- at each location under a single head of expenditure.

2.2. Issue expenses relating to floatation of bonds are recognised as expenditure of the year in which the bonds are issued.

2.3. Interest on income tax refund is recognized, based on the date of the issue of refund order.

3. Fixed Assets and Depreciation

3.1. Fixed assets are stated at cost.

3.2. Land includes free hold and lease hold land.

3.3. Premises include value of land where segregated values are not readily available.

3.4. Depreciation is charged for the entire financial year on all fixed assets held on the Balance Sheet date irrespective of the date of purchase and period for which put to use.

3.5. Depreciation on computers, motor vehicles, office equipments, furniture, electrical fittings, etc., is charged on straight line basis. In respect of assets added on or before 31 March 1999, the written down values as on 31 March 1999 are considered as their original cost for application of the rates under straight line method.

3.6. Depreciation on premises situated on freehold land is charged on written down value basis.

3.7. Amortisation of lease premium paid on leasehold land and depreciation on premises situated on leasehold land is computed and charged at higher of 5 per cent on written down value basis or the amount derived by amortising the premium / cost over the remaining lease period of the land on straight line basis.

4. Investments

4.1. The investment portfolio categories, specified under RBI guidelines are further classified under three categories, viz., 'Held to Maturity', 'Available for Sale' and 'Held for Trading'. The investments under 'Held to Maturity' do not exceed 25 per cent of the total investments. The investments under this category are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium over the face value, if any, is amortised over the period remaining to maturity. The investments under 'Available for Sale' and 'Held for Trading' are marked to market at prescribed intervals. While only net depreciation, if any, is provided for investments in each category classified as 'Available for Sale', depreciation or appreciation is recognised in each category for investments classified as 'Held for Trading'.

4.2. Investments are reported at cost and provision for depreciation/ diminution, if any, in value of investments is included under Current Liabilities and Provisions.

5. Provisions for Loans and Advances

5.1. Advances are classified as Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets and the required provisions are made as per the guidelines issued by the RBI from time to time. For this purpose, Government Guaranteed Advances and Advances to state governments are treated as Standard Assets. Additional provisions over and above those prescribed under RBI guidelines are made on certain categories of Standard Assets on a prudent basis.

6. Foreign Currency Transactions

6.1 Foreign currency borrowings are reported at closing exchange rate prevailing on the Balance Sheet date whereas foreign currency borrowings supported by hedging agreements are taken at the contract price.

6.2. Foreign Currency Risk Fund has been created out of appropriation of the Bank's profits to meet any exchange loss in excess of balance available in 'Interest Differential Fund-Forex Risk'.

7. Payments and Provisions to Employees

7.1. The Bank has a Provident Fund Scheme managed by RBI. Contributions under the scheme are provided and paid to RBI.

7.2. Gratuity Fund is an integral part of the operations of the Bank and interest is provided on the annual balance outstanding to the credit of the Fund. The Fund balance is reflected under Current Liabilities and Provisions.

7.3. Provision for gratuity is made on the basis of liability as determined by actuarial valuation after considering the interest provision on gratuity fund referred to in para 7.2 above and without deducting the amount to be borne by the RBI in respect of employees who are transferred from the RBI. The amount of gratuity due from the RBI is accounted for as and when received.

7.4. The Bank has a pension scheme for its employees. The amounts representing employer's contribution to Provident Fund relating to the pension optees (which is now part of Pension Fund) are maintained with RBI. The provision for pension is made based on actuarial valuation after considering the aforesaid balance with RBI.

7.5. Provision for Encashment of Ordinary Leave is made on the basis of actuarial valuation.

8. Recognition of Tax Expense, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities

8.1 Income tax expense is arrived at after considering all deductions and allowances available under the tax laws including the deduction under Sec. 36 (1) (vii) regarding provision for doubtful debts and section 36(1)(viii) towards the profit from the business of long term finance. Provision for current tax is made on the taxable income at the applicable tax rates. Deferred Tax

Assets and Liabilities are reckoned for all timing differences that have arisen upto the end of the accounting year and that are expected to reverse in the subsequent accounting periods. These are computed based on the tax rates and tax laws enacted or substantively enacted by the Balance Sheet date.

B. Notes forming part of the Accounts

1. In terms of TAWA Command Area Development Project Agreement, interest chargeable by the GoI on loans to NABARD at 6.5 per cent per annum has been accounted to the extent of 4.5 per cent by credit to the 'Interest Differential Fund' to be utilised for certain specified purposes and the balance of 2 per cent has been paid to GoI.

2. Interest at 6.00 per cent per annum for the year 2003-04 on unutilised balances of CFSF, RPCF, KfW fund for Watershed Development, Funds under CE-BAIF project, KfW NABARD IGWDP - Andhra Pradesh, NABARD V Adivasi Special Development Programme (Gujarat) and KfW NABARD IX Adivasi Development Programme have been credited to the respective funds.

3. As per the Agricultural and Rural Debt Relief Scheme 1990, the Bank was acting as a channelising agent for disbursing the funds received from RBI towards grants to RRBs and loans/grants to SCBs and SLDBs.

4. In the absence of details of the balance of Pension Fund lying with RBI (Refer significant accounting policy para 7.4) as on 31 March 2004, the amount has been estimated and provision for pension is made after considering such estimated amount.

5. (a) In respect of Bonds issued by the Bank, which were managed by RBI, the accounting of the collections and redemption of the bonds are based on advices received from RBI up to 30 September 2003.

(b) From 1 October 2003, RBI froze the current account, meant for redemption and interest payment of above bonds. The servicing of these bonds thereafter is taken over by NABARD. The outstanding balance payable on account of bonds matured but not claimed and unclaimed interest has been shown net of payments made by NABARD from 1 October 2003 onwards.

6. (a) During the year, borrowing from KfW, Germany, to the extent of 58.80 million Euro and interest thereon has been hedged by entering into currency SWAP agreement, at the rates ranging between Rs 50.505 and Rs 50.55, per Euro, for a period of 10 years, with four different counter parties. Consequently, the liability towards KfW borrowings has been shown at contract price only. The difference between forward SWAP rate and exchange rate at which borrowing was valued in the books, amounted to Rs 15.33 crore was credited to Interest Differential Fund (Forex risk) as exchange loss in the earlier years on account of revaluation of the aforesaid loan has been debited to the said account.

(b) The hedging contract is disclosed as an 'Off the Balance Sheet' item and the amount represents the contracted value of the SWAP agreement. The amount of principal outstanding liability at the year-end exchange rate is Rs. 312.51 crore.

7. Sundry creditors include an amount of Rs. 100 crore received from Gol on account of scheme for revitalization of co-operative credit structure. The amount has been kept under Sundry Creditors - Remittance from Gol pending receipt of necessary details / operational mechanism of the scheme from Gol.

(a) Investments in shares of ADFCs have been classified under 'Held To Maturity' category, keeping in view Accounting Standard 13 of ICAI and principle of prudence, the depreciation of Rs. 65 lakh has been provided on the basis of investee's break-up value of shares.

(b) The valuation of AFS investments have been marked to market at the close of the year to recognize depreciation in value category-wise. On the other hand, the depreciation or appreciation in investments held for trading have been booked on a monthly basis.

8. Provisions for Income Tax

Major components of Deferred Tax Assets and Liabilities are as under:

9. The Bank has made payments towards subscription of debentures issued by various State Land Development Banks/Land Mortgage Banks and these are included under 'Advances - Other Investment Credit - Medium Term and Long Term Project Loans'. The value of Allotment Letters/ Debenture Scrips yet to be received as on date aggregates Rs. 219.85 crore (Rs. 711.40 crore).

10. (a) 'Land' and 'Premises' include an aggregate amount of Rs. 46.96 crore (Rs. 40.13 crore) paid towards Office Premises and Staff Quarters at various locations in respect of which conveyance deeds/other Legal Documents have not yet been executed in favour of the Bank because of certain procedural delays being faced in connection therewith.

(b) In respect of 'Land' and 'Premises', whose cost is Rs.24.99 crore (Rs.18.37 crore) conveyancing is yet to be done, pending settlement of legal disputes with the vendors.

11. Expenditure on Study and Training includes Rs.2.59 crore (Rs.3.165 crore) relating to establishment expenses and operating expenses of Regional Training Colleges at Bolpur and Mangalore, which provide training to employees of commercial banks, co-operative banks and RRBs.

12. During the year an amount of Rs. 1.686 crore, being the recoveries made from the employees against advance for furnishing residence of officers (FRSO) (consisting of Rs.1.426 crore effected upto 31 March 2003 and Rs 0.26 crore during the year 2003-04) was recognized as income and credited to Profit & Loss Account, which were hitherto credited to Sundry Creditors account and shown as liability in the Balance Sheet.

(Rs.crore)

Sr. No.	Deferred Tax Assets on account of	As on 01.04.2003	Debit/Credit During the year	As on 31.03.2004
1.	Provision for Retirement Benefits made in the books but allowable for tax purposes on payment basis	85.00	38.46	123.46
2.	Depreciation on Fixed Assets	32.00	-2.06	29.94
	Total	117.00	36.40	153.40

13. Prior period items included in the Profit & Loss Account are as follows:

			(Rs. crore)
Sr. No.	Particulars	2003-04	2002-03
1	Depreciation	1.87	2.95
2	Other Receipts	1.43	0.11
3	Other Expenses	-	0.72

14. Capital adequacy ratio of the Bank as on 31 March 2004 is 39.41 per cent as against a minimum of 9 per cent as stipulated by RBI.

15. Figures in the Balance Sheet and Profit & Loss Account are rounded off to the nearest rupee.

16. The figures in parentheses are in respect of the previous year.

17. The following additional information is disclosed in terms of RBI circular (Ref.No.DBS.FID.C-2/01.02.00/2003-04 dated July 10, 2003):

I. Capital

(a) Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR)

(Per cent)

Particulars	31 March 2004	31 March 2003
CRAR	39.41	39.05
Core CRAR	37.77	37.80
Supplementary CRAR	1.64	1.25

(f) Asset Classification

Classification	2003-04		2002-03	
	Rs. crore	Per cent	Rs. crore	Per cent
Standard	48,789.46	99.99836	45,359.80	99.99645
Sub-standard	0.78	0.00160	0.85	0.00188
Doubtful	0.02	0.00004	0.11	0.00024
Loss	0.00	0.00000	0.65	0.00143
Total	48,790.26	100.00	45,361.41	100.00

(g) Provisions made during the Year

(Rs. crore)

Provisions against	2003-04	2002-03
Standard Assets	51.36	45.98
Non Performing Advances	0.27*	-0.02
Investments	0.65	0.00
Income Tax	375.00	390.00
Total	427.28	435.96

* includes NPA provision of Rs 0.26 crore against advances to staff

(b)

(Rs. crore)

Particulars	31 March 2004	31 March 2003
Amount of subordinated debt raised and outstanding	Nil	Nil

(c) Risk weighted Assets

(Rs. crore)

Particulars	31 March 2004	31 March 2003
On - Balance Sheet Items	19087.02	16,521.72
Off - Balance Sheet Items	77.92	77.86

(d) Pattern of Capital contribution as on the date of the Balance Sheet

(Rs. crore)

Contributor	31 March 2004	31 March 2003
Reserve Bank of India	1,450	1,450
Government of India	550	550
Total	2,000	2,000

II. Asset quality and Credit concentration (Excluding Staff Advances)

(e)

Particulars	31 March 2004	31 March 2003
Percentage of Net NPAs to Net Loans and Advances	0.0014 %	0.0017%

(h) Movement in NPAs

(Rs. crore)

Particulars	2003-04	2002-03
NPAs as at beginning of the year	1.61	0.93
Add: Additions during the year	0.01	0.84
Sub-Total	1.62	1.77
Less: Reductions during the year	0.82	0.16
NPAs as at the end of the year	0.80	1.61

(i) Credit exposure as percentage to Capital Funds and as percentage to Total Assets

Sr. No.	Category	2003-04		2002-03	
		Credit Exposure as % to		Credit Exposure as % to	
		Capital Funds	Total Assets	Capital Funds	Total Assets
I	Largest Single Borrower	41.60	5.43	52.48	6.59
ii	Largest Borrower Group	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
III	Ten Largest Single Borrowers				
1.	U. P. State Land Development Bank	41.60	5.43	49.22	6.18
2.	Andhra Pradesh Co-operative Bank	39.43	5.14	52.48	6.59
3.	ICICI Bank	26.86	3.50	8.87	1.11
4.	Punjab State Co-operative Bank	25.03	3.26	14.33	1.80
5.	Haryana State Land Development Bank	22.33	2.91	25.28	3.18
6.	Punjab State Land Development Bank	21.58	2.81	24.30	3.05
7.	Andhra Pradesh State Govt.	20.16	2.63	30.04	3.77
8.	Madhya Pradesh State Govt.	18.88	2.46	17.41	2.19
9.	U. P. State Govt.	18.73	2.44	24.20	3.04
10.	Tamil Nadu State Govt.	17.93	2.34	19.69	2.47
IV	Ten Largest Borrower Groups	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

(j) Credit exposure to the Five largest Industrial Sectors as percentage to Total Loan Assets -Not Applicable

III. Liquidity

(i) Maturity pattern of rupee Assets and Liabilities

(ii) Maturity pattern of Foreign Currency Assets and Liabilities

(Rs. crore)

Item	Less than or equal to 1 year	More than 1 year upto 3 years	More than 3 years upto 5 years	More than 5 years upto 7 years	More than 7 years	Total #
Rupee Assets	17,259.75	15,642.84	11,200.86	6,394.96	5,189.55	55,687.96
Foreign Currency Assets	0	0	0	0	0	0
Total Assets	17,259.75	15,642.84	11,200.86	6,394.96	5,189.55	55,687.96
Rupee Liabilities	9,818.80	9,044.94	9,328.91	3,147.39	24,050.91	55,390.95
Foreign Currency Liabilities	0	2.58	11.62	19.70	263.11	297.01
Total Liabilities	9,818.80	9,047.52	9,340.53	3,167.09	24,314.02	55,687.96

In terms of RBI instructions, provisions towards Standard Assets and also the provision against depreciation in the value of investment, that are reflected as Liabilities in the Balance Sheet, have been reduced in the aforesaid table from the Assets.

IV. Operating Results

Sr. No.	Particulars	For the year ended 31 March 2004	For the year ended 31 March 2003
1.	Interest income as a percentage to working funds	8.02	8.45
2.	Non interest income as a percentage to working funds	0.11	0.10
3.	Operating profit as a percentage to working funds	3.61	3.96
4.	Return on Assets (per cent)	2.78	3.22
5.	Profit per Employee (Rs. crore)	0.28	0.29

V Movement in the Provisions**(a) Provision for Non-Performing Assets**

(Rs. crore)

Sr. No.	Particulars	2003-04	2002-03
i)	Opening balance as at the beginning of the financial year	0.86	0.89
Add	Provision made during the year	0.01	0.11
Less	Write off, write back of excess provision	0.77	0.14
ii)	Closing balance as at the close of the financial year	0.10	0.86

(b) Provision for Depreciation in Investments

(Rs. crore)

Sr. No.	Particulars	2003-04
1.	Opening balance as at the beginning of the financial year	Nil
2.	Add	
i)	Provisions made during the year	0.65
ii)	Appropriation, if any, from Investment Fluctuation Reserve Account during the year	Nil
3.	Sub-Total (1+2.i+2.ii)	0.65
4.	Less	
i)	Write off during the year	Nil
ii)	Transfer, if any, to Investment Fluctuation Reserve Account	Nil
5.	Closing balance as at the close of the financial year (3-4.i-4.ii)	0.65

VI. Restructured Accounts

No loan has been subjected to restructuring during the year.

VII. Forward Rate Agreements and Interest Rate Swaps

No Forward Rate Agreement / Interest Rate Swaps as permitted by RBI circular No. MPD. BC. 187/ 07.01.279/

1999 - 2000 dated 07 July 1999 has been entered into during the year.

VIII. Interest Rate Derivatives

No Interest Rate Derivative transaction has been entered into during the year.

IX. Related Party Transactions

(Rs. crore)					
Name of the Party	Nature of Relationship	Nature of Transaction	Amt. of Transaction during the year	Outstanding	
Reserve Bank of India	Holding 72.50% of NABARD Capital	Borrowings (net of repayments)	(1598.48)	4193.60	
		Interest on Borrowings	148.31		
		Contribution Recd. in NRC Funds maintained by NABARD	2.00		
		Maintenance fee for Bonds	0.06		
Government of India	Holding - 27.50% of NABARD Capital	Borrowings (net of repayments)	(26.06)	565.19	
		Interest on Borrowings	41.58	21.01	
		Guarantee fee	5.41		
ADFT, Chennai	Control - 52.10% of Share Capital held by NABARD	Lending (net of repayments)	0.00	0.00	
		Interest on Lending	0.00	0.00	
ABFL, Hyderabad	Control 47.82% of Share Capital held by NABARD	Lending (net of repayments)	(0.89)	1.36	
		Interest on Lending	0.17	0.02	
KADFC, Bangalore	Control - 82.41% of Share Capital held by NABARD	No Transaction	0.00	0.00	
NABARD Consultancy Services Pvt. Ltd	Wholly Owned Subsidiary	Expenses incurred by NABARD	0.57	0.38	
Shri. Y.C.Nanda	Key Management Personnel - Chairman up to 30 June 2003	Remuneration including perquisites	0.012		
Smt. Ranjana Kumar	Key Management Personnel - Chairperson from 21 November 2003	Remuneration including perquisites	0.023		
Shri Y.S.P. Thorat	Key Management Personnel - Managing Director from 17 March 2004	Remuneration including perquisites	0.002		

X. Information on Business Segments**a) Brief Background**

The primary business segments recognised by the Bank are as under:

- | | |
|---|---|
| <p>i) Direct Finance: Loans given to state governments for rural infrastructure development and loans given to VAs /NGOs for developmental activities are included in this segment.</p> | <p>ii) Refinance: Loans and Advances given to state governments, commercial banks, LDBs, SCBs, RRBs etc., as refinance against the loans disbursed by them to the ultimate borrowers.</p> |
| | <p>iii) Treasury: The investment of funds under call money, treasury bills, short term deposits, Govt. securities, etc.</p> |
| | <p>iv) Unallocated: This segment includes income from staff loans and other miscellaneous receipts and</p> |

the expenditure incurred for the developmental role of the Bank and common administrative expenses.

Secondary business segments identified by geography cover the business at the following states:

- i) South Zone: Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and RTC, Mangalore.
- ii) East Zone: Tripura, Mizoram, Orissa, West

Bengal, RTC Bolpur, Nagaland, Sikkim, Assam, Manipur, Arunachal Pradesh and Meghalaya.

- iii) North Zone: Madhya Pradesh, Haryana & Punjab, Bihar, New Delhi, Jharkand, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, NBSC Lucknow, Jammu & Kashmir, Rajasthan and Uttaranchal.
- iv) West Zone: Gujarat, Goa, Maharashtra and Head Office, Mumbai.

b) Information on Primary Business Segment

(Rs. crore)

Sr. No.	Segment	Segment Revenue from External Customers	Segment Results	Segment Assets	Segment Liabilities
1	Direct Finance	1,510.93	201.95	14,147.46	12,828.18
2	Refinance	2,427.75	1,232.90	35,660.19	#20,492.95
3	Treasury	309.40	306.58	2,487.74	0.00
4	Unallocated	19.19	-281.00	3,593.21	505.92
Total		4,267.27	1,460.43	55,888.60	33,827.05
# Includes balances in NRC (LTO) and NRC (Stab.) Funds where there is no external obligation.					

c) Information on Secondary Business Segment

(Rs. crore)

Sr. No.	Geographical Segments	Segment Revenue from External Customers	Segment Assets
1	East Zone	440.35	5,606.69
2	North Zone	1,739.75	23,031.99
3	South Zone	1,241.08	15,552.60
4	West Zone	846.09	11,697.32
Total		4,267.27	55,888.60

18 Previous year's figures have been regrouped and recast wherever necessary.

For Gupta Sharma & Associates
Chartered Accountants

P. S. S. R. Sarma
Chief General Manager
Finance and Accounts Department
New Delhi, 12 June 2004

Ashok Gupta
Partner
Membership No.17244
New Delhi, 12 June 2004

Ranjana Kumar
Chairperson
New Delhi, 12 June 2004

Y. S. P. Thorat
Managing Director

N. S. Sisodia
Director

K. J. Udeshi
Director

**CONSOLIDATED BALANCE SHEET AND CASH FLOW OF
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT AND ITS SUBSIDIARIES**

A. Auditors' Certificate

We have audited the attached Cash Flow Statement of National Bank for Agriculture and Rural Development, which has been compiled from and is based on the audited statements for the year ended March 31, 2004. To the best of our knowledge and belief and according to the information and explanations given to us, it has been prepared pursuant to Clause 31 of the Listing Agreement with the Stock Exchange.

New Delhi, 12 June 2004

For Gupta Sharma & Associates
Chartered Accountants

Ashok Gupta
(Partner)
Membership No. 17244

B. Auditors' Certificate

We report that the Consolidated Financial Statements, prepared by National Bank for Agriculture and Rural Development, (NABARD) are in accordance with the requirements of Accounting Standard (AS 21), Consolidated Financial Statement, issued by Institute of Chartered Accountants of India and on the basis of the separate audited financial statements of NABARD, NABARD Consultancy Services Private Ltd, Agri. Business Finance (A.P.) Ltd, Karnataka Agri. Development Finance Company Ltd. and unaudited financial statements of Agri. Development Finance (Tamil Nadu) Ltd. included in the consolidated financial statements.

On the basis of the information and explanation given to us and on the consideration of separate audited financial statements of NABARD and three of its subsidiaries as also unaudited financial statements in respect of one of its subsidiaries, we are of the opinion that:

a. the consolidated Balance Sheet gives a true and fair view of the consolidated state of affairs of NABARD and its subsidiaries as at 31 March 2004.

b. the consolidated Profit and Loss Account gives a true and fair view of consolidated results of operations of NABARD and its four subsidiaries for the year ended on 31 March 2004.

New Delhi, 12 June 2004

For Gupta Sharma & Associates
Chartered Accountants

Ashok Gupta
(Partner)
Membership No. 17244

C. Auditors' Certificate

We have audited the attached Consolidated Cash Flow Statements of National Bank for Agriculture and Rural Development, which has been compiled from and is based on the audited statements of National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD Consultancy services Private Ltd, Agri Business finance (A.P.) Ltd, Karnataka Agri Development Finance Company Ltd, and unaudited financial statements of Agri development Finance (Tamil Nadu) Ltd. for the year ended 31 March, 2004. To the best of our knowledge and belief and according to the information and explanation given to us, it gives a true and fair view.

New Delhi, 12 June 2004

For Gupta Sharma & Associates
Chartered Accountants

Ashok Gupta
(Partner)
Membership No. 17244

**National Bank for Agriculture and Rural Development
Consolidated Balance Sheet as on 31 March 2004**

LIABILITIES	Rupees
Capital	2000,00,00,000
Reserve Fund and Other Reserves	5292,51,52,370
National Rural Credit (Long Term Operation) Fund	13070,00,00,000
National Rural Credit (Stabilisation) Fund	1500,00,00,000
Funds Out of Grants received from International Agencies	184,59,22,255
Gifts Grants and Donations	103,54,80,565
Other Funds	510,56,67,247
Minority Interest	11,90,26,649
Deposits	12151,00,42,530
Bonds and Debentures	11883,32,21,000
Borrowings	7553,66,11,462
Current Liabilities and Provisions	1646,32,50,354
TOTAL LIABILITIES	55907,43,74,432

ASSETS	Rupees
Cash and Bank Balances	2918,91,10,319
Investments (at Cost)	2391,27,47,561
Advances	48807,87,43,285
Fixed Assets	244,91,17,668
Other Assets	1544,20,51,846
Miscellaneous Expenses not Written off	26,03,753
TOTAL ASSETS	55907,43,74,432

As per our report of even date attached
For Gupta Sharma & Associates
Chartered Accountants

P.S.S.R. Sarma
Chief General Manager
Finance & Accounts Department
New Delhi, 12 June 2004

Ashok Gupta
Partner
Membership No. 17244
New Delhi, 12 June 2004

Ranjana Kumar
Chairperson
New Delhi, 12 June 2004

Y.S.P. Thorat
Managing Director

N.S. Sisodia
Director

K.J. Udeshi
Director

**National Bank for Agriculture and Rural Development
Consolidated Profit and Loss Account for the Year ended 31 March 2004**

(Rupees)		Appropriations:	
PARTICULARS	31 March 2004		(Rupees)
Income:		Profit available for Appropriation as above	1121,51,99,191
Interest Received on Loans and Advances	3939,22,56,149	Add: Withdrawals from various funds	
Income from Investment Operations	309,84,22,450	against expenditure debited to P&L A/c.	17,14,60,876
Other Receipts	20,29,90,127	Total Profit available for	
TOTAL INCOME	4269,36,58,729	Appropriation	1138,66,59,068
Expenditure:		Transferred to:	
Interest and Financial Charges	2369,98,23,841	Special Reserve u/s 35 (1) (viii) of the	
Establishment and other expenses	355,74,58,952	Income Tax Act, 1961	800,00,00,000
Depreciation	30,17,50,099	NRC (LTO) Fund	124,00,00,000
Provision for Bad and Doubtful Debts	53,29,18,129	NRC (Stabilisation) Fund	25,00,00,000
Depreciation in investment	65,00,000	Co-operative Development Fund	4,75,95,441
Preliminary expenses written off	3,56,419	Research and Development Fund	6,70,45,930
TOTAL EXPENDITURE	2809,68,05,439	Micro Finance Development Fund	7,05,11,537
Profit before Income Tax	1459,48,53,296	Foreign Currency Risk Fund	13,62,29,603
Provision for Taxation	375,16,21,328	Tribal Development Fund	50,00,00,000
Deferred Tax Asset Adjustment	36,70,15,116	Investment Fluctuation Reserve	9,67,71,000
Profit after Tax	1121,02,47,074	Reserve Fund	297,65,05,656
Share of Loss in Subsidiaries attributable to			1138,66,59,068
Minority Interest	(48,51,117)		
Profit available for Appropriation	1121,51,98,191		

Additional Notes to Consolidated Accounts

- Consolidation has been done pursuant to the listing agreement with stock exchange.
- Financial statement in respect of subsidiary Agri Development Finance (Tamil Nadu) Ltd is unaudited.
- Details of the subsidiaries:

Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
Agri Development Finance (Tamil Nadu) Ltd.	India	52.10
Agri Business Finance (A.P.) Ltd.	India	47.82
Karnataka Agri Development Finance Company Ltd.	India	82.40
NABARD Consultancy Pvt. Ltd.	India	100.00

4. Depreciation on fixed asset is provided on Written Down Value (WDV) method, at the rates specified in schedule xiv to the Companies Act 1958 by Agri. Development Finance (Tamil Nadu) Ltd. and Agri. Business Finance (A.P.) Ltd. whereas Karnataka Agri. Development Finance Company Ltd. has provided depreciation on fixed assets by adopting straight line method at the rates specified in schedule xiv to the Companies Act 1958 on prorata basis. Thus, the accounting policy followed by subsidiaries for depreciation are different from the accounting policy for depreciation followed by NABARD in the preparation of consolidated financial statements. Thus out of the total depreciation of Rs.30.17 crore included in the consolidated financial statement, 0.09% of that amount is determined based on depreciation provided by following WDV / straight line method at the rates as specified in schedule xiv to the Companies Act 1958.

As per our report of even date attached
For Gupta Sharma & Associates
Chartered Accountants

P.S.S.R. Sarma
Chief General Manager
Finance & Accounts Department
New Delhi, 12 June 2004

Ashok Gupta
Partner
Membership No. 17244
New Delhi, 12 June 2004

Ranjana Kumar
Chairperson
New Delhi, 12 June 2004

Y.S.P. Thorat
Managing Director

N.S. Sisodia
Director

K.J. Udeshi
Director

**National Bank for Agriculture and Rural Development
Cash Flow Statement for the Year ended 31 March 2004**

(Rupees)

Particulars	31-03-2004	31-03-2003
(a) Cash Flow from Operating Activities		
Net profit as per P & L A/c before Tax	1460,42,81,605	1524,25,56,772
<u>Adjustment for:</u>		
Depreciation	30,15,16,049	28,55,70,695
Interest Credited to various Funds	23,51,70,357	21,44,18,660
Other Expenses	17,14,60,876	16,83,22,633
Income from Investment	-215,55,57,388	-157,32,72,071
Expenditure from various Funds	-357,90,72,789	-284,84,41,815
Operating Profit before Working Capital changes	857,77,98,710	1148,91,54,874
Adjustment for Net change in:		
Current Assets	-478,71,67,087	-1003,22,82,410
Current Liabilities	601,89,97,890	54,28,13,369
Cash generated from Operating Activities	1081,08,29,513	199,94,65,833
Payment of Income Tax	-304,06,32,849	-446,00,00,000
Net Cash Flow from Operating Activities (A)	778,99,96,664	-248,05,14,167
(b) Cash Flow from Investing Activities		
Income from Investments	215,55,57,388	157,32,72,071
Purchase of Fixed Asset	-31,18,50,967	-19,69,89,451
Investments in Government Securities	-1047,49,46,541	3,12,71,830
Purchase of Shares	-9,36,90,000	-60,00,00,000
Net Cash used / generated from Investing Activities (B)	-872,51,30,040	80,75,74,250
(c) Cash Flow from Financing Activities		
Grants / contributions received	385,71,12,630	303,26,54,528
Proceeds of Bonds	3181,13,60,000	2823,79,70,000
Increase / Decrease in Borrowings	670,90,11,157	-699,51,44,854
Increase / Decrease in Deposits	-97,55,56,068	2413,72,39,526
Increase in Loans and Advances	-3433,81,21,155	-4310,56,04,526
Net Cash raised from Financing Activities (C)	906,38,06,764	130,73,14,674
Net increase in Cash and Cash Equivalent (A) + (B) + (C)	610,68,73,388	-36,56,25,043
Cash and Cash Equivalent at the beginning of the period	368,99,87,373	405,55,92,418
Cash and Cash Equivalent at the end of the period	1179,68,40,761	368,99,67,373
<p align="right">As per our report of even date attached For Gupta Sharma & Associates Chartered Accountants</p> <p>P.S.S.R. Sarma Chief General Manager Finance & Accounts Department New Delhi, 12 June 2004</p> <p align="right">Ashok Gupta Partner Membership No. 17244 New Delhi, 12 June 2004</p> <p>Ranjana Kumar Chairperson New Delhi, 12 June 2004</p> <p align="center">Y.S.P. Thorat Managing Director</p> <p align="center">N.S. Sisodia Director</p> <p align="right">K.J. Udeshi Director</p>		

**National Bank for Agriculture and Rural Development
Consolidated Cash Flow Statement for the Year ended March 31, 2004**

(Rupees)

Particulars	31 March 2004
(a) Cash Flow from Operating Activities	
Net Profit as per P & L A/c before Tax	1459,48,53,286
Depreciation	30,17,50,099
Interest Credited to various Funds	23,51,70,357
Other Expenses	17,22,00,926
Expenditure from various Funds	-357,90,72,789
Income from Investment	-215,55,57,386
Operating Profit before Working Capital changes	956,93,44,491
Adjustment for Net change in:	
Current Assets	-483,69,73,099
Current Liabilities	601,54,87,438
Cash generated from Operating Activities	1074,78,58,830
Payment towards Income Tax	-304,19,48,564
Net Cash Flow from Operating Activities (A)	770,59,10,266
(b) Cash Flow from Investing Activities	
Income from Investments	215,55,57,388
Purchase of Fixed Asset	-31,18,53,307
Investments in Government Securities	-1047,49,46,541
Purchase of Shares	-4,38,89,000
Preliminary Expenses	-19,16,162
Net Cash used in Investing Activities (B)	-867,70,49,622
(c) Cash Flow from Financing Activities	
Grants / contributions received	385,71,12,830
Proceeds of Bonds	3181,13,60,000
Increase in Borrowings	870,00,25,635
Decrease in Deposits	-98,02,73,646
Increase in Loans and Advances	-3430,77,95,736
Net Cash raised from Financing Activities (C)	908,04,29,081
Net Increase in Cash and Cash Equivalent (A) + (B) + (C)	810,92,89,725
Cash and Cash Equivalent at the beginning of the period	369,02,00,593
Cash and Cash Equivalent at the end of the period	1179,94,90,318
<p align="right">As per our report of even date attached For Gupta Sharma & Associates Chartered Accountants</p> <p>P.S.S.R. Sarma Chief General Manager Finance & Accounts Department New Delhi, 12 June 2004</p> <p>Ashok Gupta Partner Membership No. 17244 New Delhi, 12 June 2004</p> <p>Ranjana Kumar Chairperson New Delhi, 12 June 2004</p> <p>Y.S.P. Thorat Managing Director</p> <p>N.S. Sisodia Director</p> <p>K.J. Udeshi Director</p>	


 G.S. Menon
 CCM & Secretary, National Bank for Agriculture
 and Rural Development, Mumbai

INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA

Noida, the 8th July 2004

No. 3—IWA/Estt./20/99—In exercise of powers conferred by Section 35 of Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985), with the previous approval of the Central Government, the Inland Waterways Authority of India hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement—

(i) These regulations shall be called the Inland Waterways Authority of India Recruitment, Seniority and Promotions (Fifth Amendment) Regulations, 2003.

(ii) They will come into force from the date of communication of approval by the Government, i.e., 29th June, 2004.

2. In the Schedule to the IWAI Recruitment, Seniority and Promotion Regulations, 1992, against Sr. No. 18^a relating to the post of LDC on column 10, the existing entries regarding promotion, i.e.

(i) 90% by direct recruitment.

(ii) 10% by limited departmental examination for group 'D' staff.

(a) Eligibility conditions for Ltd. Departmental Examination will be as follows :—

"Examination shall be confined to such group 'D' Staff/Employees who fulfil the requirement of minimum educational qualification, viz., Matriculation or equivalent qualification and have rendered 5 years' service in group 'D' post."

(b) The maximum age limit for this examination shall be 40 years (45 years for Scheduled Castes & Scheduled Tribes)"

The existing entries shall be substituted as follows :—

(i) 85% by direct recruitment

(ii) 10% by limited departmental examination for group 'D' staff.

(iii) 5% by seniority among group 'D' employees who possess educational qualification for the post of LDC.

(a) Eligibility conditions for Ltd. Departmental Examination will be as follows :—

"Examination shall be confined to such group 'D' Staff/Employees who fulfil the requirement of minimum educational qualification, viz., Matriculation or equivalent qualification and have rendered 5 years' service in group 'D' post."

(b) The maximum age limit for this examination shall be 40 years (45 years for Scheduled Castes & Scheduled Tribes)".

S. S. PANDIAN
Secy.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 23rd April 2004

No. U-16/53/99/Raj/Med. II.—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorise Dr. N. C. Sharma to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. 7.1.2004 to 6.1.2005 or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Udaipur and Kankroli or allocated by State Medical Commissioner Rajasthan for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. (MRS.) S. SINGH
Medical Commissioner

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(HEAD OFFICE)

New Delhi-66, the 20th July 2004

S.O. C-1(4)2114/04/WB/22490 whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely:

S.No.	Code No.	Name of the Establishment	Date of Coverage	Date of Consent
1.	WB/30752	M/s Mintri Provisional Store	1.2.2002	1.2.2002
2.	WB/30759	M/s Gautam Sarkar	1.4.2002	1.4.2002
3.	WB/30766	M/s K.Rai & Rai Construction Service	1.10.2001	1.10.2001
4.	WB/30807	M/s Manoj Chouthury	1.5.2002	1.5.2002
5.	WB/30874	M/s Shyama Pada Jha	5.11.2002	5.11.2002
6.	WB/30909	M/s Anandloke Medical & Research Centre Pvt. Ltd.	1.1.2003	1.1.2003
7.	WB/31121	M/s Mangalpur Samabay Krishi Unnayam Samity Ltd.	1.10.2003	1.10.2003
8.	WB/36963	M/s Manna Engineering	1.11.2003	1.11.2003
9.	WB/38402	M/s Barsat Regulated Market Committee	2.5.2003	2.5.2003
10.	WB/31128	M/s Rasulpur S.K.U.S. Ltd.	1.11.2003	1.11.2003
11.	WB/30987	M/s Radhikapur Gram Panchayat S.K.U.S. Ltd.	1.1.2003	1.1.2003
12.	WB/30718	M/s Karandighi Lamps Ltd.	1.12.2001	1.12.2001
13.	WB/30817	M/s Nakul Malakar	1.7.2002	1.7.2002
14.	WB/30990	M/s R.S. Enterprise	1.4.2003	1.4.2003
15.	WB/31036	M/s Rajendra Prasad Agarwal	1.6.2003	1.6.2003
16.	WB/30922	M/s The Scholar	1.2.2003	1.2.2003
17.	WB/39989	M/s M.S.G. Enterprise	13.8.2001	13.8.2001
18.	WB/30638	M/s S.K. & Company	1.9.2001	1.9.2001
19.	WB/30640	M/s Santa Kumar Pradhan	1.8.2001	1.8.2001

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

S. R. JOSHI

Regional Provident Fund Commissioner (Compliance)

S.OCPFC.1(4)/2111/2000/MH/22486 whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely:

S.No.	Code No.	Name of the Establishment	Date of Coverage	Date of Consent
1.	MH/105298	M/s Shri Ganesh Gramin Biger Sheti Sah Patsantha Ltd.	21.2.04	21.2.04
2.	MH/115401	M/s Tricon Logistics Pvt. Ltd.	1.5.03	1.5.03
3.	MH/115158	M/s Mora Koliwada Sahakari Society Ltd.	1.9.02	1.9.02
4.	MH/115546	M/s Mangal Murti Enterprises	1.10.03	1.10.03
5.	MH/115594	M/s Sunita Enterprises	1.12.03	1.12.03
6.	MH/115280	M/s Bravo Healthcare Ltd.	1.2.03	1.2.03
7.	MH/115489	M/s Le Shaji's Consultancy Service	1.9.03	1.9.03
8.	MH/115255	M/s Prism Life Sciences Ltd.	1.1.03	1.1.03
9.	MH/115344	M/s PEST-O-CRUSH	11.4.03	11.4.03
10.	MH/115007	M/s Pearl Transmarine Services Pvt. Ltd.	1.2.02	1.2.02
11.	MH/115541	M/s Three D Micro Systems Pvt. Ltd.	1.10.03	1.10.03
12.	MH/46941	M/s Satara Zilla Nagrik Sahkari Patpedhi Maryadit	1.12.2003	1.12.2003
13.	MH/105291	M/s Juni Mill Bekar Kamgar Va Varsadar and Janhit Sangharsh Samiti, Solapur	2.2.2004	2.2.2004
14.	MH/46721	M/s Plugin Sales Pvt. Ltd.	9.6.2003	9.6.2003
15.	MH/NK/52365	M/s Ujjwal Professional Services Pvt. Ltd.	8.3.2004	8.3.2004
16.	MH/115252	M/s Jaxi Enterprises	1.1.2003	1.1.2003
17.	MH/115277	M/s Kamala Engineering (Diamonds) Pvt. Ltd.	1.1.2003	1.1.2003
18.	MH/NSK/52355	M/s FI Systems & Peripherals	13.2.2004	13.2.2004
19.	MH/45945	M/s Internet Petrochem Next Com Limited	23.1.2002	23.1.2002
20.	MH/115392	M/s Sweta Electric Pvt. Ltd.	8.5.2003	8.5.2003
21.	MH/61792	M/s Shree Krishna Cutting Centre	1.4.96	1.4.96
22.	MH/46862	M/s Sona Clothiers	1.10.2003	1.10.2003

23.	MH/28127	M/s The Methodist (W.S.C.S.) Kindergarten School	1.11.2002	1.11.2002
24.	MH/105271	M/s Bhausaheb Birajdar Nagari Sahakari Bank Ltd.	4.12.2003	4.12.2003
25.	MH/105231	M/s S.N.Bodke & Company	8.8.2003	8.8.2003
26.	MH/105252	M/s Solapur Mahanagar Palika Chaturth Shreni Nokaranchi Sahakari Patsanastha Maryadit.	1.10.2003	1.10.2003
27.	MH/105274	M/s R.R.Khadake	26.4.2003	26.4.2003
28.	MH/105283	M/s Bharitya Mehter Samaj	5.1.2004	5.1.2004
29.	MH/46792	M/s Shivsahyadri Sahakari Patpedhi Ltd.	22.9.2003	22.9.2003

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

S. R. JOSHI
Regional Provident Fund Commissioner (Compliance)

S.O CPFC. 1(4)/2114/2004/PN/22486, whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely:

S.No.	Code No.	Name of the Establishment	Date of Coverage	Date of Consent
1.	PN/21775	M/s Swastik Enterprises	4.11.2003	4.11.2003
2.	PN/21777	M/s Ablaze Electricals	4.10.2003	4.10.2003


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

S. R. JOSHI
Regional Provident Fund Commissioner (Compliance)

S.O. CPFC.1(4)/2118/2004/KR_ whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely:

S.No.	Code No.	Name of the Establishment	Date of Coverage	Date of Consent
1.	KR/KC/19859	M/s Hesel Engineering Co.	01.12.2003	01.12.2003
2.	KR/KC/19218	M/s Konthadathil Wood Industries	01.04.2000	01.04.2000
3.	KR/19420	M/s Nenmony Agro Mills Pvt. Ltd.	01.10.2000	01.06.2000
4.	KR/KC/15191	M/s Kachin Diesel Sales and Services	01.06.1996	01.06.1996
5.	KR/16928	M/s S.K. Engineering	01.06.2004	18.05.2004
6.	KR/KK/17884	M/s Engineers Consortium	01.03.2004	01.03.2004
7.	KR/16315	M/s Jyathishasatnam Monthly	01.06.1998	01.06.1998

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.



[S.R.Joshi]

Regional Provident Fund Commissioner (Compliance)

S.O. C-1(4)2113/04/TN/22487 _ whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely:

S.No.	Code No.	Name of the Establishment	Date of Coverage	Date of Consent
1.	TN/VLR/38659	M/s V.K.V. Matriculation School	11.6.2001	11.6.2001
2.	TN/TI/46966	M/s Devakalanilayam Matriculation School	24.7.2002	24.7.2002
3.	TN/TI/46994	M/s Naesay Security Service	11.11.2002	11.11.2002
4.	TN/50421	M/s Trimentus Technologies (P) Ltd.	14.7.2003	14.7.2003
5.	TN/TI/55007	M/s Kanyakumari Divisional Postal Dept. Employees Co-op Thrift & Credit Society	23.12.2002	23.12.2002
6.	TN/TI/55028	M/s Indian Ariya Manal Aalai Oppontha Thozhilalargal Munnetra Sangam	26.2.2003	26.2.2003
7.	TN/VLR/38307	M/s Hotel Jayabala International	31.8.98	31.8.98
8.	TN/VLR/38328	M/s Thenkarumbalur Primary Agriculture Co-op Bank	29.9.98	29.9.98
9.	TN/VLR/38529	M/s C-1053, S.K.Thandalum PACB	21.10.99	21.10.99
10.	TN/VLR/38637	M/s S.Krishnapuram MPCS	14.8.2000	14.8.2000
11.	TN/TI/46960	M/s Kanyakumari District Labour Contract Co-operative Society Ltd.	17.7.2002	17.7.2002
12.	TN/47573	M/s K.K.127, The Hosur Primary Agricultural Co-op Bank	1.1.2003	1.1.2003
13.	TN/50272	M/s The Instant House Keeping Services	16.9.2002	16.9.2002
14.	TN/50468	M/s Surya World	4.9.2003	4.9.2003
15.	TN/TI/55014	M/s Rajavour Women Milk Producers Co-op Society	20.1.2003	20.1.2003
16.	TN/VLR/38868	M/s Chinnakesakuppam MPCS	27.10.2003	27.10.2003

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.


[S.R.Joshi]

Regional Provident Fund Commissioner (Compliance)

CPFC.1(4)/2117/2004/KN

S.O. _____ whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely:

S.No.	Code No.	Name of the Establishment	Date of Coverage	Date of Consent
1.	KN/35499	M/s Gram Vikas	01.12.003	03.11.2003
2.	KN/35414	M/s Dhruva Infotech Pvt. Ltd.	10.06.2003	04.04.2003
3.	KN/35480	M/s Metal Care Pvt. Ltd.	01.11.2003	06.10.2003
4.	KN/35463	M/s MicroVillage Softech Pvt. Ltd.	01.10.2003	06.09.2003
5.	KN/35365	M/s Gangagen Biotechnologies Pvt. Ltd.	04.03.2003	04.03.2003
6.	KN/35494	M/s BEA Systems Coustomer Support and Research Center Pvt. Ltd.	01.11.2003	01.11.2003
7.	KN/35489	M/s Support Soft (E) Pvt. Ltd.	01.12.2003	13.12.2003
8.	KN/35458	M/s BCS Praagman Computer Services.	01.09.2003	01.09.2003
9.	KN/35407	M/s First Sight Computing (I) P Ltd.	12.06.2003	12.06.2003
10.	KN/35481	M/s Web International Cargo	01.11.2003	20.10.2003
11.	KN/35473	M/s E-Com Service Consulting Pvt. Ltd.	01.10.2003	30.09.2003
12.	KN/35443	M/s Alectrasoft Technologies (P) Ltd.	01.08.2003	01.08.2003
13.	KN/22992	M/s Eachagere M.P.C.S. Ltd.	01.04.2003	05.02.2003
14.	KN/36004	M/s M.D.C.U. Ltd.	08.04.2003	08.04.2003
15.	KN/36009	M/s Sathanur M.P.C.S. Ltd.	01.04.2003	30.03.2003
16.	KN/38027	M/s Benakes Services	01.12.2003	01.12.2003
17.	KN/36008	M/s Ganadallu M.P.C.S. Ltd.	01.04.2003	28.03.2003
18.	KN/36019	M/s Maralinganadaddi M.P.C.S. Ltd.	01.05.2003	31.03.2003
19.	KN/MNG/38018	M/s Kamath Electricals	01.10.2003	01.10.2003

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.


[S.R.Joshi]

Regional Provident Fund Commissioner (Compliance)

CPEC.1(4)/2110/2004/KR

S.O. _____ whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely:

S.No.	Code No.	Name of the Establishment	Date of Coverage	Date of Consent
1.	KR/16792	M/s Sree Udiyan Devi Kshetra Yogam	25.08.2003	25.08.2003
2.	KR/KK/17863	M/s Apex Public School	01.12.2003	18.11.2003
3.	KR/19277	M/s Alankar Clay Products	01.06.2000	26.05.2000
4.	KR/19365	M/s Jananeethi	01.03.2001	01.03.2001
5.	KR/KC/19776	M/s Ernakulam Press Club	01.09.2003	01.09.2003
6.	KR/16805	M/s Flemingo (DFS) Pvt. Ltd.	01.09.2003	30.08.2003
7.	KR/16881	M/s Clean & Clean	10.02.2004	10.02.2004
8.	KR/16866	M/s A & Z House Keepers	05.01.2004	05.01.2004
9.	KR/KC/19866	M/s Thenali Electronic Company	01.02.2004	29.01.2004
10.	KR/16844	M/s Care-4	12.12.2003	12.12.2003
11.	KR/16883	M/s C World Holidays (P) Ltd.	19.02.2004	19.02.2004
12.	KR/KC/19892	M/s Vikas Funds and Kuries (P) Ltd.	01.03.2004	01.03.2004

Now, therefore; in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.


[S.R. Joshi]

Regional Provident Fund Commissioner (Compliance)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Chennai-600 034, the 27th July 2004

(Chartered Accountants)

3SCA(5)/1/2003-2004: With reference to this Institute's Notification Nos.4SCA(1)/4/1982-83 dated 31st March 1983, 3SCA(4)/5/1992-93 dated 27th November 1992, 3SCA (4)/4/1994-95 dated 22nd February 1995, 3SCA(4)/4/1995-96 dated 12th March 1996, 3SCA (4)/3/96-97 dated 11th December 1996 3SCA(4)/3/1997-98 dated 31st March 1998, 3SCA(4)/4/1998-99 dated 7th May 1999 3SCA(4)/4/1999-2000 dated 17th April 2000, 3SCA(4)/5/2000-01 dated 12th December 2001, 3SCA(4)/5/2001-02 dated 21st May 2002 3SCA(4)/4/2002-03 dated 30th April 2003 and No. 25-CA(48)/1995-96 dated 7th July 2003 it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following members:-

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
1	005504	Mr. RAMALINGESWARA SARMA E FCA G-3 KALANJALI NIVAS HANMANJI COLONY BRIG. SAYEED ROAD TARBUND SECUNDERABAD 500 009	14/07/2003	9	019033	Mr. SUBBA RAO G S V K ACA 304 PRADEEP APARTMENTS GANDHI NAGAR NEW BAKARAM HYDERABAD 500080	22/04/2003
2	015107	Mr. VIJAYAKUMAR R ACA FCG/3 PDO P O BOX NO 81 PC 113 MUSCAT SULTANATE OF OMAN	25/06/2003	10	020029	Mr. RAJAMANNAR G FCA SRI GOVIND ILLAM NO:9 48TH STREET NANGANALLUR CHENNAI 600061	28/04/2003
3	016301	Mr. NATARAJAN S ACA NEW NO 19 (OLD NO 10) 5TH MAIN ROAD R A PURAM CHENNAI 600 028	11/07/2003	11	020030	Mr. BABU SRINIVAS M S ACA 1711 ROYAL OAK ROAD APT 1A PITTSBURG P A 15220 U S A	29/05/2003
4	018435	Mr. NITHYANANDAN T K ACA 'NATHAN'S ANUSH' NO.17B III FLOOR I MAIN ROAD INDIRA NAGAR CHENNAI 600 020	28/07/2003	12	020166	Mr. NANDA KUMAR N ACA FINANCIAL CONTROLLER M/S SDV AMI ZAMBIA LTD P O BOX 30131 LUSAKA ZAMBIA	11/04/2003
5	018497	Mr. RAVIRAJ M FCA 107/3, FIRST FLOOR 8TH CROSS, 6TH MAIN MALLESWARAM BANGALORE 560 003	23/06/2003	13	021313	Mr. SHANKAR V S ACA 15, 5TH CROSS GANESHA BLOCK DINNUR MAIN ROAD R T NAGAR BANGALORE 560032	27/08/2003
6	018559	Mr. MATHEW C ACA FLAT NO 105, KANJAN JUNG APTS. CIVIL LINES ROAD PALARIVATTOM KOCHI 682 025	27/05/2003	14	021537	Mr. PESALA MASTAN RAO ACA FLAT NO. 201 SRI SAI NIVAS L I C COLONY NEAR SRINAGAR COLONY HYDERABAD 500073	02/04/2003
7	018564	Mr. JEYARAMAN P L A FCA ASST.GENERAL MANAGER ACCOUNTS RECONCILIATION CELL KARUR VYSYA BANK, CENTRAL OFFICE KARUR 639 002	06/06/2003	15	021674	Mr. SRINIVASAN V V FCA 15 LINCOLN AVENUE MONT ALBERT NORTH VIC 3129 AUSTRALIA	05/08/2003
8	018625	Mr. GOPALAKRISHNAN P ACA VICE PRESIDENT - CORPORATE AUDIT SOBHA DEVELOPERS PVT LTD E-106 SUNRISE CHAMBERS 22 ULSOOR ROAD BANGALORE 560042	08/07/2003	16	021874	Mr. SANKARAN D ACA NO 1629, 1 CROSS STREET RAMA MOHAN PURAM (NEAR DEVAIAH PARK) BANGALORE 560021	12/08/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.	S.No.	MRN	Member Na & Address	Restore Dt.
17	022121	Mr. LAZAR R ACA 52/C, UPSTAIRS KALMETTU STREET VEERESWARAM SRIRANGAM TIRUCHIRAPALLI 620 006	18/06/2003	27	025265	Mr. RAMACHANDRAN R ACA 17, SRIPURAM TIRUNELVELI JUNCTION TIRUNELVELI 627 001	13/05/2003
18	022412	Mr. HARIHARAN M FCA 304/B HVS COURTS 21 CUNNINGHAM ROAD BANOALORE 560 052	14/08/2003	28	025642	Mr. NARAYANAN S L ACA CORPORATE VICE PRESIDENT-FINANCE- HCL TECHNOLOGIES LIMITED A-10-11 SECTOR-3 NOIDA 201 301	24/07/2003
19	022776	Mr. RANGANATHAN VENKATARAMAN ACA INTERNAL AUDIT MANAOER DUBAI NATIONAL INSURANCE AND REINSURANCE PSC P O BOX 1806 DUBAI U A E	11/07/2003	29	026058	Mr. SRINIVAS REDDY M ACA PLOT NO. 132 SECTOR 4 M V P COLONY VISAKHAPATNAM 530 017	07/05/2003
20	022822	Mr. BALASUNDARA RAMASARMA M ACA 502 SWAORUHAMOTI APTS NEAR I O B MOTINAOAR 'X' ROADS HYDERABAD 500 018	12/05/2003	30	026555	Mr. VENKATESH U ACA C/O MR J MARTIN JOSEPH SELVARAJ 20-A, SECOND CROSS STREET TRUSTPURAM KODAMBAKKAM CHENNAI 600 024	15/07/2003
21	023382	Mr. MOHAN KURUVILLA ACA PROFESSOR HOUSTON BAPTIST UNIVERSITY 7502 FONDREN ROAD HOUSTON T X 77101 U S A	19/08/2003	31	027092	Mr. CHITRA PRASAD ACA 134E TUNGABADRA STERLING ROAD NUNGAMBAKKAM CHENNAI 600 034	05/09/2003
22	023930	Mr. MOHAMED SATHIQUUL AMEEN M ACA 22, 2ND STREET LAKE AREA NUNOAMBAKKAM CHENNAI 600 034	28/04/2003	32	027629	Mr. JOSEPH THOMAS ACA FINANCIAL CONTROLLER M I GULF SERVICES LLC P O BOX 2851, DUBAI U A E	07/05/2003
23	024502	Mr. UMAPATHY RAO K ACA EXECUTIVE DIRECTOR BOSS PROFILES LIMITED 14/A, AARAI COMPLEX ANNA NAOAR EAST CHENNAI 600 102	08/08/2003	33	028146	Mr. SUNDAR A ACA NO 43, SECOND STREET GILL NAGAR CHOOOLAIMEDU CHENNAI 600 094	30/04/2003
24	024617	Mr. VENKATA SWAMY T N ACA SECTOR - I/ 205-B UKKUNAGARAM VISAKHAPATNAM 530 032	07/04/2003	34	028764	Mr. NAGARAJAN P ACA ASSISTANT MANAOER (F & A) DYNA TRADE P O BOX NO 22842 SHARJAH U A E	30/06/2003
25	024997	Mr. RAVI S FCA FLAT NO 5303, NANDI ENCLAVE II CROSS VTH BLOCK BANASANKARI 3RD STAGE BANOALORE 560085	22/08/2003	35	028798	Mr. PARTHASARATHY R ACA OENRAL MANAOER AUTO WORLD SPARE PARTS EST P O BOX 20145 DUBAI U A E	11/09/2003
26	025009	Mr. NARAYAN B S ACA 3-5-45/6/2 EDEMBAOH RAMKOTE HYDERABAD 500 001	30/07/2003	36	028849	Mr. THANUMALAYAN S N FCA B5, 'NARMADA APARTMENTS' SUBRAMANYAM STREET ABHIRAMAPURAM CHENNAI 600 018	01/04/2003
				37	028905	Mr. VIPINCHANDRAN S ACA FINANCIAL CONTROLLER HASSAN ABUL EST P O BOX 3034 SAFAT 13031 KUWAIT	26/05/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
38	029220	Mr. NAGARAJAN V FCA FINANCIAL CONTROLLER QUALIPLAST LTD P O BOX 7136 ACCRA NORTH, ACCRA GHANA WEST AFRICA	06/08/2003
39	029334	Mr. LAKSHMINARAYANAN T V ACA 405, GOLF MANOR NALWIND TUNNEL ROAD MURUGESHAPALAYA BANGALORE 560 017	19/05/2003
40	029851	Mr. GANESH V ACA 102, GITC, BLOCK 2 3RD MAIN 5TH CROSS DOLLARS LAYOUT BTM STAGE II, BILEKAHALLI BANGALORE 560 076	28/04/2003
41	043190	Mr. GURU DUTT KAMALAX SHENOY ACA 6/1-5, PYE STREET WESTMEAD NSW 2145 SYDNEY AUSTRALIA	11/08/2003
42	043841	Mr. GEORGE THOMAS ACA FLAT NO 108 B-WING KAMALAKAR BHUVAN CHS EKSAR-MHATRE ROAD BORIVALI (W) MUMBAI 400 103	03/07/2003
43	050449	Mr. SHIV PRAKASH NANDA ACA GROUP FINANCE DIRECTOR ASSARAIN GROUP OF COMPANIES P O BOX 1475 P C 112 RUWI SULTANATE OF OMAN	27/05/2003
44	052657	Mr. MATHEW MATHAI ACA 153, JAL VAYU VIHAR KAMANAHALLI MAIN ROAD BANGALORE 560 043	24/06/2003
45	073055	Mr. SRINIVAS CHITTA ACA 12-13-312, FLAT NO 201 AKANKSHA APTS STREET NO 13 TARNAKA HYDERABAD 500 017	12/05/2003
46	081164	Mr. BHASKARAKRISHNA B V S ACA FLAT NO 109 SARASWATI RESIDENCY PADMA RAO NAGAR SECUNDERABAD 500 025	01/08/2003
47	093159	Mr. GANAPATHY SUBRAMANIAM R ACA 2043 FORD STREET BROOKLYN N Y 11229 U S A	26/08/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
48	106607	Mr. KIRTHIVASA GUHAN S K ACA 30, WOODCREST WALK REIGATE SURREY RH2 0JL UNITED KINGDOM	21/05/2003
49	200272	Mr. BALASUBRAMANIAN P ACA MANAGER-FINANCIAL ADMINISTRATION CRANE BANK LIMITED PLOT 38 KAMPALA ROAD PO BOX 22572 KAMPALA UGANDA	21/04/2003
50	200655	Mr. SUDHAKAR Y R N FCA P O BOX 26489, ADLIYA KINGDOM OF BAHRAIN	16/04/2003
51	200837	Mr. RAMESH N CHARI ACA ASSOCIATE DIRECTOR M/S BARCLAYS CAPITAL NO 200, PARK AVENUE NEW YORK 10166 U S A	22/04/2003
52	200912	Mr. SOURIRAJAN A ACA NEW NO 78 (OLD NO 80) KAPALEESWARAR KOIL STREET MYLAPORE CHENNAI 600 004	16/06/2003
53	201197	Mr. PARAMESWARAN B ACA FINANCE & ADMN.MANAGER JANSSEN CILAG GOLF P O BOX 9556 DUBAI, U A E	23/06/2003
54	201250	Mr. ANAND J ACA BRANCH MANAGER L I C OF INDIA ERODE SOUTH BRANCH 13, RAILWAY STATION ROAD ERODE 638 001	08/05/2003
55	201348	Mr. KRISHNAN G ACA A6 TEEN MURTHY APARTMENTS NATESAN COLONY ALWARPET CHENNAI 600 018	22/04/2003
56	201458	Mr. NARASHIMHA MURTHY B R ACA 'VASISHTA' FIRST FLOOR 3RD CROSS ACHUTHARAO LAYOUT SHMOGA 577202	04/04/2003
57	201519	Mr. ZIAD K M ACA FINANCE MANAGER UNITED PAPER INDUSTRIES BSC (I) P O BOX 2004 MANAMA BAHRAIN	13/08/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
58	201588	Mr. PREM SEBASTIAN ANTONY ACA CHIEF FINANCIAL OFFICER NEURO SPINAL HOSPITAL P O BOX 71444 DUBAI U A E	19/08/2003	67	203270	Mr. SURESH A ACA FINANCIAL CONTROLLER MFI OFFICE SOLUTIONS LTD PO BOX 49160 NAIROBI KENYA	02/04/2003
59	201784	Mr. VARADHARAJAN S ACA BLOCK 325 CLEMENTI AVENUE 5 #02-137 SINGAPORE 120325	30/05/2003	68	203874	Mr. RAGHAVENDRA T ACA NO 8, SWARNA KUNJ DODDABOMMA SANDRA IV BLOCK BANGALORE 560 097	04/04/2003
60	202133	Mr. SURI BABU GOPI ACA GOPI STREET NEAR KANYAKAPARAMESWARI TEMPLE CANAL ROAD WEST GODAWRI DIST PENUGONDA 534320	19/05/2003	69	203891	Ms. SOBHA RANI MANDAVA ACA BUILDING 32, UNIT 17 55 MILL PLAIN ROAD DANBURY C T 06811 U S A	14/07/2003
61	202181	Mr. SHIJU ABRAHAM THOMAS ACA SENIOR ASSOCIATE WORLD FINANCIAL GROUP 1120 FINCH AVE WEST SUITE 507, DOWNSVIEW ONT M3J 3H7 CANADA	28/07/2003	70	204106	Ms. SHUBHA S ACA NO. 4, 77TH STREET 16TH AVENUE ASHOK NAGAR CHENNAI 600083	28/08/2003
62	202188	Ms. SREE LATHA ACA 4918 KIMBALL LANE CARPENTERSVILLE IL 60110 U S A	13/08/2003	71	204197	Mr. BALAJI P ACA 55 ELLSWORTH ST. LADERA RANCH C A 92694 U S A	07/08/2003
63	202384	Mr. AJAY KUMAR FCA C/O CRANE BANK LIMITED P O BOX 22572 PLOT NO.20/38 KAMPALA ROAD KAMPALA UGANDA EAST AFRICA	23/05/2003	72	204210	Mr. VENKAT RAO MERLA ACA HEAD BUSINESS DEVELOPMENT & FINANCE INTEQ SOFTWARE LTD 1365, ROAD NO 45 JUBILEE HILLS HYDERABAD 500033	31/07/2003
64	202928	Mr. JALEEL V P FCA OFFICER OPERATIONS - OPERATIONS DEPT. ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY P B NO. 3600 ADIA ABU DHABI U A E	02/07/2003	73	204579	Mr. SRINIVASAN D ACA 18 BIG STREET TRIPLICANE CHENNAI 600005	23/05/2003
65	203171	Mr. SUBRAMANIAM M ACA 502-A, JAYADURGA TOWERS MAHALAKSHMI ILLAM BHOLAKPUR SECUNDERABAD 500 080	21/08/2003	74	205017	Mr. SRINIVASA SUBRAMANIAN S ACA BG 1 & 2 ITTINA SARVA APARTMENTS 4TH CROSS, BALAJI LAYOUT HONGASANDRA BANGALORE 560068	13/05/2003
66	203252	Mr. RAVI KACA GENERAL MANAGER (FINANCE & ACCOUNTS) REGENCY CREATIONS LIMITED C-69 SECTOR 58 NOIDA 201307	25/07/2003	75	205115	Mr. VIJAYA KUMAR BUDDI ACA APARTMENT NO 102 MOONLIGHT RESIDENCY PLOT NO 145, SIDDARTHA NAGAR HYDERABAD 500038	18/06/2003
				76	205555	Mr. SURESH REDDY K V ACA FINANCE MANAGER-PHARMACEUTICALS M/S GLAXO SMITHKLINE PHARMACEUTICALS LIMITED DR ANNIE BESANT ROAD WORLI, MUMBAI 400 025	28/07/2003
				77	205730	Ms. SHANTHI M S ACA 45 4TH MAIN ROAD JAWAHAR NAGAR CHENNAI 600082	19/05/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
78	205815	Mr. LAKSHMI NARASIMHA SASTRY K ACA 22/05/2003 FINANCIAL CONTROLLER MAKSS PACKAGING INDUSTRIES LTD P O BOX 20141 NAKAWA INDUSTRIAL AREA KAMPALA UGANDA	
79	205850	Mr. VENKAT RAGHAVAN R ACA 01/07/2003 FINANCE MANAGER RAK BANK - HEAD OFFICE P O BOX 5300 RAS AL KHAIMAH U A E	
80	205871	Mr. MATHEW P CHERIAN ACA 06/05/2003 301 LALS RESIDENCY ADOOR 691523	
81	205900	Mr. SANJAY PURUSHOTHAMAN ACA 16/07/2003 A-4, PONNY E-14, ANNA NAGAR CHENNAI 600102	
82	205911	Mr. CHELLAPPA K N ACA 07/05/2003 ASSISTANT MANAGER ALBA MALAYSIA LIMITED 5TH FLOOR, MAIN OFFICE TOWER, FINANCIAL PARK JALAN MERDEKA, 8700 WP LABUAN MALAYSIA	
83	205947	Mr. ANANTHA NARAYANAN N ACA 16/04/2003 PROJECT ACCOUNTANT C/O SHELL IRAN OFFSHORE LTD P O BOX # 62997 DUBAI 0 U A E	
84	206026	Mr. MOHAN GUNTUPALLI ACA 30/07/2003 H NO 5-6-111, PLOT NO 647 ROAD NO 10 VAIDEHI NAGAR VANASTHALIPURAM HYDERABAD 500070	
85	206135	Mr. MADHUSUDAN SHARMA S ACA 25/04/2003 9/22 AMBA NAGARI DHANORI ROAD VISHRANTWADI PUNE	
86	206591	Mr. HAROON RAHMATHULLA ACA 04/07/2003 67 EAST 3RD STREET APARTMENT 3C NEW YORK 10003 U S A	
87	206743	Mr. MARTIN JACOB ACA 07/08/2003 A31, PRODECO ONNE, PORT HARCOURT RIVERS STATE NIGERIA	

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
88	207032	Mr. VEERA VENKATA SATISH GOTTIPATI ACA 23/06/2003 FINANCE MANAGER BHC AGRO (INDIA) PVT LTD NALCO HOUSE, ROAD NO 2 BANJARA HILLS HYDERABAD 500033	
89	207195	Mr. SREE RAM GUPTA KANAMARLAPUDI ACA 21/04/2003 C-4 REGENCY APTS. BEACH ROAD KALAKSHETRA COLONY BESANT NAGAR CHENNAI 600090	
90	207212	Ms. MRUDULA K S ACA 15/07/2003 843, 'ARUNODAYA' 13TH CROSS, 3RD MAIN MAHALAXMI LAYOUT BANGALORE 560086	
91	207274	Mr. KRISHNA KISHORE K ACA 25/04/2003 PLOT NO 316, 'B' BLOCK HILINE ARCADE APARTMENTS NEAR MUSHEERABAD 'X' ROADS BOULAKPUR HYDERABAD	
92	207355	Mr. VENKATABABU RAO JAMI ACA 21/04/2003 206 KVK'S CLASSIC HOMES PLOT NO 189 & 190 KALYAN NAGAR, VENTURE III NEAR MOTI NAGAR 'X' ROADS, (BORABANDA) HYDERABAD 500018	
93	207642	Mr. SRINIVASA SARAVAN KANUPARTHY ACA 04/06/2003 2H-1B LANDLINKS TOWNSHIP OPP: 2ND CROSS J N VILLA, DEREBAIL KONCHADY MANGALORE 575003	
94	208393	Ms. GAYATHRI N ACA 08/07/2003 NO 3/1, KESHAVAPERUMAL WEST STREET MYLAPORE CHENNAI 600004	
95	208818	Ms. VISHAKHA CHHAWCHHARIA ACA 28/04/2003 33/5 VICTORIA ROAD FIRST CROSS BANGALORE 560047	
96	208961	Mr. ARMSTRONG S A ACA 05/09/2003 R S M & CO, P O BOX 1171 POSTAL CODE 112 RUWI, SULTANATE OF OMAN	
97	209063	Mr. ELANGO VAN P ACA 06/05/2003 FLAT NO 2, ALANKAR RATHINAM FLATS NO 1A, PADASALAI STREET LAKSHMIPURAM CHROMEPET CHENNAI 600044	

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
98	209138	Mr. VIJAYAKUMAR P ACA DIVISIONAL MANAGER NATIONAL INSURANCE CO LTD. 47-13-1, SREENIVASA BHAVAN DWARAKANAGAR VISAKHAPATNAM 530 016	28/05/2003	105	210388	Mr. MANOJ P JOSEPH ACA FINANCE MANAGER NABEEL PERFUMES P O BOX 5332 DUBAI U A E	24/07/2003
99	209191	Mr. DINESH KUMAR K ACA 45/1180, JEEVAN BIMA NAGAR ANNA NAGAR WEST EXTN CHENNAI 600 101	06/06/2003	106	210458	Mr. UMESH PUROHIT ACA PLOT NO.50 SHIV SUNDAR APARTMENT KHARE TOWN NAGPUR 440 010	13/05/2003
100	209288	Mr. YOONUS AVANI VEEDU ACA 14/746 AVANI VEEDU KUNDUNGAL KOZHIKODE 673 003	21/07/2003	107	210657	Mr. BHAVADAS K C ACA EXECUTIVE MOORES ROWLAND P O BGX 401805 GABORONE BOTSWANA	22/05/2003
101	209520	Mr. SARATH BABU MANDUVA ACA 403, VISUA HERITAGE RESIDENCY I - PHASE DHARMA REDDY COLONY KUKATPALLY HYDERABAD 500 072	01/07/2003	108	210716	Mr. KALPESH R MAROO ACA 35, SHARAVATI ROAD GRUHALAXMI HOUSING COLONY 1 STAGE, WEST OF CHORD ROAD BANGALORE 560 079	21/05/2003
102	209661	Mr. AMBIKA S ACA SRT 472 SANATH NAGAR HYDERABAD 500018	05/06/2003	109	210862	Mr. GOPAL R ACA 8-3-988/34/1 SBH COLONY SRINAGAR COLONY EXTN HYDERABAD 500 073	18/08/2003
103	209742	Mr. CHITRA S ACA 17 BALAJI VENUE LUZ CHURCH ROAD MYLAPORE CHENNAI 600 004	09/06/2003				
104	210302	Mr. RAMKUMAR N ACA 58 NEW ROAD HAYES MIDDLESEX UB3 5BQ U K	05/05/2003				

Ashok Haldia
(ASHOK HALDIA)
SECRETARY

(Chartered Accountants)

3SCA(5)/2/2003-2004: With reference to this Institute's Notification Nos. 3SCA(4)/4/1994-95 dated 22nd February 1995, 3SCA(4)/4/1995-96 dated 12th March 1996, 3SCA(4)/3/1996-97 dated 11th December 1996, 3SCA(4)/3/1997-98 dated 31st March 1998, 3SCA(4)/4/1998-99 dated 7th May 1999, 3SCA(4)/5/2000-01 dated 12th December 2001, 3SCA(4)/5/2001-02 dated 21st May 2002, 3SCA(4)/4/2002-2003 dated 30th April 2003 and 3SCA(4)/7/2002-03 dated 3rd June - 2003 it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountant Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored retrospectively to the Register of members with effect from the dates mentioned against their names the names of the following members:-

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
1	002730	Mr. NANDURI SUBBA RAO FCA 7-84-I, ZAHEER NAGAR HABSIGUDA HYDERABAD 500007	01/10/2002	10	018054	Mr. RAJAGOPALAN T V FCA 125 3RD MAIN 6TH CROSS KORAMANGALA I BLOCK BANGALORE 560034	01/10/2002
2	004816	Mr. LAKSHMINARAYANAN S ACA NEW NO.19 (OLD NO.10) DESIKA ROAD MYLAPORE CHENNAI 600004	01/10/2002	11	018174	Mr. MURALIDHARAN R ACA CHIEF MANAGER PUNJAB NATIONAL BANK MYLAPORE - BRANCH OFFICE 150 LUZ CHURCH ROAD CHENNAI 600004	08/12/2000
3	009281	Mr. RATNAM PALURI VENKATA FCA 7-29 BAPUJI NAGAR NACHARAM HYDERABAD 500076	01/10/2002	12	018585	Mr. SRIDHAR M FCA 8-3-319/B/24/9 B/H SARADHI STUDIOS YELLAREDDYGUDA AMEERPET HYDERABAD 500007	01/10/2002
4	012123	Mr. CHAKRAPANI P S FCA FLAT NO 4-A, 4TH FLOOR KASTHURI APARTMENTS J P AVENUE, R K SALAI CHENNAI 600004	01/10/2002	13	018636	Mr. SOMADAS G C FCA 7-4-I II FLOOR 59TH CROSS V BLOCK RAJAJINAGAR BANGALORE 560010	01/10/2002
5	012244	Mr. ZAHIR AHAMED A M ACA 6 SECRETARIAT COLONY ADAMBAKKAM CHENNAI 600088	01/10/2002	14	018718	Mr. SOMASEKHARAN P S FCA 19, AMBER GARDENS # 12-23 SINGAPORE 208787	01/10/2002
6	012938	Mr. PANTULU PUTTAPURATI CHENCHALAH FCA FI VIJITHA RESIDENCY PLOT 86 METHODIST COLONY UMANAGAR BEGUMPET HYDERABAD 500016	01/10/2002	15	018823	Mr. MOHAMMED ZAFARULLAH M FCA 121 VARIETY HALL ROAD COIMBATORE 641001	01/10/2002
7	014011	Mr. NAWARATAN MAL JAIN FCA 105 GOVINDAPPA NAICKEN STREET 3RD FLOOR CHENNAI 600001	01/10/2002	16	018880	Mr. RAMA MURTHY S L FCA 10, III FLGR. KURUBARASANGHA SILVER JUBILEE BUILDING GANDHI NAGAR BANGALORE 560009	01/10/2002
8	014059	Mr. RAVI SANKAR SUBRAMANIAM FCA NO:65/30 SOLAIAPPAN STREET MYLAPORE CHENNAI 600004	01/10/2002	17	018950	Mr. SHANKAR RAM S ACA NO 406/C 4TH MAIN ROAD 'B' BLOCK, VINAYAKA NAGAR KONENA AGRAHARA BANGALORE 560017	01/10/2001
9	016148	Mr. KRISHNAN V FCA CHIEF EXECUTIVE OFFICER STRATEGIC FOODS INTERNATIONAL CO LLC PB NO 53193 DUBAI, U A E	01/10/2002	18	018977	Mr. NARAYANA V FCA II FLOOR ARYA PLAZA #3/5 BULL TEMPLE ROAD CHAMARAJPET WEST BANGALORE 560018	01/10/2002

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
19	019013	Mr. VARKEY GEORGE K ACA GENERAL MANAGER-FINANCIAL A/CS MALAYALA MANORAMA CO LTD P B NO 6, K K ROAD KOTTAYAM 686001	01/10/2002	30	020581	Mr. BALAMURALI V FCA NEW NO 13 (OLD NO.7) MD.ABDULLA SAHIB STREET II LANE, CHEPAUK CHENNAI 600005	01/10/2002
20	019194	Mr. SRIDHARAN K V FCA MERGERS & ACQUISITION CONSULTANT IDEAL BUSINESS COMBINATIONS INC 1918 DUNLOE CIRCLE DUNEDIN FLORIDA 34698 USA	01/10/2002	31	020828	Mr. SEKHAR S N S R FCA KRISHNA KUTEER 5-210/4, KRISHNA COLONY OLD BOWENPALLY SECUNDERABAD 500011	01/10/2002
21	019234	Mr. VARADARAJAN R FCA NO.17 (OLD NO.5) ARYA GOWDA ROAD WEST MAMBALAM CHENNAI 600033	01/10/2002	32	020965	Mr. MOHAN RAJ K S FCA MANAGING DIRECTOR ALPHA FINANCIAL CONSULTANCY - SERVICES PRIVATE LTD. SABARI COMPLEX, 24 RESIDENCY ROAD BANGALORE 560025	01/10/2002
22	019255	Mr. THANIGARAJU S ACA 20, I CROSS RAJAIYYAR THOTTAM SARAM PONDICHERRY 605013	01/10/2002	33	021183	Mr. KRISHNAN A G ACA FLAT NO 2-D, VISHNU VILAS APTS 11, 3RD CROSS K R LAYOUT J P NAGAR, VI PHASE BANGALORE 560078	01/10/1998
23	019480	Mr. VIJAYKUMAR M N FCA NO 88, R V ROAD BASAVANAGUDI BANGALORE 560004	01/10/2002	34	021253	Mr. HEMACHANDRAN M M ACA D NO 31-12-1/3 NEAR TELEPHONE EXCHANGE GAYATRI SCHOOL ROAD KURMANAPALEM VISAKHAPATNAM 530046	01/10/2002
24	019618	Mr. UDAYA BHASKAR P FCA DEPUTY GENERAL MANAGER INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 304 BHAI NAGAR BHUBANESWAR 750022	01/10/2002	35	021259	Mr. BABU THIAGARAJAN ACA NO 14, 4TH CROSS STREET KARPAGAM GARDENS ADYAR CHENNAI 600020	01/10/1996
25	019700	Mr. MURALIDHARAN M S ACA 32 SUNDARAM STREET BHARATHI NAGAR RANIPET 632403	08/12/2000	36	021375	Mr. KRISHNAN R FCA 2A, ANUGRAHA APARTMENTS 5, IV SEAWARD ROAD VALMIKI NAGAR TIRUVANMIYUR CHENNAI 600041	01/10/2002
26	019812	Mr. SURYANARAYANAN G ACA FINANCIAL CONTROLLER RSH (MIDDLE EAST) LLC AL MAKTOUM STREET DEIRA P O BOX 20764 DUBAI U A E	01/10/2002	37	021387	Mr. GURURAJA RAO A FCA 16-7-813/9/1 VINAYAKA STREET OPP.MALAKPET RAILWAY STATION SAHIFA POST HYDERABAD 500024	01/10/2002
27	019852	Mr. MANOHARA RAO S ACA GUNUNG PUTRI 30 TAMAN DAGO LIPPO CIKARANG BEKASI 17530 INDONESIA	01/10/2002	38	021413	Mr. BALASUBRAMANIYAN S P FCA OPP: TO T R V COMPLEX 1212-A, RANGAI GOWDER STREET COIMBATORE 641001	01/10/2002
28	020176	Mr. HARISHA BHAT A ACA SR VICE PRESIDENT - FINANCE MC DOWELL & COMPANY/LTD 51 RICHMOND ROAD BANGALORE 560025	01/10/2002	39	021419	Mr. VIJAYAKUMAR N S FCA 253/D 5TH MAIN MILK COLONY MALLESHWARAM WEST BANGALORE 560055	01/10/2002
29	020354	Mr. VAITHEESWARAN R FCA FLAT NO S - I GURU VILAS MADHURAMS APTS 141 KUTCHERY ROAD MYLAPORE CHENNAI 600004	01/10/2002				

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
40	021545	Mr. BANGARU RAJU O ACA MANAGING DIRECTOR GMR TAMBARAM TINDIVANAM EXPRESSWAYS P LTD 25/1 SKIP HOUSE MUSEUM ROAD BANGALORE 560025	01/10/2001	50	023080	Mr. KUCHIBHOTLA SYAM SUNDAR PCA 1-2-412/15/A GAGANMAHAL COLONY HYDERABAD 500029	01/10/2002
41	021615	Mr. RAJENDRAN S PCA 39 BHARATHI COLONY PEELAMEDU COIMBATORE 641004	01/10/2002	51	023179	Mr. POKURU SUBBA RAO PCA NO 18-1-502/A3 CHENJI PLAZA K T ROAD TIRUPATI 517507	01/10/2002
42	021636	Mr. NARENDRAN P ACA 4 SANDY LANE PETERSHAM RICHMOND UPON THAMES SURREY TW10 7EN UNITED KINGDOM	08/12/2000	52	023287	Mr. ASHOK JAYARAM ACA 'SASI-VILAS' NO 28 DEWAN RAMA ROAD FLOWERS ROAD CHENNAI 600084	01/10/2001
43	021656	Mr. REDDY B M PCA NO 47 'D' SEETHARAMA BUILDING J C ROAD BANGALORE 560002	01/10/2002	53	023334	Mr. NAVANEETHA KRISHNAN S PCA MANAGING DIRECTOR BRIDGEWAY TEXTILES P LTD NO 18 MURUNGAPALAYAM 1ST STREET TIRUPUR 641603	01/10/2002
44	022033	Ms. ANURADHA J ACA 2 17TH CROSS INDIRA NAGAR II STAGE 4A MAIN 1ST FLOOR BANGALORE 560038	01/10/2002	54	023586	Mr. KRISHNAMURTHI M ACA SB-2, SELFIN APARTMENTS P V RAJAMANNAR SALAI K K NAGAR CHENNAI 600078	01/10/2002
45	022105	Mr. SRIRAMAN K PCA NO 36/5 IV MAIN ROAD GANDHI NAGAR ADYAR CHENNAI 600020	01/10/2002	55	024069	Mr. NASSER MOHAMMED M H ACA 8, 44TH STREET ASHOK NAGAR CHENNAI 600083	01/10/2001
46	022598	Ms. RADHA VENKATAKRISHNAN ACA G-2 OYESTER OPERAA 35 & 36 GANGAI STREET OFF TIGER VARADACHARI ROAD KALAKSHETRA COLONY, BESANT NAGAR CHENNAI 600090	01/10/2002	56	024157	Mr. ATCHUTA RAMAYYA K V N R K ACA 9-19-23 SUNKARAVARI STREET ANAKAPALLI 531001	01/10/2002
47	022869	Mr. VENKITASUBRAMANIAN N N PCA DEPUTY GENERAL MANAGER FINANCE G T N TEXTILES LIMITED PALAL TOWERS RAVIPURAM, M G ROAD KOCHI 682016	01/10/2002	57	024160	Mr. RANGAN N KANNAN PCA 12-C, NEW NO 6, VEERAPANDI NAGAR SECOND STREET CHOLLAIMEDU CHENNAI 600094	01/10/2002
48	022919	Ms. RAGINI SANTHANAM PCA 2 WALGARRA ST COOMA NSN 2630 AUSTRALIA	01/10/2002	58	024371	Mr. SURESH M K ACA JI DAGO PERMAL NO 9 LIPPO CIKARANG BEKASI 17550 JAWA BARAT INDONESIA	01/10/2002
49	022988	Mr. RAMESH N ACA 5CD, 5TH BLOCK KENCES ENCLAVE 1 RAMAKRISHNAN STREET T NAGAR CHENNAI 600017	08/12/2000	59	024490	Mr. SUBRAMONIA PILLAI A ACA MANAGING DIRECTOR FINANCE BANK P O BOX 421 BLANTYRE, MALAWI CENTRAL AFRICA	01/10/2002
				60	024816	Mr. MOHAMMED NIYAMATHULLA M ACA 2/2 HOSUR ROAD WILSON GARDEN BANGALORE 560027	01/10/2002

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
61	024820	Mr. ANANDHAN B PCA BHARATHI NILAYAM 1, BAJANAI KOIL STREET KANNAMMAPET T NAGAR CHENNAI 600017	08/12/2000	72	026045	Ms. LAKSHMI T A PCA BIK 749, # 04-128 YISHUN STREET 72 SINGAPORE 760749	01/10/2002
62	024824	Mr. MALLIKA R PCA 11 LAMBETH AVENUE OFF BAWA ROAD ALWARPET CHENNAI 600018	01/10/1996	73	026106	Mr. ULLAS KAMAT K PCA N-118, MANIPAL CENTRE DICKENSON ROAD BANGALORE 560042	01/10/2002
63	024869	Mr. MOHAMED TALHA RAHMAN H PCA REGENCY HOUSE, SECOND FLOOR 341 ANNA SALAI TEYNAMPET CHENNAI 600006	01/10/2002	74	026456	Mr. SWAMINATHAN S PCA BLK 309, CANBERRA ROAD # 08 -121 SINGAPORE	01/10/2002
64	024958	Mr. SATHYANARAYANA PRASAD R K ACA PLOT NO 15, DR SUBBA RAO COLONY NEAR KERALA AYURVEDIC MEDICAL CENTRE RICKET SECUNDERABAD 500009	01/10/2002	75	026463	Mr. BHADRI L ACA NO.8/12 [OLD NO. 16/12] KESAVA PERUMAL SANNADHI STREET MYLAPORE CHENNAI 600004	01/10/2002
65	025472	Mr. GAJENDRAN K N PCA NEW NO 273, (OLD NO.130) THIRD FLOOR THAMBU CHETTY STREET CHENNAI 600001	01/10/2002	76	026507	Mr. VEERARAGHAVULU CH ACA FINANCIAL CONTROLLER NZERURADIO COMPANY P O BOX 200 BLANTYRE MALAWI CENTRAL AFRICA	01/10/2002
66	025561	Mr. KARUMANCHI VEERASEKHARARAO ACA 602 PALLAVI ESTATES 8-3-830/1/2/3 YELLAREDDYGUDA HYDERABAD 500073	01/10/2002	77	026551	Mr. MAHESHWARI R C PCA 2-2-46 & 47 3RD FLOOR MARCHARLA COMPLEX PAN BAZAR SECUNDERABAD 500003	01/10/2002
67	025724	Mr. FREDRICK P C ACA P O BOX 14415 DUBAI U A E	01/10/2002	78	026592	Mr. ANAND T P PCA SENIOR MANAGER - STRATEGIC PLANNING KOOHUI GROUP P O BOX 51304 DUBAI, U A E	01/10/2002
68	025746	Mr. MAHENDAR A PCA H NO. 3-4-512/3 BARKATHPURA HYDERABAD 500027	01/10/2002	79	026609	Mr. ANANTHAKRISHNAN A S PCA NO:21 (OLD NO:9) RAJAGOPALAN STREET (OFF. JUBILEE ROAD) WEST MAMBALAM CHENNAI 600033	01/10/2002
69	025880	Mr. VENKATARAMANAN A R PCA B-5 RAJARAM COLONY KODAMBAKKAM CHENNAI 600024	01/10/2002	80	026803	Mr. SRINIVASAN G PCA C/O OULF MARKETS P O BOX 405 DOHA QATAR	01/10/2002
70	025998	Mr. SUGAVANAM K ACA NO 5, SAMBASIVAM STREET T NAGAR CHENNAI 600017	01/10/2002	81	026838	Mr. KRISHNAN R PCA #7/39 BARKER STREET KINOSFORD NSW 2032 SYDNEY AUSTRALIA	01/10/2002
71	026003	Mr. RAVINDRA KUMAR M ACA A 2 KRISHNA TEJA 20 B BALAKRISHNA ROAD VALMIKI NAOAR THIRUVANMIYUR CHENNAI 600041	01/10/2002	82	027163	Mr. ANANTHA RAMA KRISHNAN K ACA 434-A, BALASUNDARAM LAYOUT VIVEKANANDA ROAD RAMNAOAR COIMBATORE 641009	01/10/2002

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
83	027548	Mr. KRISHNA KUMAR T FCA FIRST FLOOR 18/1 V G GOPAL BUILDING LALBAGH FORT ROAD BANGALORE 560004	01/10/2002
84	027634	Mr. PADMANABHAN K ACA 4618, 230TH TER SE SAMMAMISH W A98075 USA	01/10/2002
85	027640	Mr. NARENDER KUMAR LODHA FCA 38/18 MUKHATAL STREET PURASAIWAKKAM CHENNAI 600007	01/10/2002
86	027690	Mr. HARSHAVARDHAN RAJAN FCA MANAGING DIRECTOR SANKAYAA LEARNING (PVT) LTD NO 1, L B ROAD, 2ND FLOOR ADYAR CHENNAI 600020	01/10/2001
87	027798	Mr. DHANANJAYAN T R FCA FINANCE & ADMN. MANAGER EQUIPMENT SALES & SERVICES (PTY) LTD P O BOX 1242, GABORONE BOTSWANA	08/12/1997
88	027847	Mr. PRASAD BABU S S ACA NEW NO 41 (OLD NO C-733) 12TH AVENUE ASHOK NAGAR CHENNAI 600083	01/10/2002
89	027867	Mr. UDAYA SANKARA RAO M ACA H NO.854 DHARAM KARAN ROAD AMBERPET HYDERABAD 500016	01/10/1996
90	027875	Mr. SRINIVAS M FCA PLOT NO 16, H NO 13-6-433/16 NETAJI NAGAR, RING ROAD MEHDIPATNAM KULSUMPURA POST HYDERABAD 500067	01/10/2002
91	027889	Mr. THILAK RAM A FCA # 83, RAILWAY STATION ROAD VELLORE DIST TIRUPATTUR 635601	01/10/2002
92	028161	Mr. MATHEW VARGHESE ACA DIRECTOR PRIMA COMPONENTS (P) LTD NETOOR PO MARADU KOCHI 682304	01/10/2002
93	028162	Mr. MATHEW JOHN ACA FINANCIAL CONTROLLER HARGY OIL PALMS LTD. P O BOX 21 BIALLA, WEST NEW BRITAIN PROVINCE PAPUA NEW GUINEA	01/10/1998

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
94	028215	Mr. SREEKANTH A ACA FLAT NO 6, DOOR NO 12 VALLIAMMAL STREET KILPAUK CHENNAI 600010	01/10/2002
95	028297	Mr. SRIKARAN R ACA NO. 44/B BLOCK H ANNA NAGAR (EAST) CHENNAI 600102	01/10/2002
96	028323	Ms. GIRIJA P FCA 503 A GULMOHAR APARTMENTS CESEAR ROAD AMBOLI ANDHERI WEST MUMBAI 400058	01/10/2002
97	028344	Mr. RAJENDHRAN K FCA FINANCE CONTROLLER A-Z CORPORATION P O BOX 795 MONROVIA LIBERIA	01/10/2001
98	028655	Mr. CHAMPAKALATHA T V ACA 38, AANI STREET CHINMAYANAGAR STAGE II CHINMAYANAGAR CHENNAI 600092	01/10/2002
99	028751	Mr. SWAMINATHAN K FCA 'MARVEL JUS' FLAT NO 4, 2ND FLOOR NEW NO 10 (OLD NO 15) JUSTICE SUNDARAM ROAD MYLAPORE CHENNAI 600004	08/12/2000
100	028781	Mr. GOPAL R FCA GENERAL MANAGER PETROLEUM SERVICES (MALAWI) LTD P O BOX 1900 BLANTYRE MALAWI AFRICA	01/10/2002
101	029000	Mr. KRISHNA MURTHY S ACA 167 M M ROAD COX TOWN BANGALORE 560005	01/10/2002
102	029011	Mr. SURESH R ACA FINANCE CONTROLLER MICROSOFT ARABIA P O BOX 17100, OLAYA RIYADH 11454 KINGDOM OF SAUDI ARABIA	08/12/1997
103	029168	Mr. KRISHNA RAOHAVAN ACA VILLA #3 'APOORVA' 6-3-862/3 SAADAT MANZIL BEGUMPET HYDERABAD 500016	01/10/2002
104	029214	Mr. PARTHASARATHY K FCA FLAT 1C, K O TRADITION NO 1, NORTH GOPALAPURAM FIRST ST GOPALAPURAM CHENNAI 600086	01/10/2001

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
105	029298	Mr. RENGARAJAN R ACA MANAGER FINANCE SANMAR ALLOY CASTINGS LTD 87/1 VADUGAPATTI VILLAGE VIRALIMALAI 621316	01/10/2002	115	029892	Mr. RAVI T V FCA BRINDHAVAN NO.40 I A CROSS R M V 2ND STAGE MSRIT POST BANGALORE 560054	01/10/2002
106	029392	Mr. KRISHNAN S R ACA MANAGER - INVESTMENT BANKING BANK MUSCAT P O BOX 134 POSTAL CODE 112 RUWI SULTANATE OF OMAN	01/10/2002	116	031671	Mr. RAMAMURTHI VIJAY ACA 2 A, RAMANACHALA APARTMENT 15/1 BANASWADI ROAD BANGALORE 560005	01/10/2002
107	029457	Mr. JEYENDRAN N FCA GENERAL MANAGER COUNTERCORP INTL.PTE LTD NO 1, SHENTON WAY # 11-06, ROBINA HOUSE SINGAPORE 068803	01/10/2002	117	033477	Mr. KENCHAPPANAVARA NAGARAJA R FCA NO.29 II FLOOR MARUTHI COMPLEX LINE BAZAAR DHARWAD 580001	01/10/2002
108	029458	Mr. GANESH K ACA FLAT NO 302, KT APARTMENTS-14 491, 46TH CROSS JAYANAGAR V BLOCK BANGALORE 560041	01/10/2002	118	034136	Mr. BHANDARI SURENDRA KUMAR FCA 47 JAWAHAR NAGAR COLONY 1-8-64 P G ROAD SECUNDERABAD 500003	01/10/2002
109	029527	Mr. VENMIMALAI R ACA F2, BLOCK I, SINDHUR SEA PRINCES 3 COASTAL ROAD BESANT NAGAR CHENNAI 600090	01/10/2002	119	036508	Mr. MANI G C S ACA 1631/4, FIRST CROSS BEHIND DEVAIAH PARK OPP:VAGDEVI SESHAPPA HALL RAMAMOHANPURAM BANGALORE 560021	01/10/2002
110	029554	Mr. VENKATA CHANDRA GUPTA A ACA FINANCE MANAGER GVK AMERICA INC 157 G V K DRIVE BISCOE NORTH CAROLINA 27209 USA	08/12/2000	120	037114	Mr. ARUN KOHLI ACA PLOT NO.403,MILFORD TERRACE FLAT#204,8TH MAIN 2A CROSS, 3RD BLOCK KORAMANGLA BANGALORE 560034	01/10/2002
111	029640	Mr. SURESH KUMAR K ACA BLOCK 765, YISHUN STREET 72 # 10 - 370 SINGAPORE 760765	01/10/1996	121	038929	Mr. RAMASAMY S ACA 7 JEEVAN KUNJ N G ACHARYA MARG CHEMBUR MUMBAI 400071	01/10/1995
112	029663	Mr. SATHIS KUMAR P M FCA COMPANY EXECUTIVE OMAN INFORMATION TECHNOLOGY COLLC 204 HATAT HOUSE WADI ADAI PO BOX 1203 POSTAL CODE 112 MUSCAT SULTANATE OF OMAN	01/10/2002	122	039497	Mr. ANUP T KURUVILLA ACA GROUP VICE PRESIDENT ABN AMRO BANK N V FINANCIAL MARKETS 63 CHULIA STREET, LEVEL 10 SINGAPORE 049514	01/10/2002
113	029698	Mr. MADIREDDI RADHA KRISHNA FCA 1-9-252/6/A/G-7 RAM NAGAR HYDERABAD 500020	01/10/2002	123	040788	Mr. GOGINENI GIRIDHAR FCA 203 SWAGRUHA KALYAN APARTMENTS PLOT NO 112 & 113 KALYAN NAGAR 3RD PHASE YOUSUFGUDA HYDERABAD 500018	01/10/2002
114	029719	Mr. RAADHIKA SUDHIR ACA 4F421, ALPINE PARK 1/1A, BEGUR MAIN ROAD BOMMANAHALLY BANGALORE 560068	01/10/2002	124	042250	Mr. SURESH KUMAR P M FCA CORPORATE MANAGER C/O HMR CONSULTANTS P BOX 1295 CPO SEEB POSTAL CODE 111 SULTANATE OF OMAN UAE	01/10/2002

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
125	042584	Mr. ANIL PRABHUDAS JEEVAN ACA CENTURY CENTRE 75 T T K ROAD CHENNAI 600018	01/10/2002
126	042701	Mr. NAIR PRAKASH GOVINDKUTTY ACA BHARAT S RAUT & CO 20/2 VITTAL MALLYA ROAD BANGALORE 560001	01/10/2001
127	043870	Mr. RAMA SUBRAMANIAN A ACA CONSULTANT BDO BURGAN INTERNATIONAL ACCOUNTANTS P O BOX 22351 SAFAT 13084 KUWAIT	01/10/2002
128	045648	Mr. KOTWAL ATUL ARVIND FCA CITI BANK N A CITIBANK CENTER 1 FLOO C-61 BANDRA KURLA COMPLEX BANDRA (EAST) MUMBAI 400051	01/10/2002
129	046403	Ms. URGITA PUNDRIK SHETTY ACA G 107 PRIDE APARTMENTS BANNERGATTA ROAD BILEKAHALLI BANGALORE 560076	01/10/2002
130	050839	Mr. RAMACHANDRAN K S FCA AMRITHA SECOND FLOOR E 58-A 21ST CROSS STREET BESANT NAGAR CHENNAI 600090	01/10/2002
131	053630	Mr. ANINDYA SENGUPTA ACA FINANCE MANAGER BRITANNIA INDUSTRIES LTD 33 LAWRENCE ROAD INDL. AREA NEW DELHI 110035	08/12/2000
132	054567	Mr. SATISH SHENOY ACA NO.2 AUROBINDO STREET II FLOOR PONDICHERRY 605001	01/10/2002
133	056289	Mr. MUKHERJEE ABHIJIT ACA C/O. A BHATTACHARYYA MON REPOS 1020A 17C CROSS INDIRANAGAR STAGE II BANGALORE 560038	01/10/2002
134	056393	Mr. GANESH NELLIAPPAN ACA DEPUTY MANAGER (F & A) BOLANI ORES MINES STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED - RMD KEONJHAR DIST. ORISSA BOLANI 758037	01/10/2002

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
135	072435	Mr. JAIN SURESH CHAND FCA BLOCK NO I HOUSE NO 007 HERITAGE APARTMENT DODDABALLAPUR ROAD YELAHANKA BANGALORE 560064	01/10/2002
136	074413	Mr. JAIN SUNIL FCA 55 SHETLAND COURT EDISON N J 08817 U S A	01/10/2001
137	078571	Mr. KHANDLWAL ANURAG ACA M/S PRICE WATERHOUSE P W CENTRE SAIDULLAJAB, OPP 'D' BLOCK SAKET NEW DELHI 110030	01/10/2002
138	081027	Mr. MEHRA VIVEK FCA C/O PRICEWATERHOUSE COOPERS (P) LTD SUCHETA BHAWAN -2 ND FLOOR 11-A VISHNU DIGAMBER MARG NEW DELHI 110002	01/10/2002
139	081613	Mr. NAGARAJAN S ACA F-36 SITE II 10 C NAGAR SECTOR 55 NOIDA 201301	01/10/2002
140	082355	Mr. RAMJI C V ACA 1595 KUMARASWAMY LAYOUT I STAGE BEHIND SBI BANGALORE 560078	08/12/1997
141	085582	Mr. RAJENDRA BHATT ACA 180 MYTON ROAD WARWICK - CV34 6PS ENGLAND U K	01/10/1995
142	086983	Mr. VENKATA SUBRAMANIAN S ACA MANAGER - FINANCE DODSAL PTE LTD P O BOX 8034 DUBAI, U A E	01/10/2002
143	090823	Mr. RAHUL SAWHNEY ACA DIRECTOR -FINANCE- PARK HYATT GOA RESORT AND SPA AROSSIM BEACH CANSALIM SOUTH GOA 403712	08/12/2000
144	091059	Mr. SUNIL GUPTA ACA MANAGING PARTNER R C G, DUBAI INTERNET CITY P O BOX 500246 DUBAI, U A E	01/10/2002
145	094538	Mr. JAIN MANISH KUMAR ACA MANAGER - ACCOUNTS GE CAPITAL INTERNATIONAL SERVICES 3RD FLOOR, QUADRANT-I, CYBER TOWERS HITEC CITY, MADHAPUR HYDERABAD	01/10/2002

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
146	095965	Mr. RAJESH P ACA PARIYARATH KANJIRAMATTOM P O ERNAKULAM 682315	01/10/2002	158	200328	Mr. ANJANEYULU REDDY JONNALA ACA 6844, BIRCH LAKE DRIVE MEMPHIS TN 38119 USA	01/10/2002
147	096113	Mr. MUKTA KAPUR ACA 51/34 OLD RAJENDRA NAGAR NEW DELHI 110060	01/10/2002	159	200459	Mr. HARIKUMAR N ACA D C TOWERS NO 17 3RD FLOOR F BLOCK 37 & 38 SECOND AVENUE ANNA NAGAR EAST CHENNAI 600102	01/10/2002
148	098151	Mr. HEMA MALKDITY ACA KENDRIYA VIHAR, FLAT NO 289, BLOCK B-2, YEHALANKA BANGALORE 560064	01/10/2002	160	200500	Mr. JOHN K ABRAHAM FCA APARTMENT #2205 135 HILL CREST AVENUE MISSISSAUGA ONTARIO L5B 4B1 CANADA	01/10/2002
149	100220	Mr. NAYAR VANDANA ACA C/O MR M K NAYAR 48 RAJ VIHAR COLONY PAPER MILL ROAD SAHARANPUR	01/10/2001	161	200505	Mr. BALA MUKUNDAN N S FCA NO.1 RAGHAVIAH ROAD T NAGAR CHENNAI 600017	01/10/2002
150	101887	Mr. IYENGAR BALAJI DURAI ACA 478 11TH MAIN M C LAYOUT VIJAYANAGAR BANGALORE 560040	01/10/2002	162	200604	Mr. BUPATHY NA ACA NEW NO 32 (OLD NO 95) CHINNA STREET KUNRATHOOR CHENNAI 600069	01/10/2002
151	102233	Mr. PRADEEP MANDHANA ACA C/307 CASA ANSAL APARTMENT J P NAGAR III PHASE BANNERGHATTA ROAD BANGALORE 560076	01/10/2002	163	200605	Mr. AMRIT KUMAR K FCA FLAT NO:302 C/43 MADHURA NAGAR AMEERPET HYDERABAD 500038	01/10/2002
152	200101	Mr. SRIKANTH E ACA H-72 KURUNCHI KUDIYERUPU TNHB FLATS THIRUVAMYUR CHENNAI 600041	01/10/2002	164	200626	Ms. ANANDI RADHAKRISHNAN KURUP ACA ASSISTANT MANAGER THE FEDERAL BANK LTD REGIONAL OFFICE, FEDERAL TOWERS XL/2351 PARAMARA RD. MARINE DRIVE, ERNAKULAM KOCHI 682018	01/10/2002
153	200164	Mr. SELVAGANESH R FCA MG A-4, 18TH AVENUE ASHOK NAGAR CHENNAI 600083	01/10/2002	165	200789	Mr. SIVANATHAN K ACA F5, 'SHERA SQUARE' 156, CHOOLAIMEDU HIGH ROAD CHOOLAIMEDU CHENNAI 600094	01/10/2002
154	200236	Mr. THENNARASU J ACA SELECTION GR. ASST. MANAGER (AUDIT) TAMIL NADU STATE TRANSPORT CORPN. (MADURAI DIVN I) LTD BYE PASS ROAD MADURAI 625010	01/10/2002	166	200820	Mr. JAYARAMAN V FCA NO.20 THIRUNAGAR IV STREET VADAPALANI CHENNAI 600026	01/10/2002
155	200240	Mr. KRISHNA KUMAR C FCA 41/3324 - C4 (PART) ALFA TOWERS II FLOOR 15 PRESS ROAD KOCHI 682018	01/10/2002	167	200824	Mr. GEETHAKRISHNAN N ACA AUDIT DEPARTMENT DYNA TRADE P O BOX 22842 SHARJAH U A E	08/12/2000
156	200249	Mr. MURUGENDRAPPA K B FCA 652/L, I FLOOR DR. RAJKUMAR ROAD RAJAJINAGAR II STAGE BANGALORE 560010	01/10/2002	168	201024	Mr. PARANAN N ACA BLOCK 118A JALAN MEMBINA # 07-137 SINGAPORE 161118	05/12/1994
157	200310	Mr. RAGHAVA CHARY D ACA C/O GURURAJA & CO H NO 16-7-813/9/1, VINAYAKA ST OPP: MALAKPET RAILWAY STATION SAHIFA POST HYDERABAD 500024	01/10/2002				

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
169	201037	Mr. SUDHIR K P ACA 4F -421, ALPINE PARK 1/1A, BEGUR MAIN ROAD BOMMANAHALLY BANGALORE 560068	01/10/2002
170	201061	Mr. VIJAYA BHASKAR THALLAM ACA C/O THALLAM MURALI 11-14-11 MEKALAVARI STREET NEAR FISH MARKET VIJAYAWADA 520001	01/10/2001
171	201171	Mr. BALACHANDRA CHADAGA P R ACA NO. 125 7TH MAIN BDA LAYOUT AVALAHALLI BSK III STAGE BANGALORE 560085	01/10/2001
172	201251	Mr. MURUGAN L ACA 'BRINDAVAN' BANK ROAD ALUVA 683101	01/10/2002
173	201359	Mr. ANANDA BABU P ACA PLOT NO:404 MARUTHI SADAN 6-3-1117, BEGUMPET HYDERABAD 500016	01/10/2002
174	201374	Mr. RAMESH BABU K FCA MANAGER FINANCE DEFOOD TRADING P O BOX 11185 DUBAI, U A E	01/10/2002
175	201490	Mr. VENKATESAN B FCA NO.6 BHEEMA NAICKEN STREET (NEAR OLD BUS STAND) KUMBAKONAM 612001	01/10/2002
176	201628	Mr. NARSI REDDY P ACA 140 CARLTON STREET APT # 1617 TORONTO ONTARIO M5A 3W7 CANADA	01/10/2001
177	201634	Mr. VEGESINA VENKATARAMA RAJU ACA 304 SWARGA NIVAS ENCLAVE OPP MYTHRI HOSPITAL SRINIVASANAGAR COLONY EAST AMEERPET HYDERABAD 500038	01/10/2002
178	201833	Mr. JAYARAJ T S ACA ASSOCIATE FINANCE MANAGER HINDUSTAN COCA COLA BEVERAGES PVT LTD 44/1, KODIGEHALLY GATE BELLARY ROAD, HEBBAL BANGALORE 560024	08/12/2000
179	201863	Mr. VENKATASWAMY R J FCA 14/340 UPSTAIRS KAMALA NAGAR ANANTAPUR 515001	01/10/2002

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
180	201896	Mr. THONTESH H B ACA NO. 70 FOURTH CROSS 5TH MAIN, J B KAVAI NANDINI LAYOUT POST BANGALORE 560096	01/10/2002
181	201913	Mr. VENKATESHWAR REDDY P ACA H NO. 26/A S R NAGAR HYDERABAD 500038	01/10/2002
182	202082	Mr. VALIVETI VENKATA RAMANA ACA CONTROLLER METRO CASH & CARRY INDIA PVT LTD 10TH FLOOR, VAYUDOOCH CHAMBERS 15/16, M G ROAD BANGALORE 560001	08/12/2000
183	202104	Mr. SUDHESH BABU C ACA 105, WILD FLOWER HALL RUSTUM BAGH BANGALORE 560017	01/10/2002
184	202190	Ms. RAJANI RADHAKRISHNAN ACA FLAT A-306 ADMIRALTY SQUARE 79 6TH MAIN OFF 13TH CROSS INDRANAOAR II STAGE BANGALORE 560038	01/10/2002
185	202304	Mr. RUTHURUSAMY R ACA PRESIDENT INDO AFRICA EXIM LTD C. 12/2, ADAMA AVENUE KANDA, ADABRAKA ACCRA GHANA	08/12/2000
186	202306	Mr. VISHWANATHAN G FCA 33 IV MAIN ROAD KASTURI BA NAGAR ADYAR CHENNAI 600020	01/10/2002
187	202341	Mr. SRIRAM S FCA VASANTHA VILAS T B ROAD KOTTAYAM DIST. PALAI 686575	01/10/2002
188	202481	Mr. RAJ KUMAR G FCA NEW BAZAAR ALAPUZHA 688001	01/10/2002
189	202494	Mr. SELVA MANI V FCA 72 A/6B, ANNA NAGAR IV CROSS HOSUR 635109	01/10/2002
190	202503	Mr. GEORGE JOSEPH ACA ASST FINANCIAL CONTROLLER HOTEL INTERCONTINENTAL P O BOX 32201 LUSAKA, ZAMBIA	01/10/2002
191	202591	Ms. POONGOTHAI R FCA 94 KAVETTI NAIDU LAYOUT 3 SOWRI PALAYAM POST COIMBATORE 641028	01/10/2002

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
192	202651	Mr. SRINIVAS L R ACA DIRECTOR OF POINT'R LTD FRANCHISEE OF NIIT LTD 4TH FLOOR SHARON BUILDING 26 SIR WILLIAM NEWTON STREET PORT LOUIS MAURITIUS	01/10/2002	202	203272	Mr. RAVEENDRANATHA REDDY K ACA G M - FINANCE HETERO LABS LIMITED D NO 8-3-166/7/1 ERRAGADDA HYDERABAD 500018	01/10/2002
193	202653	Mr. KANNAN A ACA O-102, MANTRI PARADISE BANNERGHATTA ROAD ARAKERE BANGALORE 560076	01/10/2002	203	203290	Mr. RAMDAS N ACA K-4 'LAXMI' ANNANAGAR EAST CHENNAI 600102	01/10/1998
194	202711	Mr. SRINIVASULU BATCHU ACA SHOP NO 26, SECOND FLOOR OLD NO 384, MINT STREET (NEAR RANJITH HOTEL) CHENNAI 600079	01/10/2002	204	203311	Mr. SIVAKUMAR BADIGINENI ACA NO 2489, 2-A CROSS 4TH MAIN, HAL 3RD STAGE BDA LAYOUT KONENA AGRAHARA BANGALORE 560017	01/10/2002
195	202745	Mr. AJAY KUMAR KHANNA FCA 29 FAIRY DRIVE MARKHAM ONTARIO L3S 3A6 CANADA	01/10/2001	205	203396	Mr. SHAFIULLA SINGANAMALA ACA PLOT NO 2 & 3 AISWARYA GARDEN MADHUSUDAN NAGAR MALKAJGIRI HYDERABAD 500047	08/12/2000
196	202782	Ms. VASUDHA VENKATESH ACA 7575 FRANKFORD ROAD APT 2113 DALLAS T X 75252 USA	08/12/2000	206	203430	Mr. HARINATH K FCA 99 IV CROSS COX TOWN JEEVANAHALLI BANGALORE 560005	01/10/2002
197	202798	Mr. VENKATARAMANAN J FCA NEW NO.26 FLAT-4 CHARI STREET T NAGAR CHENNAI 600017	01/10/2002	207	203488	Mr. VARGHESE K KURUVILLA ACA P O BOX: 55051 DUBAI, UAE	01/10/2002
198	203108	Mr. CHOUKIMATH GURUKUMAR GURULINGAIH PCA # 72, I-PHASE, I MAIN WEST OF CHORD ROAD MANJUNATH NAGAR BANGALORE 560010	01/10/2002	208	203511	Mr. GANAPATHY V ACA PMC XI/228 ILLAM ROAD PERUMBAVOOR 683542	01/10/2002
199	203164	Mr. JAYASANKAR R ACA PLOT NO 8, MILLENNIUM STREET SUDHARSHAN AVENUE SARASWATHI NAGAR SELAIYUR CHENNAI 600073	08/12/2000	209	203594	Mr. BALASUBRAMANIAN J FCA NO.117/88-B, S P KOIL SREET CHIDAMBARAM 608001	01/10/2002
200	203209	Ms. SRIVIDYA SURYANARAYANAN ACA C/O MR. G SURYANARAYANAN C/O RSH (MIDDLE EAST) LLC P O BOX 20764 DUBAI, U A E	01/10/2002	210	203631	Mr. PRASAD V V D ACA 12-13-410 FIRST FLOOR STREET NO 1, LANE NO 3 TARNAKA HYDERABAD	01/10/2002
201	203257	Mr. GANESH R FCA 'L' 391/6 GREEN GARDENS ANNA NAGAR CHENNAI 600102	01/10/2002	211	203688	Ms. RAJYA LAKSHMI V FCA HOUSE NO 24/10 (IFL) OLD RAJINDER NAGAR NEW DELHI 110060	01/10/2001
				212	203731	Mr. DAKSHINA MURTHY GUDA ACA 4-47-II, LAWSONS BAY COLONY VISAKHAPATNAM 530017	01/10/2001
				213	203801	Mr. MOHIT KABRA ACA FLAT NO.B-61 KENDRIYA VIHAR SUSHANT LOK- II SECTOR-56 GURGAON	01/10/2002

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
214	203842	Mr. RAGHAVAN K Y ACA 582 16TH MAIN 10TH CROSS PADMANABHANAGAR BANGALORE 560070	01/10/2002
215	204011	Mr. RAMESH SHANMUKHAM FCA NEW NO. 54 (OLD NO.41) SOLIAPPA MUDALI STREET MYLAPORE CHENNAI 600004	01/10/2002
216	204013	Mr. RAMESH BABU C G FCA NEW NO 36, FLAT -I GANDHI NAGAR IV MAIN ROAD ADYAR, CHENNAI 600020	01/10/2002
217	204093	Mr. RAGHU KUMAR CHUNDI FCA 11-3-2, E-5 PRIYARIVIERA APTS VET. HOSPITAL ROAD RAMARAO PET KAKINADA 533001	01/10/2002
218	204139	Mr. KUMAR G N V S R R FCA 7-1-78 FLAT NO 401 SRI SAI CHANDRA APARTMENTS AMEERPET HYDERABAD 500016	01/10/2002
219	204271	Mr. VENKATESULU ADIKE ACA NO.439 'E' ROAD PHASE II IDEAL HOMES CO-OPERATIVE SOCIETY RAJA RAJESWARI NAGAR BANGALORE 560039	01/10/2002
220	204364	Mr. JAYARAMAN A FCA NEW NO.9 OLD NO.5 SAROJINI STREET T NAGAR CHENNAI 600017	01/10/2002
221	204458	Mr. CHINNAPPA GOWDA B FCA NO 19 KAVERIAPPA LAYOUT VASANTHA NAGAR POST BANGALORE 560052	01/10/2002
222	204466	Ms. JAYA NAIR ACA 101. LEWIS MANOR 14 LEWIS ROAD COOKE TOWN BANGALORE 560005	01/10/2002
223	204534	Mr. SURESH M ACA SENIOR BUSINESS AUDITOR C/O DUBAI INTERNET CITY P O BOX 73000 DUBAI, U A E	08/12/2000
224	204551	Mr. RAVEENDRA REDDY V FCA 290, FIRST FLOOR 11TH CROSS NEAR JANATHA-HOTEL WILSON GARDEN BANGALORE 560027	01/10/2002
225	204681	Ms. HEMA VAIDYANATHAN ACA FINANCE ADMINISTRATOR INTERNATIONAL CUSTOMER LOYALTY PROGRAMMER (ICLP) P O BOX 30555 DUBAI, U A E	01/10/2001

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
226	204702	Mr. SATHEESH R N ACA ASST.MANAGER (CPC) FINANCE SECTION THE KERALA STATE CIVIL SUPPLIES - CORPORATION LTD. GANDHI NAGAR KOCHI 682020	01/10/2002
227	204816	Ms. UMAMAHESWARI M ACA 33 IV MAIN ROAD KASTURIBA NAGAR ADYAR CHENNAI 600020	01/10/2002
228	204848	Mr. VASANTH N ACA SR.MANAGER -FINANCE- SATYAM COMPUTER SERVICES LIMITED 11/2B THUBE PARK SANCHEK CENTRE SHIVAJI NAGAR PUNE 411005	01/10/2002
229	205013	Mr. RAJA SEKHAR S ACA 3-6-258 I FLOOR ABOVE FAMOUS TAILORS HIMAYAT NAGAR HYDERABAD 500029	01/10/2002
230	205088	Ms. SANJU DALMIA FCA NO 777 T DASARAHALLI TUMKUR ROAD PEENYA BANGALORE 560057	01/10/2002
231	205235	Mr. GIRISH R ACA INDIRA 14, 2A CROSS 6TH MAIN, KHB COLONY I STAGE BASAVESWARA NAGAR BANGALORE 560079	08/12/2000
232	205583	Mr. RAM KUMAR V ACA FINANCE MANAGER ALLERGAN SERVICES INTERNATIONAL LTD DUBAI BRANCH, AIRPORT FREE ZONE P O BOX 15793 DUBAI, U A E	01/10/2001
233	205679	Ms. BINDU JOSE ACA C/O ABRAHAM & CO AMBOORAN'S BUILDING MANORAMA JUNCTION KOTTAYAM 686001	01/10/2002
234	205759	Mr. RAMA KRISHNA B V ACA NO 32, 'SUMUKHA' 1ST CROSS, 4TH MAIN VENKATAMMA RAMAIAH LAYOUT HMT MAIN ROAD, MATHIKERI BANGALORE 560054	01/10/2002
235	205766	Mr. VENKATESH V ACA FINANCE CONTROLLER HYPERAMA PLC LENTON INDUSTRIAL ESTATE NOTTINGHAM NG7 2UT UNITED KINGDOM	01/10/2001
236	205823	Mr. AJAY AGARWAL ACA 418, SECOND FLOOR AVENUE ROAD BANGALORE 560002	01/10/2002

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
237	205851	Mr. NADESHWAR RAO R V ACA FINANCE MANAGER CHANNEL TECHNOLOGIES INC (PTY) LTD PLOT 56, GICP, KGALE PO BOX 10077 GABORONE BOTSWANA	01/10/2002	247	206661	Mr. RAMACHANDRA K HEGDE ACA IT AUDIT MANAGER CORPORATE AUDIT & SECURITY DEPT. PRAXAIR INC 39 OLD RIDGEBURY ROAD DANBURY CT 06810 USA	08/12/2000
238	205886	Ms. NITHYA N ACA 69A, THIRD CROSS STREET NEW COLONY CHROMEPET CHENNAI 600044	01/10/2002	248	206801	Mr. SARITHA A U ACA NO 4 14TH CROSS 12TH MAIN WILSON GARDEN BANGALORE 560030	01/10/2002
239	206001	Mr. VENKATA SAI PRASAD KOPPOLU ACA FLAT NO 407 SAI NIKETAN APARTMENT OPP: MYR SCHOOL A S RAJU NAGAR K P H B HYDERABAD 500072	01/10/2002	249	206897	Mr. VENKATA SATYANARAYANA AKONDI ACA 12-2-460/19 JEEVAN KALYAN NAGAR MEHDIPATNAM HYDERABAD	01/10/2002
240	206332	Mr. GONGUNTALA GERTHA ACA GROUND FLOOR MRL HOUSE PANJAGUTTA HYDERABAD 500082	08/12/2000	250	206951	Mr. JAYASHREE P K ACA 21 CAMBRIDGE ENCLAVE NEAR CAMBRIDGE LAYOUT SARASWATHIPURAM ULSOOR BANGALORE 560008	01/10/2002
241	206414	Mr. SURYANARAYANA SASTRY K FCA C/O SHRI Y HANUMANTHA RAO 1-8-150/2, CHIKKADPALLY HYDERABAD 500020	01/10/2002	251	206953	Mr. BALAJI J ACA CHIEF FINANCIAL OFFICER ASK RAYMOND JAMES & ASSOCIATES LTD. 254-D DR A B ROAD WDRLI MUMBAI 400025	01/10/2002
242	206573	Mr. ARCHANA IYER C ACA 82 ASHTALAKSHMI APARTMENTS COASTAL ROAD BESANT NAGAR CHENNAI 600090	01/10/2002	252	206975	Mr. VENKATESU REDDY T ACA #392A, KRISHNA COMPLEX TILAK ROAD TIRUPATI 517501	01/10/2002
243	206596	Mr. THIRUPATHI P ACA A/I SHANTHI FLATS J. SHIVAJI STREET T NAGAR CHENNAI 600017	01/10/2002	253	207140	Mr. KALPESH AGARWAL H ACA 46, 1VTH CROSS ROAD M K B NAGAR VYASAR PADI CHENNAI 600039	08/12/2000
244	206602	Mr. VEERARAGHAVAN M ACA CHIEF ACCOUNTANT UNIGRAPH INTERNATIONAL TRADING LLC. P O BOX 14051 DUBAI U A E	01/10/2002	254	207187	Mr. KANNAN R B ACA ASST.MANAGER (P & A) INTERNAL AUDIT VIZAG STEEL PLANT RINL VISAKHAPATNAM 530032	01/10/2002
245	206619	Mr. SRIHARI S P ACA NEW NO 27, (OLD NO 26) VISWANATHAPURAM MAIN ROAD SAKTHI NAGAR KODAMBAKKAM CHENNAI 600024	01/10/2001	255	207291	Mr. SHIVAKUMAR K V ACA NO 610, 1ST FLOOR 1ST CROSS 4TH MAIN MUTHYALNAGAR MATHIKERE POST BANGALORE 560054	01/10/2002
246	206653	Mr. SRINIVASA SHARMA A V R ACA H.NO.1-1-336/69, 1 FLOOR VIVEKNAGAR CHIKKADAPALLY HYDERABAD 500020	01/10/2002	256	207315	Mr. SIVA KUMAR B ACA H NO 4-1125-9 GAYATHRI NAGAR CHITTOOR 517002	01/10/2002
				257	207350	Mr. VENKATESH RAO A ACA #268, 6TH CROSS 1ST BLOCK JAYANAGAR BANGALORE 560011	01/10/2002

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
258	207389	Mr. KANCHERLA BALAJI ACA PLOT NO 116 FLAT NO 101 MAHAVEER TOWERS MOTINAOAR HYDERABAD 500018	01/10/2002
259	207450	Mr. ANAND C DESHPANDE ACA NO 62, SRI DATTA KRUPA GRAHALAKSHMI COLONY, II STAGE KAMALANAOAR BANGALORE 560079	01/10/2001
260	207479	Mr. GOSALA VIJAYA ACA FLAT NO 314, VILLA HEIGHTS STREET NO 1 BRAHMAN WADI BECCUMPET HYDERABAD	08/12/2000
261	207499	Mr. KALPANA B ACA #53, 11TH MAIN ROAD 27TH CROSS B S K SECOND STAGE BANGALORE 560070	01/10/2002
262	207545	Mr. SIVARAMA KRISHNAN M B FCA FLAT NO:3 NO: 1 VEERASWAMY STREET WEST MAMBALAM CHENNAI 600033	01/10/2002
263	207651	Mr. MOHAMMED MOINUDDIN AHMED ACA UNIT 203, 263 PHARMACY AVENUE SCARBOROUGH ONTARIO M1L 3B8 CANADA	01/10/2002
264	207733	Mr. NEENA RDSE DAVIS ACA MANAOER - FINANCE SAMANT SOMA WINES LTD 3, MATULYA CENTRE 'A' SENAPATI BARAT MARG, LOWER PAREL MUMBAI 400013	01/10/2002
265	207796	Mr. BRIKANTH ACHARYA R ACA FINANCE SUPERVISOR DIRECTORATE OF ELECTRICITY MINISTRY OF HOUSING, ELECTRICITY & WATER P O BOX 105, RUWI POSTAL CODE 112 MUSCAT SULTANATE OF OMAN	01/10/2002
266	207873	Mr. SREENIVASAN J ACA PLOT 42, NEW NGGO COLONY THIRD STREET ADAMBAKKAM CHENNAI 600088	01/10/2001
267	207897	Mr. RAVI KIRAN KUMAR REDDY P ACA PLOT NO 66, BLOCK-A SECTOR II ALKAPOOR TOWNSHIP PUPPALAOUA HYDERABAD 500075	01/10/2002

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
268	207928	Mr. RAVICHANDRAN S S ACA ROOM NO. 1, 2ND FLOOR R A TOWERS 160, P N ROAD TIRUPUR 641602	01/10/2002
269	207982	Mr. VENKAT MANOHAR D ACA # 7 FIRST CROSS FIRST MAIN RMV EXTN, II STAGE BANGALORE 560094	01/10/2002
270	208076	Mr. KOPPADA SATYANARAYANA ACA SENIOR EXECUTIVE - FINANCE & ACCOUNTS WEP PERIPHERALS LTD 312, HEBBAL INDUSTRIAL AREA MYSORE 570016	01/10/2002
271	208108	Mr. NAVANEETHA KRISHNAN G ACA ASST. MANAGER (FINANCE) ARVIND CLOTHING LTD NO 12, 4TH CROSS BONNASANDRA INDL AREA, HOSUR ROAD BANGALORE 562158	01/10/2002
272	208130	Mr. GOWRI VENKATESWARA RAO KOTNI ACA FLAT NO 6, 'AMRUTHA COURT' 30-8-29, BHANU STREET DABAGARDENS VISAKHAPATNAM 530020	01/10/2002
273	208168	Mr. MOHAN KUMAR D ACA ACCOUNTS OFFICER NICO INTERNATIONAL P O BOX NO.12068 DUBAI U A E	01/10/2002
274	208222	Mr. SATISH KURPAD ACA NO 568, 3RD CROSS BSK FIRST STAGE II BLOCK BANGALORE 560050	01/10/2002
275	208406	Mr. PRAKASHCHAND P ACA C/O BOHRA KUNJ 269/9 R O STREET 3RD FLOOR COIMBATORE 641001	01/10/2001
276	208467	Mr. HEMANT JOSHI ACA C/O S S BAKHRESA GROUP OF COMPANIES P O BOX NO 2517 DAR-ES-SALAAM TANZANIA	01/10/2002
277	208676	Mr. OURU PRASAD M ACA C/O NATIONAL BANK OF OMAN P O BOX 751 POSTAL CODE 112 RUWI, MUSCAT SULTANATE OF OMAN U A E	01/10/2002

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
278	208802	Ms. CHITRA VANAMALI ACA P O BOX 999 DUBAI UAE	01/10/2002	290	209986	Ms. SATYA GUPTA KUSUMANCHI ACA 3503, SHADOWOOD PARKWAY ATLANTA GA 30339 USA	01/10/2002
279	208831	Mr. MILIND R DESHMUKH ACA A-8, NAND DHAM CO-OP HOUSING SOCIETY RAMCHANDRA NAGAR DOMBIVLI EAST THANE DT. DOMBIVLI 421204	01/10/2002	291	210016	Mr. CHANDRA SEKHAR REDDY G ACA FLAT NO. 307 SATYA SAI APTS H NO. 7-1-621/A/1 SRINIVASA NAGAR [EAST] AMEERPET HYDERABAD 500038	01/10/2002
280	209045	Mr. RAKESH JOSHI ACA #683, 29TH MAIN BTM LAYOUT BANGALORE 560076	01/10/2002	292	210080	Mr. SAJAN BABU C ACA I - LINE MANAGER INDIAN OVERSEAS BANK CHANGANACHERRY BRANCH CHANGANACHERRY 686101	01/10/2002
281	209144	Mr. RAJKUMAR P ACA FLAT S-2, 30 BURKIT ROAD T NAGAR CHENNAI 600017	01/10/2002	293	210372	Mr. AEJAZ AHMED M ACA NEW NO.118 (OLD NO.50) BANGARU NAICKEN STREET MOUNT ROAD CHENNAI 600002	01/10/2002
282	209216	Mr. NACHIAPPAN M ACA PRICewaterHOUSE COOPERS 02-05, STO TRADE CENTRE ORCHID MAGU REPUBLIC OF MALDIVES	01/10/2002	294	210374	Mr. SUNIL D SURANA ACA NO 8 4TH CROSS A M LANE B/H B B BAKERY CHICKPET CROSS BANGALORE 560053	01/10/2002
283	209228	Mr. BALASUBRAMANIAN R ACA 75 DHANAPPA MUDALI STREET MADURAI 625001	01/10/2002	295	210450	Mr. SAKARAY LAMBADAY ERESHI RAO ACA 7-1-304/6/17 ADITYA NAGAR UDAYA NAGAR B/H ESI HOSPITAL HYDERABAD 500038	01/10/2002
284	209449	Mr. SRINIVAS P ACA 5/4 DOOKANAHALLI GARDENS OPP: PLAYGROUND, 13TH MAIN INDIRA NAGAR, HAL II STAGE BANGALORE 560008	01/10/2002	296	210596	Mr. VEERAAIAH EDARA ACA PLOT NO 48, 2ND FLOOR GAYATRI NAGAR AMEERPET HYDERABAD 500038	01/10/2002
285	209490	Ms. PRATIBHA K ACA FLAT # 12, SRINIVAS APARTMENTS OLD # 40, NEW # 91, II MAIN ROAD GANDHI NAGAR ADYAR CHENNAI 600020	01/10/2002	297	210617	Mr. RANJITH SIVARAM ACA AUDITOR DELOITTE & TOUCHE P O BOX 1222 DUBAI, U A E	01/10/2002
286	209588	Mr. GOSALA ANANTA VENKATA RAVIKANTH ACA FLAT # 314, VILLA HEIGHTS STREET NO 1 BRAHMAN WADI BEGUMPET HYDERABAD 500016	08/12/2000	298	210971	Mr. KRISHNA KISHORE N ACA CREDIT MANAGER - CAR LOANS ICICI BANK LTD - R A P G 1 FLOOR SILPA ARCADE OPP: STELLA COLLEGE GAYATRI NAGAR VIJAYAWADA 520008	01/10/2002
287	209653	Mr. GIRISH PODDAR ACA B-5-210/39 SHIVA ENCLAVE HASHMATHPET SECUNDERABAD 500009	01/10/2002	299	211031	Mr. SUNDARESAN K ACA ASSISTANT MANAGER -CREDIT- M/S REDINGTON INDIA LIMITED 1/11 NOOK APARTMENTS 8 GURUSADEV ROAD KOLKATA 700019	01/10/2002
288	209669	Mr. MANU PAL H K ACA FINANCIAL ANALYST GE PACIFIC PTE 240, TANJUNG PAGAR ROAD #10.00 GE TOWERS SINGAPORE 088540	01/10/2002				
289	209721	Mr. LAKSHMI NARAYANA CHADA ACA C/O MR. M V J SOMAYAJULU D NO 9-35-1 PITHAPURAM COLONY VISAKHAPATNAM 530003	01/10/2002				

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
300	211097	Mr. ANJIREDDY K ACA 11-4-650/6/9 & 10 2ND FLOOR MEHDI BUILDING LAKDIKAPUL HYDERABAD 500004	01/10/2002
301	211115	Mr. RAMESH V ACA 33 AARTHY APARTMENTS 21 BALARAM ROAD ADYAR CHENNAI 600020	01/10/2002
302	211176	Mr. JANARDHANA GUPTA S ACA ROSE PARK, F3, RANI BLOCK 10, 1 CROSS STREET SHANTHI NAGAR ADAMBAKKAM CHENNAI 600088	01/10/2002

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
303	211402	Ms. VIDYA VENKAT ACA ROOM NO.314, HOSTEL BLOCKS IIM B BANNERGHATTA ROAD BANGALORE 560076	01/10/2002
304	211415	Mr. AYYAPPAN S U ACA PO-8 DOUBLE TANK COLONY K K NAGAR CHENNAI 600078	01/10/2002

Ashok Haldia
(ASHOK HALDIA)
SECRETARY

(Chartered Accountants)

3SCA(4)/3/2003-2004 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of Death with effect from date(s) mentioned against the names of the following members :-

S.No.	MRN	Member Name & Address	Removal Dt.
1	000523	Mr. RAGHAVAN NAIR KUNNATH SREESAILAM KRISHNASWAMY CROSS ROAD KOCHI-682035	03/10/2002
2	002379	Mr. KRISHNAN MADABUSI THODUR 16 54TH STREET OFF NINTH AVENUE ASHOK NAGAR CHENNAI-600083	11/11/2002
3	002476	Mr. VANCHINATHAN S T KARPAKA 97 ROYAPETTAH HIGH ROAD MYLAPORE CHENNAI-600004	09/09/2002
4	002727	Mr. VAIDYANATHAN R 421/21 1ST FLOOR IND MAIN 7TH CROSS AMARJYOTHI NAGAR BANGALORE-560040	03/08/2003
5	002856	Mr. KUNJIKORA M V XL/4604 I FLOOR LUCKY STAR BUILDING MARKET ROAD KOCHI-682035	12/07/2003
6	003630	Mr. GOWRIKANTHAN JANAKIRAMA FLAT 3C RAMANIYAM TOWERS 12 GREENWAYS ROAD RIA PURAM CHENNAI-600028	08/04/2003
7	003864	Mr. THIMMICHETTY M 38 BHARATHI STREET KK NAOAR MADURAI-625020	14/02/2003
8	005061	Mr. GEORGE PANAMPUNNAIL JOHN 11 FLOOR C S I COMMERCIAL CENTRE BAKER JUNCTION KOTTAYAM-686001	28/07/2002
9	005309	Mr. DAMODARAN NAMBUDRI K S KAPPILLY MANA KALADY-683574	23/06/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	Removal Dt.
10	008422	Mr. RAGHUVEEERA RAO P DEVI KRUPA NEAR BRAHMASTHANA KARNATAKA PADUBIDRI-574111	19/04/2003
11	012790	Mr. VENUGOPAL P SRIKRISNA GARDENS CCNB ROAD ALAPUZZHA-688010	19/05/2003
12	018485	Mr. PRABHAKAR K SRI RANGAPPA COMPLEX 13/I R V ROAD NEAR MINERVA CIRCLE BANGALORE-560004	31/03/2003
13	019800	Mr. RAMASWAMI R ROOM NO.11, III FLOOR 'PARSAN TRADE PLAZA' 156 DR. NANJAPPA ROAD COIMBATORE-641018	26/05/2003
14	022422	Mr. SHANTILAL SUKHARAJ KOTHARI VINAY CHAMBERS VINOBA ROAD SUBASH NAGAR MANDYA-571401	07/07/2003
15	023040	Mr. KISHORE KUMAR K A C C NO XVI/1337 KOCHUPALLY ROAD THOPPUMPADY KOCHI-682005	13/06/2003
16	023648	Mr. NILAJOI ASHOK BABURAO 1887 BURUD OALLI BELGAUM-590002	18/04/2003
17	027652	Mr. SRINIVASAN K 1 FLOOR NEW NO.5 JEEVARATNAM NAOAR ADYAR CHENNAI-600020	11/06/2003
18	027717	Mr. ANANTHA SUBRAMANIAM O RAGASHRI 692, 5TH MAIN, 6TH CROSS HANUMANTH NAGAR BANGALORE-560019	18/06/2003

Ashok Haldia
(ASHOK HALDIA)
SECRETARY

(Chartered Accountants)

3SCA(8)/1/2003-2004 In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(i) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from the dates mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
1	004808	Mr. KULATHU P ACA 12 RAJA STREET SUBRAMANIPURAM MADURAI-625 011	01/04/2003
2	004861	Mr. BALASANKARA MENON AMBADI FCA 'AMBADI' NO 16, FIRST CROSS STREET RAMALINGA NAGAR K K PUDUR COIMBATORE-641 038	01/04/2003
3	005160	Mr. GURURAJAN C V FCA 624, 22ND MAIN IV 'T' BLOCK, JAYANAGAR BANGALORE-560 011	01/04/2003
4	005468	Mr. DESHMUKH SHIVRAM VISHVANATH FCA B-1 BRAHMA APARTMENTS CLUB ROAD BELGAUM-590 001	31/03/2003
5	005937	Mr. BALARAMAN S FCA NO. 30, 4TH MAIN 5TH CROSS GIRINAGAR I PHASE BANGALORE-560 085	01/04/2003
6	006315	Mr. RAMDAS V ACA BHARANI 969 22ND MAIN IV T BLOCK JAYANAGAR BANGALORE-560 041	31/03/2003
7	023921	Mr. JOHN JOSEPH NEREYETH FCA 2-A HAYDON MANOR 12 EAGLE STREET LANGFORD TOWN BANGALORE-560 025	31/03/2003
8	024936	Mr. SUNDARARAJAN R FCA NEW NO.6 (OLD NO.15) TILAK STREET, T NAGAR CHENNAI-600 017	01/04/2003
9	027708	Ms. SHASHIKALA SRIKANTH ACA "PARVATHI" 12 RAJA STREET VGP GOLDEN BEACH SOUTH PART 1 SHOLINGANALLUR CHENNAI-600 119	31/03/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
10	027821	Mr. RAMAKRISHNA U ACA C/O L & T INFOCITY LIMITED FIRST FLOOR CYBER TOWERS MADHAPUR HYDERABAD-500 081	31/03/2003
11	028982	Mr. NARENDRA KUMAR S FCA NO.2, 4TH CROSS VASANTHA NAGAR BANGALORE-560 052	12/06/2003
12	029521	Mr. KUMAR K FCA FLAT NO 203 HARSHA APARTMENTS PLOT NO 38-39 SNEHA COLONY CHIKKALASANDRA BANGALORE-560 061	01/04/2003
13	029697	Mr. JAGANNATHAN P FCA GENERAL MANAGER (F & A) SUDELETHRA (NIG) LTD KM 16 P/H ABA EXPRESSWAY P/H NIGERIA	31/03/2003
14	039860	Mr. SANJAY CHANDRA SHEKHAR RAO ACA FLAT NO.205 LUMBINI ROCK CASTLE 8-2-411 ROAD NO.6 BANJARA HILLS HYDERABAD-500 034	01/03/2003
15	045322	Ms. SEETHALAKSHMI JAGANNATHAN ACA B/4, CHAMPAKA 14 LLOYDS FIRST LANE ROYAPETTAH CHENNAI-600 014	31/03/2003
16	055707	Mr. SANTOSH KUMAR SARRAF FCA C/O MR MAHADEO REDDY A 22/12 7TH MAIN I FLOOR 46TH CROSS 4TH BLOCK RAJAJINAGAR BANGALORE-560 010	31/03/2003
17	091096	Ms. BRINDA V ACA FLAT NO H-10 ALACRITY ASHIANA APTS VENUS COLONY 2ND STREET ALWARPET CHENNAI-600 018	31/03/2003
18	091806	Mr. RAMNATH S V ACA MF 21/11 'U' BLOCK NANDINI LAYOUT BANGALORE-560 096	01/04/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
19	094680	Mr. KRISHNAKUMAR S ACA HOUSE 13 PHASE III WOOD CREEK COUNTY GANAPATHYPURAM (EXTN.) NANDAMBAKKAM CHENNAI-600 016	01/04/2003	29	205716	Mr. RAJESH K P ACA ASSISTANT MANAGER - FINANCE- MALABAR CEMENTS LTD WALAYAR PO PALAKKAD-678 624	01/04/2003
20	101704	Mr. UTTAM KUMAR C ACA 20 MEENAKSHI KOIL STREET MADURAI-625 001	01/04/2003	30	206389	Mr. VIJAY KINI K PCA FLAT NO:2C MAYFLOWERS LAKSHMI APARTMENTS 63 SULTANPALLY MAIN ROAD R T NAGAR BANGALORE-560 032	01/04/2003
21	200555	Mr. VIVEK S PCA FINANCE MANAGER-INDIA OPERATIONS FLEMINGO (DFS) PVT. LTD. TC 34/143 OPP:TRIVANDRUM INTERNATIONAL AIRPORT PETTAH VILLAGE SHANGU MUGHOM THIRUVANANTHAPURAM-695 008	31/03/2003	31	207621	Mr. UTTAM DHIRAN P ACA PROBATIONERY MANAGER THE SOUTH INDIAN BANK LTD KERALA, THRISSUR	01/04/2003
22	202473	Mr. SAI SUBRAMANIAN S V PCA PRICE WATERHOUSE COOPERS PLOT 50371, FAIRGROUND OFFICE PARK P B NO 294, GABORONE BOTSWANA	01/04/2003	32	208576	Mr. SUBRAMANIAN K ACA NEW NO.76 (OLD NO.64-A) STATE BANK COLONY EXTN. NANGANALLUR CHENNAI-600 061	31/03/2003
23	202641	Mr. RAMESHA ACA NO 11 I FLOOR IV MAIN SHANKARNAGARA MAIN ROAD SHRIKANTESHWARANAGAR BANGALORE-560 096	31/03/2003	33	208967	Mr. KAMESWARA SAI K S V ACA ACCOUNTS OFFICER JINDAL THERMAL POWER COMPANY LTD POST BOX NO.9 VILLAGE & PO TARANAGALLU DT. BELLARY, TARANAGALLU	01/04/2003
24	202884	Mr. SATHYAN L ACA MANAGER FINANCE & ADMINISTRATION BAHRAIN CONVENTION & EXHIBITION BUREAU P O BOX 11644, MANAMA BAHRAIN	01/04/2003	34	208974	Mr. SURYANARAYANAN D ACA NEW NO.27 (OLD NO.12) KALLUKARAN STREET MYLAPORE CHENNAI-600 004	31/03/2003
25	203519	Mr. THIRUGNANA SAMBANTHAM S ACA PERIYAKATTUPALAYAM KADAMPULIYUR VIA PANRUTI TALUK VALLALAR DIST KEEZHIRUPPU PO-607 103	31/03/2003	35	209391	Mr. PRAVEEN KANUMURI ACA NEW NO. 29 LUZ CHURCH ROAD (OLD NO. 13/2) MYLAPORE CHENNAI-600 004	01/04/2003
26	204734	Mr. NARAYANAN S PCA ASSISTANT MANAGER-AUDIT SAUD BAHWAN AUTOMOTIVE LLC P O BOX 3168 RUWI, POSTAL CODE 112 SULTANATE OF OMAN	01/04/2003	36	209586	Mr. RAMAKRISHNAN V ACA B-10, II FLOOR 10TH STREET PERIYAR NAGAR CHENNAI-600 082	31/03/2003
27	205067	Mr. VASUMATHI R ACA NEW NO.9 (OLD NO 4) MUNIRATHNAM STREET AYYAVU NAIDU COLONY AMINJAKARAI CHENNAI-600 029	31/03/2003	37	209673	Mr. SWAMINATHAN V ACA 59 BRINDAVAN STREET EXTENSION WEST MAMBALAM CHENNAI-600 033	31/03/2003
28	205137	Mr. JANARDHANAN K ACA 16/2 (OLD NO.65/1) TEACHERS COLONY ADYAR CHENNAI-600 020	31/03/2003	38	210364	Mr. NAGARAJAN S ACA 3/366 DEIVANAI ILLAM SUBASHINI NAGAR SURVEYAR COLONY K PUDUR MADURAI-625 007	01/04/2003
				39	210467	Mr. JAYARAMAN S ACA A2 SATHYA SAI APTS PLOT 309/310, III PHASE KAMALAPURI COLONY SECUNDERABAD-500 073	01/04/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
40	210796	Ms. ASHAA D ACA C/O M/S S B BILLIMORIA DELOITTE HOUSE 70/3 MILLER ROAD BANGALORE-560 050	17/03/2003
41	211429	Mr. SATISH SUKUMAR CHIPPALAKATTI ACA C/O GRACLE INDIA LTD 150 INFANTRY ROAD BANGALORE-560 001	31/03/2003
42	211550	Mr. DEEPAK NAIKWADI S ACA C/O K N SHANKAR NARAYAN NG G 15/5 KEMPANNA STREET SUSHEELA ROAD DODDA MAVALLI BANGALORE-560 004	01/04/2003
43	211717	Mr. PRASAD GANJI ACA 8-5-1 KARYAMPUDIVARI STREET PRAKASAM DISTRICT CHIRALA MANDALAM PERALA-523 157	01/04/2003
44	211737	Mr. NAGARJUNA POTLURI ACA SENIOR SOFTWARE ENGINEER IT SOLUTIONS (INDIA) PVT LTD 3RD FLOOR, WILLINGTON CRESCENT 6 PYCROFTS GARDEN ROAD CHENNAI-600 006	31/03/2003
45	211902	Mr. SIVAJI SASIDHARAN ACA SOUBHAGYA STERLING ESTATE KUMARANASAN ROAD KOCHI-682 017	31/03/2003
46	211907	Mr. SRINIVASAN K C ACA NEW NG 4/12 SECOND STREET TANSI NAGAR VELACHERRY CHENNAI-600 042	05/03/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
47	211953	Mr. UDAY BHASKAR N ACA OPP SBH SRI GANESH NURSING HOME KHAMMAM DIST PALONCHA-507 115	31/03/2003
48	211985	Mr. MOHAMED UMAR M ACA NO 1-C VISALAKSHIPURAM GOKUL NAGAR MADURAI-625 014	01/04/2003
49	212013	Mr. VASUKI H S ACA NG 21 3RD CROSS CENTRAL EXCISE LAYOUT VIJAYANAGAR BANGALORE-560 040	31/03/2003
50	212040	Ms. RAMYA S ACA 18/D SHREE APARTMENTS 7TH MAIN ROAD R A PURAM CHENNAI-600 028	01/04/2003
51	212226	Mr. SANJAYA KUMAR PARIDA ACA NEW NO 170 (OLD NO.64 -D) SIVAN KOIL SOUTH STREET KODAMBAKKAM CHENNAI-600 024	31/03/2003
52	212247	Mr. VAMSHIDHAR G ACA 8TH FLOOR DBS WESTMINISTER BUILDING 108 R K SALAI CHENNAI-600 004	14/01/2003
53	212637	Mr. PRASAD Y B S ACA 202 KINGS RESIDENCY OPP: SATYA SAI NIGAMA GANAM PLOT NO: 9 SRINAGAR COLONY HYDERABAD-500 073	31/03/2003

(ASHOK HALDIA)
Secretary

(Chartered Accountants)

3SCA(8)/2003-2004 In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(i) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from the dates mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
1	002076	Mr. SUBRAMANYAM N S FCA 1A, SREYAS UPASANA 32 THIRUVENGADAM STREET R A PURAM CHENNAI-600028	01/04/2003
2	002659	Mr. KOCHUNNY MENON A FCA ABHILASH AMBADI POONITHURA POST TRIPUNITHURA KOCHI-682317	01/04/2003
3	005946	Mr. BAKULCHANDRA HIRACHAND SHAH FCA F/2 PREMIER APARTMENTS FIRST FLOOR CHURCH ROAD NEAR TIPPASANDRA MARKET BANGALORE-560075	01/04/2003
4	009235	Mr. GOVIND RAGHAVAN ACA NEW NO 40, (OLD NO.60) HALLS ROAD KILPAUK CHENNAI-600010	01/04/2003
5	017110	Ms. RUBY R KAMDIN ACA 72 CUNNINGHAM APARTMENTS 5 EDWARD ROAD BANGALORE-560052	11/06/2003
6	018557	Mr. BARI SHAIK ABDUL FCA KHALID BUILDING ACHUTHA COLONY B D C C BANK LAYOUT MIRTHYUNJAYANAGAR HOSPET-583202	01/04/2003
7	018996	Mr. PAULOSE V J FCA 5054 PONNI COLONY ANNA NAGAR CHENNAI-600040	05/08/2003
8	019762	Mr. VENKATESAN N ACA FLAT NO.302, A-2 SANKAR COLONY P L LOKHANDE MARG SHIVAJI NAGAR MUMBAI-400043	31/07/2003
9	024190	Mr. PRAKASH K S FCA 'SURYA KIRAN' 36/2317 KALOOR KADAVANTHARA ROAD KALOOR KOCHI-682017	01/07/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
10	025206	Mr. VENKATA SIVAKUMAR N FCA 897, 9TH A CROSS WEST OF CHORD ROAD II STAGE BANGALORE-560086	05/06/2003
11	025691	Mr. KRISHNA N FCA 14 MURRAYS GATE ROAD ALWARPET CHENNAI-600018	18/06/2003
12	027231	Mr. JAYARAM S FCA 31/16 3RD MAIN ROAD VYALIKAVALL BANGALORE-560003	01/04/2003
13	027645	Mr. BADARINATH RAO FCA DEPUTY GENERAL MANAGER - INTERNAL AUDIT M/S ZUARI CEMENT LIMITED #1, 10TH MAIN HAL III STAGE BANGALORE	01/04/2003
14	028384	Mr. PRABAKAR B FCA 8A KATTABOMMAN CROSS STREET RADHANAGAR CHROMEPET CHENNAI-600044	14/06/2003
15	029017	Mr. RAVINDRA NATH R ACA NEW NO 22, (OLD NO 59) MAYOR CHITTI BABU STREET TRIPPLICANE CHENNAI-600005	01/05/2003
16	029832	Mr. MAMMEN SAMUEL FCA FINANCIAL CONTROLLER NOKIA (MIDDLE EAST) P O BOX 61034 DUBAI U A E	18/05/2003
17	032280	Mr. KALYANASUNDARAM R ACA A-1 / FLAT 203 LOK GAURAV L B S MARG VIKHROLI WEST MUMBAI-400083	23/06/2003
18	053958	Mr. SINHA SUBHANKAR FCA PRICE WATERHOUSE & CO MITTAL TOWER 14TH FLOOR 'B WING 47/6 M G ROAD BANGALORE-560001	18/06/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
19	055195	Mr. ROY CHOUDHURY INDRANEEL FCA 18/40 DOVER LANE I FLOOR KOLKATA-700029	20/06/2003
20	060717	Mr. GHOSH DASTIDAR SUBHABRATA ACA P O BOX 3075 RUWI, P C 112 SUITES 205 - 210 MUSCAT SULTANATE OF OMAN	16/07/2003
21	081027	Mr. MEHRA VIVEK FCA C/O PRICEWATERHOUSE COOPERS (P) LTD SUCHETA BHAWAN - 2 ND FLOOR 11-A VISHNU DIGAMBER MARG NEW DELHI-110002	05/06/2003
22	086929	Mr. SUBRAMANIAN R FCA FLAT # 9, LAKSHMI APARTMENTS NEW # 86 WARREN ROAD MYLAPORE CHENNAI-600004	05/08/2003
23	097696	Ms. OAYATRI A ACA 6-1-132/135 SKANDAGIRI PADMA RAO NAGAR SECUNDERABAD-500061	01/04/2003
24	105294	Mrs. DEEPA SAI MANOHAR ACA C/O JAYAM B PANICKER JAI VIHAR HOSPITAL ROAD KOCHI-682011	31/03/2003
25	107358	Ms. ANANTHA LAXMI P A ACA FINANCE OFFICER AIR CRAFT DIVISION HINDUSTAN AERONAUTICS LTD VIMANAPURA POST P O BOX NO 1788 BANGALORE-560017	31/03/2003
26	200551	Mr. JAIKUMAR S FCA #50, NH1, VALLAL MGR SALAI KANCHEEPURAM DISTRICT TAMILNADU MARAIMALAINAGAR-603209	30/05/2003
27	201597	Mr. SRIDHAR S ACA 26/2 AZEEZ NAGAR MAIN ROAD KODAMBAKKAM CHENNAI-600024	01/04/2003
28	201700	Mr. MYTHILI P FCA NO.A-104 PERIYAR NAOAR 70 FEET ROAD CHENNAI-600082	16/07/2003
29	201992	Mr. RAMAKRISHNANANDAM T ACA UNIT 77 5610 MONTEVIDEO ROAD MISSISSAUGA ONTARIO CANADA-L5N 2N9	22/07/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
30	202036	Mr. UMA CHANDRA SEKSHAR B FCA FLAT NO.3 RACHANA PLOT NO.31, SECTOR 12 VASHI NAVI MUMBAI-400703	31/12/2002
31	202777	Mr. SIVAKUMAR L FCA FLAT 14 KAPALEESWARAR APARTMENTS 10 OANDHI NAOAR III MAIN ROAD ADYAR CHENNAI-600020	01/04/2003
32	202973	Ms. KALYANI R ACA FLAT 14 KAPALEESWARAN APARTMENTS 10 OANDHI NAGAR III MAIN ROAD ADYAR CHENNAI-600020	01/04/2003
33	204324	Mr. ANAND S FCA 6, SECOND STREET JAGADAMBAL COLONY ROYAPETTAH CHENNAI-600014	01/04/2003
34	204410	Mr. ANISH KUMAR SINGHAL FCA NO 10, (OLD NO 144) FIRST FLOOR, SOUTH PARK ROAD OPP: SESHADRI PURAM COLLEGE NEHRUNAGAR BANGALORE-560020	16/08/2003
35	204533	Mr. SRINIVASAN G FCA NEW NO.8 OLD NO.13 JAGADAMBAL COLONY I STREET ROYAPETTAH CHENNAI-600014	04/07/2003
36	205072	Mr. KRISHNAN S ACA BLOCK 'D' 8K REGAL PALM OARDENS NEW NO.383 (OLD NO.37 E) VELACHERY TAMBARAM ROAD VELACHERY CHENNAI-600042	01/04/2003
37	205963	Mr. MATHEWS VARUOHESE FCA THEKKEPARAMPIL TIRUVALLA KERALA VALLAMKULAM P O-689541	10/05/2003
38	207257	Mr. PRAVEEN KUMAR T ACA 712 ANAND NAOAR NEW MALAKPET ANDHRAPRADESH HYDERABAD-500036	30/06/2003
39	207622	Mr. BARATH KUMAR D S ACA 33, BARATHI NAOAR II STREET MADURAVOIL CHENNAI-600095	01/04/2003
40	207772	Mr. PATTABHI SRINIVASAN ACA 282/4 SANGAM APARTMENTS BELLY AREA ANNA NAOAR [W] CHENNAI-600040	23/07/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
41	207901	Ms. SHILPA LAKHANI ACA JAYA COMPLEX 12 BALAJI NAGAR 1ST STREET ROYAPETTAH CHENNAI-600014	01/04/2003	53	210735	Ms. LAVANYA V ACA D-76 MAJESTIC PARK 48 OFF ARCOT ROAD SALIORAMAM CHENNAI-600093	01/04/2003
42	207902	Ms. MAMTA SETHIA ACA P B NO.710 MANAMA BAHRAIN	01/04/2003	54	210765	Mr. STALIN K ACA 1139 SECOND MAIN ROAD POOMPUGAR NAGAR KOLATHUR, CHENNAI-600099	05/05/2003
43	208270	Mr. SURENDRA NAYAK U ACA 'PADMA NIVAS' NEAR OLD BUS STAND DAKSHINA KANNADA UPPINANGADY-574241	01/04/2003	55	211543	Ms. VASUDHA S ACA 22-A FIRST SOUTH STREET KENNEDY SQUARE SEMBIUM, CHENNAI-600011	31/03/2003
44	208603	Mr. VENKATACHALAM N ACA (NO 8), NEW NO 5, MAHALAKSHMI AVENUE THIRUVANMIYUR CHENNAI-600041	02/05/2002	56	211710	Mr. HARI KRISHNA P ACA A-59 RAILWAY QUARTERS KACHEGUDA HYDERABAD-500027	01/06/2003
45	208628	Mr. SOMANADHAN K ACA KURUVATH HOUSE NANDIPULAM PO KERALA THRISSUR-680319	01/03/2003	57	211918	Mr. RENISH K R ACA "NIRMALYAM" ODUMBRA OLAVANNA P O KOZHICODE-673025	11/05/2003
46	208756	Mr. SAJAN ALEX MATHEW ACA T.C.48/43 KALLUVETTANKUZHIIYL ASWATHY GARDENS AMBALATHARA THIRUVANANTHAPURAM-695026	01/04/2003	58	211959	Ms. NANDHINI R ACA NO 12/44 ALAGAPPA NAOAR MANJAKUPPAM CUDDALORE-607001	01/04/2003
47	209503	Mr. SANDEEP PAI B H V ACA TILAK PARK ROAD VUJAYAPURA CHIKMAOALUR-577101	30/08/2003	59	211977	Mr. KUCHI LAKSHMI VENKATA SUDHEER ACA SENIOR EXECUTIVE (INTERNAL AUDIT) C/O A P L PVT LTD NO 1 G S T ROAD, ALANDUR CHENNAI-600016	02/06/2003
48	209773	Ms. ALPHONSA THOMAS ACA CHETHIMATTOM HOUSE KOTTAYAM DIST THOTTAKAD P O-686539	01/04/2003	60	212052	Mr. HARISH O ACA 52/167-A VAKIL NEW STREET MADURAI-625001	01/04/2003
49	209943	Ms. PALLAVI KANADE ACA MOOHAL MILLINEUM APARTMENT 3-4-835/1 BARKETPURA HYDERABAD-500027	31/03/2003	61	212246	Mr. PRAVEEN V ACA FLAT NO. 4 SRINI APARTMENTS 40/48 SOLAIAPPA STREET MYLAPORE CHENNAI-600004	01/07/2003
50	210195	Mr. SRIPAL SETHIA ACA P B NO.710 MANAMA BAHRAIN	01/04/2003	62	212686	Mr. NITESH KUMAR SHAH ACA B-24 B B C POORNIMA APARTMENTS 962 POONAMALLEE HIGH ROAD CHENNAI-600084	07/07/2003
51	210355	Mr. SURYANARAYANA MURTY MULA ACA P-103 SRI SHIVA SAI JAGANNATH APARTMENTS VISHNUPURI EXTENSION COLDNY MALKAJOIRI HYDERABAD-500047	01/04/2003	63	212755	Mr. ANIRUDDHA ANIL PHADNAVIS ACA PLOT NO 54 PRASANNA COLONY BASAVESHWAR NAOAR GOKUL ROAD HUBLI-580030	10/08/2003
52	210574	Mr. PRASANTH M ACA P B NO 23291 DUBAI U A E	01/04/2003	64	212972	Ms. VINAYA NAYAK K ACA NO.29 'SHREE' 1ST CROSS ROAD MALLESWARAM BANGALORE-560003	01/04/2003

Ashok Halodia
(ASHOK HALDIA)
Secretary